

**छोटीबड़ीबात**

आज ही के दिन 2000 में उत्तर प्रदेश से विभाजित कर उत्तराखंड को एक नया राज्य बनाया गया था।

दैनिक भास्कर

देश का विश्वसनीय अखबार


देहरादून | वर्ष-4, अंक-82 | सोमवार 09 नवम्बर 2020 | कुल पृष्ठ 12 | मूल्य 5.00 रुपये

dainikbhaskaruk.com

हरमनप्रीत और मंधाना में होगा खिताबी मुकाबला पेज 10>

फिर से शूटिंग पर लौटे रणवीर सिंह

पेज 11>



कार्यालय - नगर पालिका परिषद बाजपुर

जनपद - ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस, दीपावली, भैयादूज, गंगास्नान, गुरुपर्व व छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनायें

बाजपुर को स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर पालिका परिषद को सहयोग प्रदान करें। घर/दुकान का कूड़ा इधर-उधर न फेंके। सभी नागरिक अपने-अपने घरों व दुकानों का कूड़ा कूड़ेदान में एकत्र कर सुबह शाम नगर भ्रमण करने वाली कूड़ा गाड़ी को दें। सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करें व मास्क पहने।



जगदीश चन्द्रा
अधिसासी अधिकारी



कमलेश यादव
सभासद, वार्ड नं. 1

सादक
सभासद, वार्ड नं. 2

महेश कुमार
सभासद, वार्ड नं. 3

राजबाला भारती
सभासद, वार्ड नं. 4

परवीन जहाँ
सभासद, वार्ड नं. 5



मी० आसिफ
सभासद, वार्ड नं. 6

मिथलेश वर्मा
सभासद, वार्ड नं. 7

प्रेमवती
सभासद, वार्ड नं. 8

मोहन चौहान
सभासद, वार्ड नं. 9



मुकुंद शुक्ला
सभासद, वार्ड नं. 10

जगतजीत सिंह
सभासद, वार्ड नं. 11

राजदीप तिवारी
सभासद, वार्ड नं. 12

अनिल कुमार
सभासद, वार्ड नं. 13



विमल शर्मा
नामित सभासद

रघुवीर सिंह सहोता
नामित सभासद

गुरजीत सिंह 'गिल्ले'
अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद बाजपुर

समस्त कर्मचारी एवं स्टाफगण नगर पालिका, बाजपुर
हमारा संकल्प : स्वच्छ बाजपुर - सुन्दर बाजपुर

सारसुर्खियां

वृद्धाश्रम को दान की खाद्य वस्तुएं

देहरादून। डीपीएमआई संस्थान देहरादून ने प्रेमधाम वृद्धा आश्रम में दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में छात्रों द्वारा दान के बाद उन्हें लोको को बेचने के बाद प्राप्त धनराशि से वृद्धा आश्रम के लिए चायपत्ती, साबुन, दंत मंजन, शैंपू, दैनिक उपभोग की वस्तुओं की खरीददारी की गयी तथा उन वस्तुओं को रविवार को प्रेमधाम वृद्धा आश्रम में दान स्वरूप दिया गया। डीपीएमआई संस्थान देहरादून के निदेशक नरेंद्र सिंह ने कहा कि संस्थान की ओर से समय समय पर इस प्रकार के सामाजिक कार्यों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि डीपीएमआई अनेक बार रक्तदान शिविर चिकित्सा कैम्प और अन्य सामाजिक कार्य कर चुका है। निदेशक नरेंद्र ने कहा कि संस्थान की ओर से आगे भी समाज सेवा के कार्य जारी रहेंगे। इस आयोजन में संस्थान के निदेशक नरेंद्र सिंह के साथ अश्वनी शैली, ग्रीन फील्ड स्कूल के हरीश रावत, संस्थान की शिक्षिका संगीता कुमार तथा शुभम, सौरव व पिकी आदि उपस्थित थे।

छात्र-छात्राओं को उत्तराखंड सरकार की बड़ी सौगात

प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों-विश्वविद्यालयों को फ्री वाई-फाई सुविधा, मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने किया शुभारम्भ

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला में प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने वाला देश का प्रथम राज्य बनने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। इस दिशा में यह हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। इस सुविधा के माध्यम से प्रदेश के छात्र छात्राएं महान विद्वान लोगों से भी ज्ञान अर्जित कर सकेंगे जो अपने क्षेत्र में बहुत कुछ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और युवाओं को तय करना है कि उन्होंने इन सुविधाओं का किस प्रकार सदुपयोग करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत की



फ्री वाई-फाई शुभारंभ के अवसर पर संबोधित करते सीएम।

ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश सरकार प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को डेडीकेटेड इंटरनेट लीन लाईन के माध्यम से हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान कर रही है। इससे छात्र-छात्राओं को

ज्ञानार्जन में सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हमारा युवा आत्मनिर्भर बने। हमारा प्रयास है कि वह सिर्फ स्वयं रोजगार प्राप्त करने के लायक हो, बल्कि अन्य लोगों को रोजगार देने लायक भी बने। उच्च शिक्षा राज्य

मंत्री धनसिंह रावत ने कहा कि राज्य के 2 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। राज्य के सभी 106 महाविद्यालयों एवं 5 विश्वविद्यालयों को इंटरनेट कनेक्टिविटी का लाभ शीघ्र मिलने जा रहा है। इससे प्रदेश

सीएम ने बाइकिंग रैली को दिखाई हरी झंडी

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से आयोजित माउंटेन टैरेन बाइकिंग रैली का फ्लैग ऑफ कर शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य भौगोलिक विषमताओं से भरा प्रदेश है, जिसमें साहसिक खेलों की बहुत अधिक संभावनाएं हैं।



बाइकिंग रैली को हरी झंडी दिखाते सीएम।

प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में अलग से विभाग बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सीएम आवास से जॉर्ज एवरेस्ट तक की यह साइकिल रैली, एक साहसिक यात्रा एडवेंचर से भरपूर होगी। विधायक गणेश जोशी ने

कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण सभी सावधानियों व दिशानिर्देशों का पालन करते हुए इन कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यटकों को आमंत्रित कर रहे हैं।

के युवाओं को ज्ञानार्जन में अत्यधिक सहायता मिलेगी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष

प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक हरबंस कपूर, प्रमुख सचिव आनंद वर्धन, मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार

रविन्द्र दत्त पेटवाल, निदेशक आईटीडीए अमित सिन्हा एवं प्राचार्य डीसी नैनवाल भी उपस्थित थे।

भट्ट को हिमालय प्रहरी सम्मान से किया सम्मानित

किसी भी गुरिक्ल का सामना करने को सेना तैयार

भास्कर समाचार सेवा

मसूरी। कीर्तिनगर नागरिक विकास समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल सैन्य सचिव सेवानिवृत्त अनिल कुमार भट्ट को हिमालय प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर मसूरी समिति कीर्तिनगर नागरिक विकास की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्हें हिमालय प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया। कीर्तिनगर नागरिक विकास समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नगर में बगवाल दीपावली कार्यक्रम के साथ ही पूर्व डीजीएओ अनिल भट्ट को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इस मौके पर भैलो प्रस्तुति के साथ ही सांस्कृतिक व बगवाल कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस बारे में कार्यक्रम संयोजक प्रदीप भण्डारी ने



कार्यक्रम का शुभारंभ करते पूर्व डीजीएमओ व विधायक।

बताया कि कोरोना के मध्यनजर सीमित स्तर पर आयोजित इस बगवाल समारोह में प्रदेश के अनेक प्रमुख लोक कलाकारों द्वारा अपनी स्वर लहरियों से लोक सांस्कृतिक गीत गाकर दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। वहीं इस मौके पर सेवानिवृत्त डीजीएमओ ने कहा कि भारतीय सेना किसी भी गुरिक्ल का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस मौके पर मुख्य कलाकारों में मेलोडी किंग जितेंद्र

पंवार, प्रसिद संगीतकार संजय कुमोला, आवाज संगीतकार दी विनर मनु वन्दना, प्रेरणा भण्डारी, सुष्मा सिंह, प्रमिला पंवार नेगी, गम्भीर जयाड़ा तथा मसूरी के अनेक बाल कलाकारों ने अपनी प्रस्तुती पेश की। समारोह में विधायक गणेश जोशी, पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन मल्ल, मनगो गौतियाल, समिति अध्यक्ष देवेश्वर प्रसाद जोशी, धर्मपाल आदि मौजूद रहे।

मधुमेह रोगियों को कोविड-19 होना खतरनाक: डॉ योगेश

मैक्स हॉस्पिटल ने चलाया जागरूकता अभियान

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। इस समय जारी कोविड-19 महामारी के दौरान डायबिटीज के बारे में जागरूकता कायम करते हुए, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, देहरादून के प्रमुख एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉ योगेश यादव ने कहा कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए कोविड-19 को लेकर जो मुख्य चुनौती है वह यह है कि मधुमेह रोगियों को हालांकि कोविड होने का खतरा अन्य लोगों के समान ही होता है लेकिन अगर यह बीमारी उन्हें हो गई तो उनके लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह बात विषय डायबिटीज दिवस के अवसर पर मैक्स अस्पताल में आयोजित एक जागरूकता अभियान के दौरान कही गयी। डॉ यादव ने कहा कि लोगों में यह गलत धारणा है कि डायबिटीज (टाइप 1 और टाइप 2) से पीड़ित लोगों में कोविड संक्रमण का खतरा अधिक होता है। जबकि

मैक्स हॉस्पिटल ने चलाया जागरूकता अभियान

वास्तविकता यह है कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों को सामान्य आबादी की तुलना में कोरोना वायरस संक्रमण होने की अधिक संभावना नहीं होती है। मधुमेह रोगियों को हालांकि कोविड होने का खतरा अन्य लोगों के समान ही होता है। हालांकि डायबिटीज से पीड़ित लोगों में डायबिटीज रहित लोगों की तुलना में गंभीर जटिलताएं और मृत्यु दर अधिक है और हम मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जितनी अधिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे डायबिटीज (उदाहरण के लिए, हृदय या गुर्दे की बीमारी) होती है, किसी भी वायरस के संपर्क में आने पर जटिलताएं होने की संभावना भी उतनी ही अधिक होती है। वृद्ध लोगों को भी अधिक जोखिम रहता है।

नैनीताल बैंक की शाखाओं का हुआ उद्घाटन

सस्ती दरों पर मिलेगी ऋण सुविधाएं: पंत

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। नैनीताल बैंक की दो नवीन शाखाओं क्रमशः भाऊवाला, देहरादून एवं छिद्रवाला, देहरादून शाखा का उद्घाटन बैंक के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश पंत ने देहरादून स्थित परिसर में दीप प्रज्वलित कर किया। पंत ने इस अवसर पर प्रतीक स्वरूप फीता काटा तथा उद्घाटन से संबंधित अन्य औपचारिकताएं पूरी की। इसके साथ ही बैंक की शाखाओं की कुल संख्या बढ़कर 150 हो गयी है। इस अवसर पर आयोजित एक सादे समारोह में क्षेत्र के नागरिकों, प्रमुख ग्राहकों, अन्य उपस्थित आगंतुकों को संबोधित करते हुए पंत ने बैंक की महत्वाकांक्षी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि बैंक उत्तराखंड के विकास के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक एवं व्यावसायिक



शाखा का उद्घाटन करते नैनीताल बैंक अध्यक्ष।

प्रतिष्ठानों को सरल एवं सस्ती दरों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने आगे बताया कि बैंक अपनी विस्तार योजना के अंतर्गत 2023 तक शाखाओं की संख्या को 200 एवं बैंक के व्यवसाय को 20 हजार करोड़ तक ले जाने के लक्ष्य पर कार्य कर रहा है। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक अजय सेठ, कमल सिंह रावत,

चमन लाल, अंकुर भदोरिया, सुरेन्द्र सिंह बर्धवाल, मानवेन्द्र सिंह, दान सिंह, राज कुमार राणा, सुरजीत यादव, राम थापा (ग्राम प्रधान), अंकुर गर्ग, शुभम राणा, युके बिष्ट, दिगम्बर केतहट, आरुण मेहता, गोविंद सिंह कंडारी इत्यादि नागरिक, ग्राहक एवं अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रूचि अस्वाल कंडारी ने किया।

नोट बंदी से काले धन वाले हुए दुखी: मसीन

देहरादून। नोट बंदी को लेकर कांग्रेस द्वारा की गई पत्रकार वार्ता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ देवेन्द्र भसीन ने कहा कि नोट बंदी से वही लोग और संगठन दुखी हुए जिनके पास काला धन था। चार वर्ष बाद भी कांग्रेस का विलाप यही दर्शाता है कि उसके नेताओं को अपना काला धन बर्बाद हो जाने का दर्द आज भी सता रहा है। डॉ भसीन ने कहा कि काले धन के खिलाफ कार्यवाही में प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का जो कदम उठाया उसका कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए विरोध से उसी समय साफ हो गया था कि कांग्रेस नेताओं को अपना व अपने लोगों का काला धन बर्बाद होने की बड़ी पीड़ा हुई है। यह पीड़ा आज भी है। उन्होंने कहा कि हास्यास्पद रिश्ते यह भी रही कि इनके नेता राहुल बैंक से चार हज़ार के नोट बदलने को दो करोड़ की कार में गए थे।

पारंपरिक गोर्खा नृत्य व गीतों ने किया मंत्रमुग्ध

गोर्खा दशै-दीपावली महोत्सव का आयोजन

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। वीर गोर्खा कल्याण समिति के तत्वावधान में गोर्खा दशै-दीपावली महोत्सव 2020 कार्यक्रम का आयोजन रविवार को सुभाष नगर चौक स्थित एक वेडिंग प्लाईट में किया गया। कोविड-19 के कारण इस बार कार्यक्रम को थोड़ा सीमित किया गया। इसमें समिति के कार्यकारिणी कार्यकर्ता सदस्य व समाजसेवी अतिथियों व मीडिया के साथ सुक्ष्म रूप से मनाया गया। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अनुष्का, बनाका, वर्षा ने दीपावली से पूर्व गाये जाने वाले गीत 'भईलिनी' गीत पर शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। इस



पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करती युवतियां।

अवसर पर अन्य कलाकारों ने कीउरा नृत्य (गोर्खा पारंपरिक नृत्य) व पंचे बाजा (गोर्खा पारंपरिक वाद्ययंत्र) की शानदार प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में शिकायना मुखिया (प्रख्यात गायिका),

अनुष्का पाण्डे (6 साल की बाल गायिका) व सोनली राय (प्रसिद्ध गायिका) ने अपने गीतों के माध्यम से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में टीडी भूटिया, अध्यक्ष गोर्खा कल्याण परिषद (राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त), डीएस मान

(चेयरमैन दूत इंटरनेशनल स्कूल), अजय सिंगारी (पूर्व अध्यक्ष दूत क्लब) धीन्द्र पंवार (विशेष कार्यअधिकारी माननीय मुख्यमंत्री), कुणाल शमशेर मल्ल, संतोष कुमार गुप्ता (समाज सेवक), आनंद थापा, चंदर सिंह

रैली में रमेश ने किया पहला स्थान हासिल

विजेता प्रतिभागियों को दिया गया पुरस्कार

भास्कर समाचार सेवा

मसूरी। राज्य स्थापना दिवस पर हील विद व्हील्स साईकिल रैली का पुरस्कार गणेश जोशी व पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर निदेशक पर्यटन प्रशांत आर्य ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साईकिल रैली का आयोजन किया गया। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। वहीं साईकिल रैली में दुतीय स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी मोहित उषान ने अपना सम्मान रैली में तृतीय व चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को दे दिया।

मसूरी। राज्य स्थापना दिवस पर हील विद व्हील्स साईकिल रैली का पुरस्कार गणेश जोशी व पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर निदेशक पर्यटन प्रशांत आर्य ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साईकिल रैली का आयोजन किया गया। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। वहीं साईकिल रैली में दुतीय स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी मोहित उषान ने अपना सम्मान रैली में तृतीय व चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को दे दिया।

मसूरी। राज्य स्थापना दिवस पर हील विद व्हील्स साईकिल रैली का पुरस्कार गणेश जोशी व पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर निदेशक पर्यटन प्रशांत आर्य ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साईकिल रैली का आयोजन किया गया। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। वहीं साईकिल रैली में दुतीय स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी मोहित उषान ने अपना सम्मान रैली में तृतीय व चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को दे दिया।

दैनिक भास्कर
स्वास्थ्यकारि, मुद्रक एवं प्रकाशक संजय कुमार अग्रवाल
संपादक: संजय कुमार अग्रवाल
संपादकीय कार्यालय: 51/5 राजपुर रोड, निगर सोएन. आई. चर्च, देहरादून, 248001
कार्यालय: 0135-2655500
मोबाइल: +91-6396754808
website: dainikbhaskaruk.com
Edithbaskaruk@gmail.com
*इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं प्रकाशन के लिए पी.आर.बी. एडिट के अंतर्गत उत्तरदायी।
UTTHIN/2017/74028

मेघ: अच्छे व्यावसायिक अवसर आपके व्यवसाय को बढ़ाने और विस्तृत करने में अति सहायक सिद्ध होंगे। आप नव अतिथियों में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार होंगे। कार्यस्थल पर आ रही समस्या के निदान के लिए वहां पर वास्तु अनुरूप परिवर्तन करें, सुरत लाभ होगा। हवाई यात्रा के योग बन रहे हैं। पारमार्थिक कार्यों में शामिल होंगे।
तुला: आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, आज आप के वाक चातुर्य से कार्य बन जाएंगे। धिता त्यागत हुए व्यर्थ सोचना बंद करें, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन, आपके शत्रु नुकसान पहुंचा सकते हैं, अतः सतर्क रहें। हनुमान जी के सेवा से लाभ होगा। कोई भी कदम उठाने से पहले सोच लें की उसका असर कहाँ तक जाएगा ताकि फेंसल से सुझबुझ से किये जा सकें।

गुरु: एक समय पर एक ही काम करें। बेहतर उन्नति के लिए अपने व्यवहार और कार्य प्रणाली में बदलाव लाएं। आर्थिक रूप से यह एक शुभ दिन है। लंबी अवधि में भारी लाभ अर्जित करने के लिए में आप नए उद्यम में निवेश कर सकते हैं। किसी रिश्ते की ओर इच्छा बढ़ते चले जाने की बजाए अपनी मेहनत को सुदृढ़ करने की कोशिश करनी होगी।
वृश्चिक: आज मौज मस्ती पर धन खर्च होगा। उत्पन्न मिलने की संभावना के साथ ही लोगों से संपर्क बढ़ेगा। वाहन सुख संभव है। लेकिन, पड़ोसियों से आज विवाद की संभावना के बीच स्वास्थ्य में सुधार के लिए डॉक्टर बदलना पड़ सकता है। धन के लेन-देन को लेकर परेशानी रहेगी। एक तरफ आप सामाजिक समारोह में बंद-चढ़ कर भाग लेना चाहेंगे।

मिथुन: ग्रह अनुकूल है। आज के दिन आप के कार्यों में गति आएगी। जिससे मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलने की संभावना के बीच पारिवारिक सहयोग मिलेगा। समय रहते जरूरी कार्य पूरे कर लें। दूर स्थान की यात्रा करने से बचें। प्रेम की अभिव्यक्ति में अतिरोगित न करें।
धनु: कार्यस्थल पर खुशनुमा माहौल की संभावना के बीच आज धन प्राप्ति के योग हैं। रंगमंच से जुड़े जातकों के मान में वृद्धि होगी। वहीं परिवार में आई समस्या का निदान होगा। लेकिन, समय की अस्थिरता से परेशान रहेंगे। माता-पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यात्रा संबंध लाभकारी रहेगा। कोई मित्र सहयोग नहीं करेगा।

कर्क: पारिवारिक आयोजन से दूरिया मिट सकती हैं। यदि पेटुक संपत्ति के संबंध में कोई मामला लौबित है तो यह आपके पक्ष में तय किया जाएगा। परिवार में कुछ शुभ समाचार प्राप्त होंगे और उत्सव हो सकता है। बहुत सारी अच्छाईयां भी हैं साथ जुड़ी हुई इसलिए अपनी कोशिशों से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है ऐसा ही कहते हैं आपके तारे।
मकर: आज खानपान पर पूर्ण नियंत्रण रखें। अकरमात आर खर्च से बजट प्रभावित होगा। आज भी कार्य पूरे नहीं हो पाने की संभावना के बीच किसी से अकारण विवाद हो सकता है। किसी अनजान पर भरोसा न करें। मानसिक अस्थिरता को दूर करें और समय पर समाप्त करने का प्रयास करें।

सिंह: आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, विदेश जाने के योग होने के साथ ही आज नया व्यापार शुरू हो सकता है। लेकिन, कानूनी अडचनों की संभावना के बीच किसी बात से बेचैन रहेंगे आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आय के स्रोतों से विशेष लाभ के योग धार्मिक यात्रा के योग जल विभागों से सफलता की प्राप्ति होगी।
कुंभ: व्यापारिक उन्नति के अवसर की संभावना के बीच कार्यों में आ रही परेशानी से सहज ही निकल जाएंगे। बर्तन व्यापारियों के लिए समय उपयुक्त है। परोपकारी बनें। बुजुर्ग रिश्तेदारों से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। परेशानी यह ही की कुछ समय से आपकी मेहनत में कमी आ चुकी है जिस और आप पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे।

कन्या: कई दिनों से अटक मसले आज सुलझ सकते हैं। किसी प्रभावकारी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। लेकिन, ध्यान रहे समय रहते अपनी गलतियां सुधार कर लें। प्रतिष्ठित लोगों से सहयोग मिलेगा। अपनी कोशिशों को थोड़ा सा भाव दे लेंगे से बहुत कुछ आपके हित में बन सकता है।
मीन: आज के दिन आप थोड़ा सावधान रहे, धैर्य रहे जल्द बाजी में नुकसान हो सकता है। कानूनी कार्यों में उलझ सकते हैं। मामूली बात पर विवाद संभव है। भाई बहनों के साथ समय व्यतीत होगा। अनावश्यक मामलों में टांग न अड़ायें। वाहन चलाते समय सावधानी रखनी आवश्यक है।

आज का राशिफल
कुंडली बनवाने के लिए संपर्क करें
पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री, हरिद्वार
मो. 9837081951



छोटीबड़ीबात

आज ही के दिन
1270 में महान संत
नामदेव का जन्म
हुआ था।

दैनिक भास्कर

देश का विश्वसनीय अखबार

देहरादून | वर्ष-4, अंक-82 | सोमवार 09 नवम्बर 2020 | कुल पृष्ठ 12 | मूल्य 5.00 रुपये

dainikbhasarak.com

हरमनापित और मंथाना में होगा खिताबी मुकाबला पेज 10 >

फिर से शूटिंग पर लौटे रणवीर सिंह

पेज 11 >



सारसुर्खियां

ओबामा ने दी जीत की शुभकामनाएं

वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शनिवार को डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवार जो बिडेन को राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं बिडेन और हैरिस को बधाई देते हुए गर्व महसूस कर रहा हूँ। हम खुशनसीब हैं कि बिडेन में वो सभी बातें हैं, जो एक राष्ट्रपति में होनी चाहिए। मुझे पता है कि वह हर अमेरिकी के हित में काम करेगा, चाहे उसके पास उसका वोट हो या न हो। इसलिए मैं हर अमेरिकी को उसे मौका देने और उसे अपना समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ।

जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदला

नई दिल्ली। सरकार ने जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात में घोषणा और हजीरा के बीच रोपेक्स फेरी सर्विस प्रारंभ करने के मौके पर अपने संबोधन में यह जानकारी दी। उन्होंने वरुण संबोधन में कहा अब जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदला जा रहा है। अब यह मंत्रालय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा।

कालेधन पर अंकुश लगाने में एतिहासिक रही नोटबंदी

चौथी वर्षगांठ पर बोले प्रधानमंत्री, देश की प्रगति में महत्वपूर्ण निर्णय हुआ साबित

नई दिल्ली। नोटबंदी की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि इससे काले धन को कम करने में मदद मिली है। नोटबंदी से कर जमा करने में वृद्धि हुई है और पारदर्शिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की आधी रात से 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी, जो उस समय चलन में थे।

पीएम मोदी ने रविवार को ट्विटर पर विमुद्रीकरण के अपनी सरकार के फैसले के लाभों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी



देश को सशक्त करने वाला निर्णय था नोटबंदी

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि नोटबंदी देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए उठाया गया कदम था। इसके चार वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। चौहान ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि मोदी के नेतृत्व में लिए गए इन निर्णयों से भारत में एक नया युग प्रारंभ हुआ है। वर्षों से चले आ रहे भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने में इससे काफी मदद मिली है। नोटबंदी के कदम से नागरिकों का मोदी के नेतृत्व में विश्वास बढ़ा है। इस कदम से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिला है और नागरिक डिजिटल पेमेंट को लेकर जागरूक हुए हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और आर्थिक लेनदेन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है।

ने कालेधन को कम करने में, कर अनुपालन बढ़ाने में तथा पारदर्शिता सुदृढ़ करने में मदद की है। ये परिणाम देश की प्रगति के लिए

बहुत लाभकारी रहे हैं। उन्होंने एक ग्राफिक साझा करते हुए बताया कि किस तरह से विमुद्रीकरण से कर जमा होने में

वृद्धि हुई, कर तथा जीडीपी अनुपात बढ़ा, भारत अपेक्षाकृत कम नकदी आधारित अर्थव्यवस्था बना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिली।

धीमी होने लगी कोरोना संक्रमण की रफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी होने के बावजूद प्रतिदिन 40 से 50 हजार नये मामले सामने आ रहे हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 85 लाख के पार पहुंच गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक 78.69 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के

अनुसार शनिवार को 45,674 नये मामले सामने आए। वहीं 49,082 मरीज स्वस्थ हुए और 559 की मृत्यु हुई है। देश में इस महामारी अब तक 85.07 लाख लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 78.69 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं तथा 1,26,121 लोगों की मृत्यु हुई है। नये मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक है।

महाराष्ट्र में मी आई कोरोना मामलों में कमी

मुंबई। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित हुए महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों में लगातार कमी आने से इनकी संख्या एक लाख रह गयी है। पिछले 24 घंटों के दौरान इनकी संख्या घटकर 1,00,068 रह गई है, जबकि इस दौरान 150 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 45,115 हो गयी है। वहीं इस दौरान 6,748 लोग स्वस्थ हुए हैं, वहीं स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 15.69 लाख से अधिक हो गई है।

आडवाणी को मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और आशीर्वाद लिया। आडवाणी का रविवार को 93 वां जन्मदिन था। मोदी ने आडवाणी के साथ उनके आवास पर खींची गई तस्वीरों को साझा करते हुए कहा कि

2022 तक करना होगा इंतजार

नई दिल्ली, एजेंसी। एम्स दिल्ली के निदेशक एवं देश में कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रबंधन के लिए गठित नेशनल टास्क फोर्स के सदस्य डॉ. रणदीप गुल्लरिया ने रविवार को कहा कि आम लोगों को कोरोना वैक्सिन के लिए वर्ष 2022 तक इंतजार करना होगा। भारतीय बाजार में कोविड-19 के लिए कारगर वैक्सिन उपलब्ध होने में ही एक साल से अधिक समय लग जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की आबादी बहुत अधिक है और बाजार से कोरोना वैक्सिन कैसे एक फर्क वैक्सिन की तरह खरीदी जा सके, यह जानने में वक्त लगेगा। ऐसा होने पर ही आदर्श स्थिति होगी और यह वर्ष 2021 के अंत तक या वर्ष 2022 की शुरुआत तक ही संभव होगा।

अमेरिका के दिल में बसता है लोकतंत्र: जो बिडेन

वाशिंगटन, एजेंसी। पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पद की ओर से उम्मीदवार जो बिडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने की दौड़ में रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप को मात दे दी है। पेन्सिलवैनिया जैसे महत्वपूर्ण राज्य जीतते ही बिडेन ने 270 इलेक्टोरल वोट्स के जादुई आंकड़े को छू लिया।



● बिडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में ट्रंप को हराया

● कहा- आगे का रास्ता मुश्किल, लेकिन निमाऊंगा साथ

डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन ने अमेरिका के इतिहास में सर्वाधिक मतों से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने का दावा किया है। बिडेन ने कहा कि इस राष्ट्र के लोगों से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें एक स्पष्ट जीत दी है, एक ठोस जीत, राष्ट्र के इतिहास में राष्ट्रपति पद के लिए अब तक के सबसे अधिक वोटों के साथ जीत दी है। उन्होंने अमेरिका को युनियन में फिर से सम्मानित देश के रूप में स्थापित करने का संकल्प भी लिया है।

मीडिया हाउस द्वारा अपनी जीत के दावों के सार्वजनिक होते ही बिडेन ने एक ट्वीट कर कहा कि अमेरिका आपने मुझे इस महान देश का नेतृत्व करने के लिए चुना है, मेरे लिए ये सम्मान की बात है। आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आप सभी को भरोसा दिलाता हूँ कि मैं सभी अमेरिकी को राष्ट्रपति रहूंगा। भले आपने मुझे वोट दिया हो या नहीं। आपने मुझ पर जो भरोसा किया है, मैं उस पर

खरा उतरूंगा। मीडिया हाउस द्वारा बिडेन के राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने की घोषणा होते ही उनकी चुनावी अभियान टीम ने भी बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि अमेरिकी लोगों ने मुझ पर और उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैरिस पर जो भरोसा जताया है, उससे मैं सम्मानित और विनम्र महसूस कर रहा हूँ। अमेरिका के लोगों ने कई तरह की विषम परिस्थितियों के बावजूद रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया। इसने एक बार फिर साबित कर दिया कि लोकतंत्र अमेरिका के दिलों में है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने जा रही भारतीय मूल की कमला हैरिस ने ट्विटर पर लिखा कि मेरे और जो बिडेन के लिए ये चुनाव बेहद अहम था।



उत्तराखण्ड शासन



पंचायती राज

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी माननीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध ग्रामीणजनों का पंचायतीराज विभाग की तरफ से हार्दिक अभिनन्दन एवं शुभकामनाएं।

पंचायतीराज विभाग द्वारा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर निम्न कार्यक्रम प्रारम्भ किये जा रहे हैं:-

1. उत्तराखण्ड में न्याय पंचायत स्तर पर आई टी डी ए के माध्यम से CSC-SPV के द्वारा सभी 662 न्याय पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर का मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी द्वारा शुभारम्भ।
2. त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी माननीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं हितधारकों के क्षमता विकास हेतु पंचायतीराज विभाग में हैल्प डैस्क प्रणाली की स्थापना।
3. हैल्प डैस्क प्रणाली के सुचारू संचालन हेतु पंचायतीराज निदेशालय भवन का आधुनिकीकरण कर Smart and Eco Friendly Office के रूप में परिवर्तन।
4. त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी माननीय पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता विकास हेतु विशेष रूप से तैयार ऑन लाईन प्रशिक्षण मॉड्यूल (Audio/Video) द्वारा विभागीय वेबसाइट/यू-ट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण।
5. 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में क्षेत्र पंचायत विकास योजना का शुभारम्भ।
6. 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में जिला पंचायत विकास योजना का शुभारम्भ।

अतः राज्य की समस्त पंचायतों (ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत) से अपील है कि वे उपरोक्त योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपनी पंचायतों के समग्र विकास में अपना योगदान दें तथा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार-2021 (मूल्यांकन वर्ष 2019-20) हेतु <http://panchayataward.gov.in> पर ऑनलाइन नामांकन कर पुरस्कारों हेतु प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

(हरिचन्द्र सेमवाल)

सचिव/निदेशक,
पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड।

समस्त देश व प्रदेश वासियों को
दीपावली
की
हार्दिक शुभकामनाएं

मां भगवती आपके परिवार में सदैव सुख, समृद्धि और खुशी का माहौल बनाए रखें।

OASIS CITY COLONY

Rera Approved

Rampal Gupta

एक अच्छी सोसाइटी में आपका स्वागत है

मकान, दुकान, विला व प्लॉट खरीदने के लिए सम्पर्क करें।

✉ Rampal gupta1921@gmail.com
📍 Daksh choraha, Teenpani Dam Road Fulsunga, Rudrapur (U.S.Nagar)
☎ 8755706686, 9259063693

Add:- Daksh Choraha
Teen pani Dam Road Fulsunga Rudrapur (U S Nagar)

सारसुर्खियां

वाल्मीकि चौक के सौंदर्यकरण की मांग

हरिद्वार। दलित आर्मी सामाजिक संगठन हरिद्वार के संस्थापक व प्रदेश अध्यक्ष नवीन तेश्वर व विभाग अध्यक्ष अमित कुमार मुल्तानीया के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक उत्तराखंड सरकार को ललतारा पुल स्थित भगवान वाल्मीकि चौक के सौंदर्यकरण के लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वालों में राकेश गौड़िया, दीपक चाविया, राकेश लोहाट, अमित मंगोलिया, ललित वाल्मीकि, दिग्विजय सिंह रवि, मुकेश, हनी चौटाला, अमन, मोहन, कमल उनीयाल, पवन काण्डा आदि शामिल रहे।

टिहरी सांसद ने नहीं उठाया क्षेत्र का मुद्दा: प्रीतम

भास्कर समाचार सेवा

विकासनगर। उत्तराखंड उर्जा कामगार संगठन प्रांतीय विशेष कार्यकारिणी का गठन एक बार फिर से दो साल के लिए पुन बढाए जाने को लेकर प्रदेश से आए सभी पदाधिकारियों ने एकमत के साथ सहमति दी।

बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम ने संगठन की मांगों पर भरपूर दिलवाने की बात कही। कहा कि प्रदेश के निर्माण बीस साल बाद भी प्रदेश का जिस तरह से विकास होना था नहीं हो पाया। कहा कि टिहरी की सांसद ने मजदूरों के हितों की बात कभी भी संसद में नहीं रखी। जिससे केन्द्र सरकार ने श्रमिक कानून बनाने समय और भी

उत्तराखंड उर्जा कामगार संगठन का कार्यकाल बढ़ा

सशक्त कर दिया। राकेश शर्मा प्रांतीय अध्यक्ष उर्जा कामगार संगठन ने कहा कि प्रमुख मान उत्तर प्रदेश के समय पुरानी पेशन को बहाल कर बेतन विसंगत, संविदा कर्मी को सम्मान वेतन, तीनों योजनाओं में भर्ती की जाए, जिससे उत्तराखंड में बेरोजगारी कम है। निगमों को एकीकरण किया जाए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष संजय किशोर, शहराध्यक्ष शम्मी प्रकाश, लाल चंद शर्मा, पछवांन्द मीडिया प्रभारी रिकु कन्नौजिया, हन्नी सपल समेत कई लोग मौजूद थे।

मेयर का ऑडियों वायरल होने से शहर में मची हलचल

भास्कर समाचार सेवा

नहीं की कोई गलत बात: मेयर

रुड़की। अनुशासित कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की जुवान अकसर फिसल जाती है जिसकी वजह से पार्टी की फजीहत होने लगती है। ऐसा ही एक मामला रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोलयल के बड़बोलेपन की वायरल ऑडियो की वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है लेकिन उसी के कुछ नेता पार्टी की छवि को धूमिल करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सत्ता का नशा हो या फिर पार्टी के चाबुक का डर इन लोगों के मन में ना हो यह भी एक वजह हो सकती है कि अनुशासित पार्टी के नेता लगातार

रुड़की। मेयर गौरव गोलयल ने कहा कि वायरल ऑडियो में मेरे द्वारा कोई गलत बात नहीं कही गई है। नहीं किसी तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। रबड़ स्टैप अधिकारी चाहिए वाली बात पर उन्होंने कहा कि हमें काम करने वाले अधिकारी चाहिए वैसे निगम के अधिकारी हमारे लिए कोई गलत नहीं है। गहमागहमी में मुंह से कुछ निकल जाता है, गलत बोलना हमारे स्वभाव में भी नहीं है। अनुशासनहीनता कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि गत दिवस वायरल हुई ऑडियो में रुड़की के मेयर गौरव गोलयल एक कर्मचारी पर गुस्सा निकालते हुए अपने आप को नगर निगम का मालिक बोलते हुए कर्मचारी को जहाँ नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं वही निगम अधिकारियों के 2 दिन में तबादला कराने की बात भी कर रहे

रुड़की। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता ने कहा कि मेयर गौरव गोलयल ने जो कहा वे उनका निजी मत है इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है पार्टी इस विषय पर गंभीर है जो भी आवश्यक होगा पार्टी अध्यक्ष इस पर संज्ञान लेंगे।

रुड़की। पूर्व मेयर यशपाल राणा ने कहा कि यह केवल कमीशन खोरी का चक्कर है गौरव गोलयल को अपने स्वार्थ छोड़कर कार्य करना चाहिए। जनता ने आप को चुना है आप जनता की सेवा करें। मेयर गौरव गोलयल प्रथम नागरिक के नाम पर भी कलंक लगा रहे हैं।

की फजीयत होनी तो लाजमी है क्योंकि भाजपा अनुशासित पार्टी है ऐसे में अगर भाजपा के किसी नेता के बोल इस तरह के हो तो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है जबकि वर्तमान में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को अनुशासित करते हुए व्यवहार कुशल बनने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेयर साहब को जिम्मेदार

अधिकारियों की जगह रबड़ स्टैप अधिकारी क्यों चाहिए, रबड़ स्टैप अधिकारियों से मेयर क्या कुछ कराना चाहते हैं? मेयर गौरव गोलयल ऐसा क्या करना चाहते हैं कि केवल 2 दिन में अधिकारियों के तबादले की बात कह रहे हैं। जहाँ वायरल ऑडियो से रुड़की क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है।

संतों को मिले समुचित सुविधाएं: श्रीमहंत दुर्गादास

कुंभ मेला अधिकारी ने किया बड़ा उदासीन की छावनी का निरीक्षण

अखाड़े में ही लगते हैं संतों महात्माओं के शिविर

भास्कर समाचार सेवा

हरिद्वार। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत व अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह तथा श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के मुखिया महंत व कुंभ मेला प्रभारी श्रीमहंत दुर्गादास महाराज ने कनखल स्थित अखाड़े की छावनी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुंभ मेला प्रभारी श्रीमहंत दुर्गादास महाराज ने मेला प्रशासन के अधिकारियों को बताया कि कुंभ के दौरान देश भर से आने वाले संत महापुरुषों के शिविर अखाड़े की छावनी में ही स्थापित किए जाते हैं। संत महापुरुषों की सुविधा के लिए छावनी में बिजली, पानी, शौचालय तथा नियमित साफ सफाई आदि की उचित व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। उन्होंने संत महापुरुषों की सुविधाओं के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की भी मांग करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुंभ मेले के दौरान संत महापुरुषों की छावनियों व शिविर में भीड़ एकत्र ना हो इसको लेकर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए भी संत समाज



छावनी का निरीक्षण करते कुंभ मेलाधिकारी

प्रभावी कार्य योजनाएं बना रहा है। महंत निर्मलदास महाराज ने कहा कि छावनियों व शिविर के आसपास मूलभूत सुविधाएं संत महापुरुषों को मिलनी चाहिए। बिजली, पानी, स्वास्थ्य व पार्किंग स्थलों की समुचित व्यवस्था की जाए। छावनियों व शिविरों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी किए जाने चाहिए। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि कुंभ के दौरान संत महापुरुषों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मठ, मंदिरों, आश्रम, अखाड़ों के संत महापुरुषों व प्रबंधकों से लगातार विचार विमर्श भी किया जा रहा है। संतों की भावनाओं के अनुरूप ही सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है मांगों: महंत

हरिद्वार। श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की एक्कड़ कला शाखा के महंत व आरएसएस के पर्यावरण विभाग के जिला प्रमुख महंत अमनदीप सिंह महाराज के संयोजन तथा अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह के तत्वावधान में शंकराचार्य चौक स्थित गंगा घाट पर वृद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान महंत अमनदीप सिंह महाराज ने कहा कि गंगा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बिन्दु है। गंगा में किसी भी तरह की गंदगी व अवशिष्ट पदार्थ नहीं फेंके जाने चाहिए। सभी की सहभागिता से ही गंगा को अद्विजल व निर्मल बनाया जा सकता है। अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह गंगा के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। उन्होंने गंगा सफाई अभियान में हिस्सा लेकर अन्य लोगों को गंगा सफाई के लिए

प्रेरित किया। गंगा घाटों का सौंदर्यकरण, फ्लाईओवर, पुलों, सड़कों का निर्माण तेजी के साथ किया जा रहा है। आरएसएस के जिला प्रवक्ता अमित व बजरंग दल के जिला संयोजक नवीन तेश्वर ने कहा कि गंगा की अद्विजलता, निर्मलता व स्वच्छता को लेकर आम जनमानस को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। गंगा बंदी के दौरान घाटों को स्वच्छ सुन्दर बनाए रखने के लिए शंकराचार्य चौक स्थित गंगा घाट पर सफाई अभियान चलाते हुए कूड़ा कचरा साफ किया गया। सफाई अभियान में जयेंद्र तोमर, अजय जोशी, बबलेश चैहान, कार्तिक दिवाकर, अमित मुलतानिया, जोनी कश्यप, निखिल, सुमित शर्मा, अंकुश पाल, अमन सैनी, सागर, कपिल पाल सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे।

अपर मेलाधिकारी ने किया घाट का निरीक्षण

भास्कर समाचार सेवा

हरिद्वार। हनुमान घाट स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के महंत स्वामी रविपुरी महाराज के घाट की रेलिंग की मरम्मत व सफाई कराने की मांग किए जाने पर मेला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। अपर मेलाधिकारी डा. ललित नारायण मिश्रा ने हनुमान घाट पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने दो दिन के अंदर घाट की रेलिंग जोड़ने, सफाई और पेंटिंग आदि का काम शुरू करने का आश्वासन दिया है। महंत स्वामी रविपुरी महाराज ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बाजारों में



घाट का निरीक्षण करते अपर मेलाधिकारी

आए जंगली हाथी ने घाट की रेलिंग तोड़ दी थी। रेलिंग टूटी होने की वजह से घाट पर स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के साथ

दुर्घटना होने का भय बना रहता है। लगभग छह महीने बीतने के बाद भी रेलिंग ठीक नहीं कराए जाने पर उन्होंने मेला अधिकारी दीपक रावत को समस्या से अवगत कराया था। गंगा बंदी के दौरान घाटों के सौंदर्यकरण सहित विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन हनुमान घाट पर अब तक कार्य शुरू नहीं किए गए हैं। घाट पर साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं होने गंदगी भी फैली रहती रहती है। महंत रविपुरी महाराज ने बताया कि देर शाम अपर मेलाधिकारी डा. ललित नारायण मिश्रा हनुमान मंदिर पहुंचे। अपर मेला अधिकारी ने टूटी रेलिंग का निरीक्षण किया और दो दिन में रेलिंग की मरम्मत के साथ सफाई और पेंटिंग आदि का कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया है।

पुलिस की मौजूदगी में भी गुजरते रहे अवैध खनन के वाहन

भास्कर समाचार सेवा

लक्सर। क्षेत्र में अवैध खनन की गतिविधियों संबंधित लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों पर चेकिंग के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक राजन सिंह ने लक्सर-रुड़की मार्ग पर स्थित कुआखेड़ा चेकपोस्ट के सामने से होकर गुजर रहा अवैध खनन सामग्री से लदा वाहन पकड़ लिया जिसके बाद उनके निर्देश पर पहुंचे लक्सर कस्बा चौकी के पुलिस उप निरीक्षक यशवीर सिंह नेगी ने वाहन को मौके पर ही सीज कर दिया।

अपर पुलिस अधीक्षक ने पिकेट में तैनात दो सिपाहियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भी जारी कर दी है। लक्सर के अपर पुलिस अधीक्षक राजन सिंह को लक्सर-रुड़की मार्ग पर सोलानी नदी में रात के वक़्त अवैध खनन संबंधित खनन को शिकायतें प्राप्त हो रही थी शनिवार में इस पर रात को उन्होंने एक निजी वाहन से लक्सर-रुड़की मार्ग पर पहुंचकर मौके पर ही अचानक

चेकिंग शुरू कर दी जिसके दौरान अपर पुलिस अधीक्षक राजन सिंह ने मौके पर पाया कि कुआखेड़ा चेकपोस्ट पर पिकेट ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ही अवैध खनन सामग्री से लदे हुए वाहन गुजर रहे हैं। इस पर अपर पुलिस अधीक्षक ने लक्सर कस्बा पुलिस चौकी को आदेशित करते हुए त्वरित पुलिस बल तत्पत्र किया आदेश पर कस्बा चौकी के उप निरीक्षक यशवीर सिंह नेगी पुलिस बल समेत मौके पर पहुंचे और अवैध खनन की सामग्री से लदे और बिना नंबर प्लेट एक ट्रैक्टर-ट्राली को चालक समेत कब्जे में कर लिया। चालक इकराम निवासी मुखियाली कला के खिलाफ खनिज सामग्री चोरी में मुकदमा दर्ज कर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक राजन सिंह के मुताबिक रुड़की मार्ग के कुआखेड़ा पिकेट पर तैनात कान्ता प्रसाद और सुनील कुमार नामक पुलिसकर्मियों ड्यूटी पर तैनात थे जिनकी चौकी के बावजूद अवैध खनन सामग्री से लदे वाहन उनके सामने से होकर गुजर रहे थे।

नशे खिलाफ हुआ दौड़ का आयोजन

हरिद्वार। पथरी क्षेत्र के गांव हर्षीवाला में गांव को नशे मुक्त करने लिये एक किमी दौड़ का आयोजन किया। इस दौरान दौड़ का सुभारम्भ मुख्य अतिथि भाजपा वरिष्ठ नेता नरेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। रविवार को गांव हर्षीवाला में युवाओं की ओर से नशाबंदी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। युवाओं ने नशे को बंद करने के लिये एक किमी दौड़ का आयोजन किया। दौड़ का सुभारम्भ करने पहुंचे मुख्य अतिथि भाजपा वरिष्ठ नेता नरेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं के लिये नशा बहुत गलत है इससे उसके माता पिता के सभी संपने टूट जाते हैं। नशे के खिलाफ जो युवाओं ने अभियान छोड़ा है वह बहुत ही सराहनीय है। कहा कि जब तक युवा पीढ़ी नशे की लत से दूर नहीं होगी उनका भविष्य तय नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने दौड़ में हिस्सा लेने वाले युवाओं को सम्मनित किया। इस अवसर पर नरेश चौहान, कुंज चौहान, अमित चौहान, अरवनी पाल, अंशु शर्मा, कमल सैनी, मनीष, अमित आदि उपस्थित रहे।

उत्तराखंड में तीसरा विकल्प बनेगी बसपा: राईनी

प्रदेश प्रभारी का लक्सर पहुंचने पर हुआ स्वागत

भास्कर समाचार सेवा

लक्सर। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राईनी रविवार को लक्सर और खानपुर पहुंचे जहां बसपा प्रदेश महासचिव चौ. राजेंद्र सिंह ने क्षेत्र के गंगौली गांव में उनका सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। प्रदेश प्रभारी राईनी ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने जिस उम्मीद से अलग प्रदेश के निर्माण के लिए अपना बलिदान दिया था कांग्रेस और भाजपा ने अपनी भूमिका इसके विपरीत ही निभाई है। राज्य में किसान को गन्ना समेत धान और गेहूँ का भुगतान नहीं मिल रहा है महंगाई सहित बेरोजगारी और



कार्यक्रम को संबोधित करते प्रदेश प्रभारी।

भ्रष्टाचार पूर्व से ही अपने चरम पर है। कहा कि अब आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी को जानना और कांग्रेस के बाद तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम ने

कहा कि संगठन विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उत्तराखंड की सभी सत्तर सीटों में पार्टी अपने बलबूँद चुनाव लड़ेगी। प्रदेश महासचिव चौ. राजेंद्र सिंह ने कहा कि दूसरी पार्टियां जाति और धर्म की बात करती हैं। कार्यक्रम के

दौरान विशाल चौधरी समेत राज कुमार, सतीश चौधरी, साहब सिंह, शर सिंह, सुखदेव सिंह, शिव कुमार, सनत कुमार, बाबू राम, राम गोपाल, गुफरान अली, विरसा सिंह, गोपाल सिंह, सुभाष चंद्र, प्रदीप हथवाल आदि मौजूद रहे।

कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने लिया राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी तीर्थ महाराज से आशीर्वाद

जन-जन के आराध्य हैं भगवान श्रीराम: स्वामी विश्वप्रसन्न

भास्कर समाचार सेवा

हरिद्वार। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने उत्तरी हरिद्वार स्थित श्री मध्वाश्रम के अध्यक्ष व राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी तथा पेजावर अधोक्षज मठ के पीठाधीश्वर स्वामी विश्वप्रसन्न तीर्थ महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को शॉल ओढ़ाकर तथा फूलमाला पहनाकर आशीर्वाद देते हुए स्वामी विश्वप्रसन्न तीर्थ महाराज ने कहा कि अयोध्या में भव्य रूप का मंदिर भव्य, अनुपम व आलौकिक होगा। देश दुनिया के श्रद्धालु



तीर्थ महाराज से मुलाकात करते मंत्री मदन कौशिक।

भक्तों की आस्था रामलला के मंदिर से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि भगवान राम प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान हैं। जन जन के आराध्य भगवान राम के नाम सिमरन करने मात्र से

सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संत महापुरुषों व राम भक्तों के बलिदानों के बाद राम मंदिर निर्माण का शुभ अवसर आया है। अयोध्या में भव्य रूप से बन रहा श्रीराम मंदिर सनातन धर्म का

प्रमुख केंद्र होगा। सभी को भगवान राम के जीवन आदर्शों को अपनाकर देश व समाज की उन्नति में योगदान देना चाहिए। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि संतों के सानिध्य व देश के प्रथममंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से राममंदिर निर्माण का ऐतिहासिक कार्य शुरू हुआ है। संतों व श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप मंदिर का निर्माण जल्द पूरा होगा। उन्होंने कहा कि संत महापुरुषों के सानिध्य में अगले वर्ष होने वाला कुंभ मेला भव्य रूप से संपन्न कराने के लिए प्रदेश सरकार दिनरात प्रयास कर रही है। इस दौरान

हरिपुर ग्राम प्रधान गीताजली जखमोला, बीजेपी नेता मनोज जखमोला, पार्षद प्रतिनिधि विदित शर्मा, देवीप्रसाद, विश्व हिन्दू परिषद के संयुक्त राष्ट्रीय सचिव राघवतुल, कमल पटेल, नरेंद्र पाटीदार, माध्वाश्रम के प्रबंधक मनोज जोशी, बजरंग दल के पूर्व प्रदेश संयोजक बलराज डूंगर, कृष्णा, विष्णु, वेणुगोपाल शास्त्री, श्रीनाथ पुजारी, डीपी अनन्ता, अरविन्द भागवत, राजपाल नेगी, विपिन भार्गव, विनोद भट्ट आदि मौजूद रहे। शांतिकुंज चित्रकूट धाम के स्वामी रामकृष्ण दास ने भी स्वामी विश्वप्रसन्न तीर्थ महाराज से मुलाकात की।

तेजी से हो रही है नालों की सफाई

भास्कर समाचार सेवा

रुड़की। मेयर गौरव गोलयल, नगर आयुक्त नूपुर वर्मा व सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट के निर्देश पर प्रतिदिन रुड़की शहर के अलग-अलग वार्ड में पर्यावरण मित्रों की ओर से नालों की सफाई का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। जिसके लिए नगर निगम रुड़की की नाला गैंग बहुत तेजी के साथ नालों की सफाई का कार्य कर रही है, शहर में बने सभी छोटी व बड़ी नालियों का सफाई कार्य तेजी से किया जा रहा है। आज पुरानी तहसील, सलेमपुर व पूर्वा वाली मे बने बड़े व छोटे नालों की सफाई का कार्य किया गया। नालों में एकत्र कूड़े को निकालने का काम तेजी से करा दिया गया। महापौर गौरव गोलयल प्रतिदिन नालों की सफाई का



नालों की सफाई करते पर्यावरण मित्र।

निरीक्षण स्वयं करते हैं ताकि सफाई का कार्य पूर्ण रूप से हो उसमें कोई कमी ना रहे। नगर आयुक्त नूपुर वर्मा ने बताया कि नगर निगम रुड़की जलभराव की समस्या से रुड़की शहर में शहर वासियों को निजात दिलाने के लिए हर संभव

प्रयास किया जा रहा है। साथ ही रुड़की को स्वच्छ व सुंदर बनाने के प्रयास में शहर वासियों से सहयोग की नगर निगम उम्मीद करता है। स्वच्छ रुड़की सुंदर रुड़की के सपने को साकार करने में रुड़की वासियों की अहम भूमिका रहेगी।

आत्म निर्भर मेला रहा प्लॉप शो

रुड़की। नगर निगम की ओर से नेहरू स्टेडियम में संचालित आत्म निर्भर मेला प्रचार प्रसार के अभाव में प्लॉप शो साबित हो रहा है। मेले में दुकान खोलने वाले लोग ग्राहकों को तरस गए हैं। स्टॉल लगाने वालों का कहना है कि अतिथि तो आ रहे हैं, लेकिन ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। नगर निगम ने एक नवंबर से नेहरू स्टेडियम सरकार के आत्म निर्भर भारत की मुहिम के अनुसार स्वदेशी स्वरोजगार मेले का आयोजन किया है। मेले कई लोगों ने अपने स्टॉल भी लगाए हैं। लेकिन प्रचार और प्रसार के अभाव में मेले में स्टॉल लगाने वालों को खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। मेने में कंबल की दुकान लगाने वाले मोहम्मद कैफ ने बताया कि आठ दिन में एक ही कंबल बिका है। मेले में खादी कपड़ों की स्टॉल लगाने वाले रामकुमार पाल ने बताया कि मेले में रोज अतिथि आते हैं। लेकिन ग्राहक मेले से नदारद हैं, जिसका कारण प्रचार और प्रसार की कमी। दीपावली के सामान की स्टॉल लगाने वाले जमीर अहमद ने बताया कि सात दिन में सात सौ रुपये का ही सामान बेच पाया है।

रोटरी क्लब ने जरूरतमंदों को वितरीत की राशन किट

कोरोना वायरस के प्रति किया जागरूक

भास्कर समाचार सेवा

रुड़की। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए रोटरी क्लब ने शहर के तुषार गेट के नजदीक अपना जीवन यापन करने वाले 20 जरूरतमंद गरीब परिवारों को राशन किट, दवा, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। रोटरी क्लब की ओर से जीएसटी जीएसटी कार्यालय रामनगर तुषार गेट के निकट झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले करीब 20 परिवारों को राशन किट, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। क्लब की ओर से इन परिवारों को कोरोना से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी।

इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष प्रेम सरिन ने कहा कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। लॉकडाउन के चलते ऐसे गरीब परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है और हम सभी को मिलजुल कर अपने आसपास के असहाय परिवारों की मदद करनी चाहिए, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो सके। रोटरी



जरूरतमंदों को राशन किट वितरित करते क्लब के सदस्य।

क्लब के पूर्व गवर्नर सुभाष सरिन ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से काफी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। क्लब की ओर से राशन किट वितरित करने से ही ऐसे समाजिक कार्यों में अग्रसर है। क्लब की ओर से कच्चा राशन गरीब परिवारों को वितरित

किया गया है। इस अवसर पर सुरेश चट्टा, हर्षप्रकाश काला, प्रमोद अग्रवाल, राजेश चंद्र, प्रेमचंद्र सैनी, वीके शर्मा, कुंवर जावेद इकबाल, वंदना मोहन, संजीव कुमार, कमलेश चंद्र आदि रोटरी क्लब के सदस्य एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।

भाजपा ने किया मास्क और सैनिटाइजर का वितरण

कोरोना संक्रमण से बचाव की दी जानकारी

भास्कर समाचार सेवा

रुड़की। भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया गया एवं रेलवे स्टेशन के मुख्य बाजार टैक्सी स्टैंड पर दुकानदार व आम लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। इस मौके पर पूर्व जिला मंत्री पप्पू कश्यप ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सभी लोग नियमित रूप से अपने हाथों की सफाई करें तथा घर के बाहर निकलते समय मास्क आवश्यक रूप से लगाएं। ओबीसी मोर्चा के पूर्व जिला मंत्री पप्पू कश्यप ने कहा कि यह वितरण दुकानदारों को इसलिए किया जा रहा है कि जब वह अपने प्रतिष्ठान पर रहे तो मास्क लगाकर ही सामानों की बिक्री करें। आपके प्रतिष्ठान पर आने वाले लोगों के हाथ सैनिटाइजर से साफ



मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करते भाजपाई।

कराएं। उन्होंने आम लोगों से भी कहा कि अति आवश्यक कार्य होने पर ही वह अपने घर से बाहर निकलें और जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर ही निकलें। इस मौके कार्यक्रम उपस्थित सभी वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पुराना महामारी को हराने में हम सभी देशवासियों क्षेत्रवासियों को साथ चाहिए। वैसे भी से अपील की कि इस खतरनाक बीमारी से सावधान रहें और अपने आसपास साफ सफाई रखें।

कहा देश से कोरोना को भगाना है और देश को बचाना है ना है। इस अवसर पर अमित अग्रवाल, अमन त्यागी, डॉ. कल्पना सैनी, डॉ. गौरव चैधरी, मनोज गर्ग, सौरभ भूषण शर्मा, सतीश शर्मा, सुबोध राकेश, चौधरी किरण सिंह, धीर सिंह, प्रदीप पाल, नरेश प्रधान, आदित्य राज, ललित मोहन, रिमा बंसल, नीलम रानी, कविता कश्यप, अश्वनी भारद्वाज, डॉ. टेक बल्लभ आदि भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

दुकान स्वामी पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा

बालाजी स्वीट्स शॉप में गैस सिलेंडर फटने के मामले में कार्रवाई, भारी मात्रा में किया था घरेलू गैस सिलेंडरों को स्टॉक

भास्कर समाचार सेवा

मंगलौर। शनिवार को बालाजी स्वीट्स शॉप में गैस सिलेंडर फटने से हुए हादसे के मामले में पुलिस ने दुकान स्वामी के खिलाफ लोगों का जीवन खतरे में डालने और गैर इरादतन हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। हादसे के दौरान घायल हुए एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। शनिवार को मंगलौर के मेन बाजार स्थित श्री बालाजी स्वीट्स शॉप में लोग प्रतिदिन की भांति खरीदारी कर रहे थे, कुछ लोग वहीं बैठ कर नाश्ता कर रहे थे। इसी दौरान वहां पर एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में आकर कई लोग घायल हो गए थे। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सैथिल अंबादंडा कुमाराज एस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस को निर्देश दिए थे कि मामले की

अभी तक 27 लोग हुए घायल

मंगलौर। शनिवार को सिलेंडर फटने से हुए विस्फोट में अभी तक पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 27 लोग घायल हुए हैं। इन सभी लोगों को उपचार दिलाया जा रहा है, जबकि इन्होंने में से एक अशरफ पुत्र लियाकत नामक निवासी मोहल्ला बंदरटोल मंगलौर की मौत हो चुकी है। इस संबंध में प्रशिषु आईपीएस हिमांशु कुमार वर्मा का कहना है कि अभी और घायलों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, उन्हें भी विवेचना में शामिल किया जाएगा।

तत्काल जांच की जाए तथा आवश्यक कार्रवाई करते हुए इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल में प्रथम दृष्टया पाया कि गैस रिफिलिंग के चलते धमाका हुआ है

शिशु की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा

लंदौरा। कस्बे क्षेत्र स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में प्रसव के कुछ समय बाद शिशु की मौत हो गई, मामले को लेकर परिजनों ने हंगामा काटा। लंदौरा निवासी महिला को शनिवार को प्रसव पीड़ा हुई। परिजन महिला को बस अड्डे के पास स्थित कॉलोनी में संचालित प्राइवेट अस्पताल ले गए, कुछ समय बाद महिला ने बच्चे को जन्म दिया। पैदा होने बाद ही शिशु की हालत बिगड़ गई। कुछ देर बाद शिशु की मौत हो गई।

बच्चे की मौत होने पर परिजनों ने हंगामा काटा। बताया गया है कि अस्पताल संचालिका ने परिजनों को यह कह कर शांत कर दिया कि बच्चा आठ महीने का था, इसी कारण उसकी मौत हुई है। लोगों का कहना है कि अस्पताल संचालिका एएनएम के पद पर संविदा पर कार्य करती है। एएनएम ने घर पर ही अस्पताल खोल

रखा है। लोगों का कहना है कि इस अस्पताल में चार महीने पहले प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई थी। लोगों का कहना है कि लंदौरा में 12 से अधिक अस्पताल खुले हुए हैं। सभी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को भर्ती कर डिलीवरी का कार्य किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि ज्यादातर अस्पतालों का संचालन झोलाछाप डॉक्टर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत कई बार स्वास्थ्य विभाग को करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, जिसके चलते प्रसव के दौरान कई महिलाओं और बच्चों की मौत हो चुकी है। सीएमओ शंभु कुमार झा का कहना है कि जल्द ही टीम गठित छापामार कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान अवैध तरीके से चलने वाले अस्पताल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

मुकदमा दर्ज कराया गया है जिसमें कहा गया है कि आरोपी दुकानदार की ओर से नियमों का पालन नहीं किया गया तथा उसके द्वारा भारी

सड़क हादसे में गई युवक की जान

रुड़की। देर रात हुए सड़क हादसे में बाईक सवार दो युवकों की मौत हो गई। हादसे के दौरान मरने वाले बाईक सवार एक युवक की 30 नवंबर को शादी होना तय थी। सड़क हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची सिविल लाईन कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजा दिया। शनिवार देर रात बाइक पर सवार होकर दो युवक दीपक जोशी पुत्र बसन्त जोशी एवं गणेश सेमवाल पुत्र चंडीप्रसाद सेमवाल रुड़की से अपने घर ढंढेरा स्थित बूचड़ी के लिये जा रहे थे। बताया गया है कि जैसे ही वह बूचड़ी रेलवे फाटक के पास पहुंचे तो उनकी बाइक मील पथर से टकरा गई, उसके बाद अनियंत्रित हुई बाईक बिजली के खम्भे से जा टकराई। जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गये, सड़क ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजा दिया। दीपक जोशी का विवाह 30 नवंबर को होना था, वहीं गणेश का विवाह 3 वर्ष पहले हुआ था, घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी दुकानदार का नाम आशीष कुमार पुत्र भूषण निवासी डॉ. रविंद्र कर्पूर वाली गली थाना कोतवाली मंगलौर बताया गया है।

इस संबंध में खाद्य आपूर्ति विभाग को सूचना दे दी गई है उनकी टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करेगी उन्हीं की ओर से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

भाजपा सरकार से त्रस्त है जनता: चुग रोजगार के कारण युवाओं ने किया पलायन: नारसन

भास्कर समाचार सेवा

विकास नगर। राहुल प्रियंका गांधी सेना के प्रदेश सचिव भास्कर चुग ने कार्यकारिणी बैठक में भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गलतफहमी में है। कहा कि आगामी चुनाव में उनके विधायकों की जमानत भी जप्त हो जाएगी। कहा कि प्रदेश का विकास करने वाले दो विकास पुरुष होने प्रदेश का दायित्व संभाला था। कहा कि फिर से आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कहा कि भाजपा सरकार की जुमलेबाजी को जनता जहां चुकी है। इन्होंने हर वर्ग वर्ग के साथ छलावा किया है। जिसका जनता बचाव देगी। विधानसभा अध्यक्ष महेंद्र मिश्र ने कार्यकारिणी बैठक में कार्यकर्ताओं को कई मुद्दों पर



पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई जिनमें सोनिया जीना को जिला सचिव घोषित किया गया, इसके साथ ही अशोक जांगड़ा को विकास नगर शहर कमेटी में उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता को महासचिव घोषित किया गया। विकास नगर विधान सभा समिति में अफजल बेग को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुमित सैनी को विधानसभा प्रवक्ता, शाहनवाज मिर्जा को सोशल मीडिया समिति का अध्यक्ष एवं मुस्कान को महासचिव, सीमा देवी और रियाज अंसारी को विधानसभा महासचिव, इरशाद अहमद महासचिव संतान, बबिता चौधान को विधानसभा उपाध्यक्ष घोषित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष महेंद्र मिश्र ने बताया कि शीघ्र ही ब्लॉक एवं नगर समितियों का युवा एवं मुख्य टीम का गठन किया जाएगा।

पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई

जिसमें कई लोगों का जीवन संकट में पड़ गया है। पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ शहर चौकी प्रभारी शहजाद अली की ओर से

भाजपा सरकार से त्रस्त है जनता: चुग

मुकदमा दर्ज कराया गया है जिसमें कहा गया है कि आरोपी दुकानदार की ओर से नियमों का पालन नहीं किया गया तथा उसके द्वारा भारी

जैविक खेती से किसानों को दोहरा लाभ: वर्मा

भास्कर समाचार सेवा

झबरेड़ा। जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा कि जैविक खेती से किसानों को दोहरा लाभ है। जैविक सेवन से शरीर स्वस्थ रहता है और कृषि भूमि की उपजाऊ क्षमता भी प्रभावित नहीं होती है। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य सुबोध राकेश ने किसानों से जैविक उत्पाद तैयार करने व युवाओं से भी जैविक खेती में बढ़-चढ़कर भागीदारी करने की अपील की है। भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि गन्ना क्रेशर से किसानों में आत्मनिर्भरता भी बढ़ रही है। बेहडकी सैदाबाद गांव में गन्ना क्रेशर का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा कि किसान जैविक फसल व उत्पादों से अपना भविष्य उज्ज्वल



कार्यक्रम को संबोधित करते जिला पंचायत अध्यक्ष।

कर सकते हैं। गन्ने की जैविक खेती से तैयार हुए शुद्ध शर्करा व खांड की मांग दिनप्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गन्ना क्रेशर जैसे कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने में सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य सुबोध राकेश ने कहा कि स्वस्थ खेती के उत्पादों से ही स्वस्थ शरीर बनता है। रसायनमुक्त कृषि आधारित उत्पादों से उत्तराखंड के किसान अपना

भविष्य सवार रहे हैं। उन्होंने जैविक खेती को अपनाते हुए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर ज्यादा जोर दिया। उन्होंने युवाओं से भी जैविक खेती की तरफ दिलचस्पी लेने की अपील की। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक बृजमोहन त्यागी, चेयरमैन सुशील चौधरी त्यागी, पवन तोमर, गणेश सिंह, चंदन त्यागी, राजपाल राज, बिन्वा, सुशील त्यागी, सुधीर आदि मौजूद रहे।

पुलिसकर्मियों ने रैली निकालकर लोगों को दिया कोरोना महामारी से बचाव का संदेश

पुलिस ने किरायेदारों का भी सत्यापन किया

भास्कर समाचार सेवा

रुड़की। गंगनहर कोतवाली पुलिस ने सत्यापन अभियान के दौरान करीब सैंकड़ों किरायेदारों का सत्यापन किया है। इसके साथ ही पुलिस ने रैली निकालकर कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पर मास्क आदि के लिए रैली के जरिये लोगों को जागरूक किया। गंगनहर कोतवाली पुलिस लगातार जागरूकता अभियान के तहत क्षेत्र के लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक कर रही है। पिछले दिनों ही गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज मैनवाल व उनके अधीनस्थों की ओर से मॉनिंग वॉक के दौरान बुजुर्गों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक करने



कोरोना से बचाव को लेकर रैली निकालती पुलिस।

हेतु एकत्रित कर बचाव की बाबत जानकारी दी थी। इसके साथ ही गंगनहर कोतवाली पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने की नीयत से क्षेत्रवासियों को किरायेदारों के

सत्यापन के लिये कर रही है। बकायद कोतवाली प्रभारी की ओर से किरायेदारों के लिए सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा करीब दो सौ पचास लोगों

का सत्यापन किया गया। पुलिस ने किरायेदारों के सत्यापन अभियान के दौरान फार्म भरे। शनिवार को कोतवाली पुलिस द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए हाथों में तख्ती व बैनर लेकर जागरूकता अभियान चलाया। तख्तीयों पर महामारी से बचाव के लिए नारे लिखे गये थे, जिनमें संदेश दिया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के साथ ही बाहर निकलने के दौरान मास्क पहनकर ही बाहर जाना जरूरी है। कोतवाली प्रभारी मनोज मैनवाल ने बताया कि सत्यापन अभियान के दौरान 250 लोगों के फार्म भरे गये हैं, आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया है।

ट्रैक्टर पलटने से किसान घायल

मंगलौर। ट्रैक्टर लेकर गांव लौट रहे एक किसान का ट्रैक्टर पलट गया, इस दौरान किसान ट्रैक्टर के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार हेतु चिकित्सालय में पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। शीथकी कवायदपूर गांव निवासी रिशु सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका भाई प्रभात गत तीन नवंबर को ट्रैक्टर लेकर मंगलौर से गांव लौट रहा था। जैसे ही वह झबरेड़ा-मंगलौर मार्ग पर अपने गांव की ओर मुड़ रहा था तभी उसका ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलट गया तथा उसका भाई प्रभात ट्रैक्टर के नीचे दब गया।

पुलिस व एनसीसी कैडेट ने निकाली जनजागरूता रैली

भास्कर समाचार सेवा

विकासनगर। डाकपत्थर चौकी प्रभारी कुदम राम के नेतृत्व में कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव में जनता को जागरूक करने व मास्क,सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु पुलिस बल, जल पुलिस, फायर पुलिस एनसीसी कैडेट के छात्रों ने जन जागरूकता रैली निकाली गई। बरिष्ठ कोतवाली एसएसआई रामनेश शर्मा ने कहा कि ल्योंहारी सीजन में भीड़ भाड़ होने एवं लोगों द्वारा बाजार में अधिक संख्या में उपस्थित हो कर खरीददारी करने को लेकर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु उन्होंने लोगों को जागरूक करने के साथ ही



अपील की सरकारी गाइड लाइनों का पालन करे। कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक स्वस्थता का ध्यान रखे। रविवार को रैली डाकपत्थर चौकी से होते हुए पुलिस जवानों के साथ नेहरू मार्केट के टीस कालोनी,तिकोना पार्क होते हुए वापस डाकपत्थर चौकी में पहुंची।

सारसुर्खियां

नीति घाटी के जंगल में लगी भीषण आग जोशीमठ। चमोली नीति घाटी के जंगल में भीषण आग लगी हुई है। हर तरफ धुंध का गुबार, आग लगने के कारण जानवर जंगल से निकल कर सड़कों पर आ गये हैं। चमोली के नीति घाटी के जंगल में भीषण आग लगी हुई है। आग के चलते हरा भरा जंगल स्वाहा हो रहा है। लाखों की वन संपदा खाक हो रही है। जंगल में आग लगने के कारण अब जानवर निचली जगहों पर दिखाई देने लगे हैं। बताते चले नीति घाटी के लोग इन दिनों सर्दी के चलते निचली जगहों पर आ गए हैं लेकिन यहां जंगल पूरी तरह आग के कब्जे में आ गए हैं जिसके चलते आग से ज्यादा दिक्कत जानवरों को हो गयी है जो जंगल में आग के चलते निचली जगहों पर दिखाई देने लगे हैं। नीति घाटी के गमशाली और मेहरगाव के बीच के जंगल जलकर खाक हो रहा है। जिसके चलते जंगल की आग का धुआं पपरी नीति घाटी में फैल चुका है। आग इतनी खतरनाक है कि पैरा जंगल जलकर राख हो रहा है।

डोबरा-चांटी पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री करते तो बढ़ता देवभूमि का गौरव कोई नई घोषणा नहीं होने से युवाओं में निराशा

- पुल निर्माण करने वाले इंजीनियरों व श्रमिकों को दी बधाई
- टिहरी बांध के ऊपर से आवगमन 24 घंटे खुला रखने की मांग

भास्कर समाचार सेवा

टिहरी। टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध ढोल खादक शिवजनी और उनकी टीम के साथ याचिकाकर्ता शान्ति प्रसाद भट्ट और महिला नेगी ने ढोल से धुंयाल बजाकर मिष्ठान वितरण किया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि डोबरा-चांटी पुल का उद्घाटन हुआ है। जिसके लिए सभी याचिकाकर्ता (किशोर उपाध्याय, जोत सिंह बिष्ट, शान्ति प्रसाद भट्ट, महिपाल नेगी, दर्शनी रावत) टिहरी, प्रतापनगर, उत्तरकाशी की जनता को शुभकामनाएं देते हैं। उनका कहना था कि इस पुल के उद्घाटन में भाजपा नेतृत्व की सरकार ने अनावश्यक ही देरी की है। हमें उम्मीद थी कि इस महत्वकांक्षी पुल का उद्घाटन देश



टिहरी में ढोल बजा कर मिष्ठान वितरण किया।

के प्रधानमंत्री करते तो इस सम्पूर्ण भूभाग का भी गौरव बढ़ता और कुछ महत्वपूर्ण सौगातें प्रधानमंत्री टिहरी जिले को देते, किन्तु हमें निराशा हुई कि अमर शहीद श्रीदेव सुमन, वीर गम्बर सिंह, कपफू चौहान, गंगू रमोला, माधो सिंह भंडारी, इंद्रमणि बडोनी की इस महान थाली पर जहां दुनियाभर से लोग मां गंगा, यमुना और भगवान सेम नगराज के दर्शन हेतु आते हैं और भगवान सेम मुखेम की पवित्र यात्रा करते हैं। वहां के लोगों के साथ भाजपा ने छलाव किया है। इसलिए डोबरा-चांटी पुल सहित

कोई नई घोषणा नहीं होने से युवाओं में निराशा

भास्कर समाचार सेवा

टिहरी। जिला कांग्रेस कमेटी टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष राकेश राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का टिहरी का दौरा निराशाजनक रहा है। उन्होंने कहा कि जिस चांटी डोबरा पुल की नींव 2006 में स्व. नारायण दत्त तिवारी और स्व. फूल सिंह बिष्ट ने रखी थी आज उस पर भाजपा के मुख्यमंत्री ने मात्र रिबन काटकर अपना नाम लगाया। जबकि इस पुल के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कोई योगदान नहीं रहा। 2006 में पुल स्वीकृति के बाद 5 साल तक भाजपा की सरकार थी। उन्होंने 90 करोड़ की



लागत से बनने वाले पुल की मात्र लागत बढ़ाने का काम किया और प्रतापनगर की जनता को गुमराह किया। जब पुनः उत्तराखंड में वर्ष 2012 में कांग्रेस की सरकार आई तब तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री हरीश रावत और क्षेत्रीय विधायक विक्रम सिंह नेगी, किशोर उपाध्याय ने नाबाई से इस पुल के लिए एकमुश्त धनराशि जारी करते हुए इस को पुनः आगे बढ़ाने का

काम किया। जिसका नतीजा आज यह पुल बनकर तैयार हुआ और प्रताप नगर की जनता के लिए समर्पित हुआ। मुख्यमंत्री के दौरे से टिहरी जनपद के हजारों बेरोजगार नौजवानों को अपने रोजगार के लिए कुछ उम्मीदें थी लेकिन उन्होंने सबको निराश किया। एक भी कोई नई घोषणा नहीं की गई जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। 2017 के विधानसभा चुनाव में ऑनेश्वर महादेव मंदिर में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने वादा किया था कि उत्तराखंड में अगर हमारी सरकार बनी तो प्रताप नगर क्षेत्र को केंद्रीय ओबीसी की सूची में शामिल करेंगे लेकिन आज साढ़े तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी

उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पूर्व राज्य मंत्री मुशर्रफ अली और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र नौटियाल ने कहा कि भाजपा ने लोगों को झूठ बोल बोल कर चांटी डोबरा बुलाया कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तब जाकर लोग वहां पहुंचे भाजपा हमेशा झूठ की राजनीति करती है। राजखेत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मान सिंह रौतेला और प्रताप नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सबल सिंह राणा ने कहा कि भाजपा ने धोखे की राजनीति करके जनमानस को गुमराह किया है जिसका जवाब उन्हें जनता 2022 में देगी।

इन सभी जहजित के कार्यों का पहला श्रेय सुप्रीम कोर्ट को जाता है। उसके बाद सरकारों और उनके जन-प्रतिनिधियों को, हम उन सभी इंजीनियरिंग टीम को, कुशल श्रमिकों को बधाई देते हैं, जिनकी

अथक मेहनत से ये पुल निर्मित हुए हैं। आज हम उन्हें भी श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने निर्माण के दौरान अपने प्राणों की आहुतियां दी थी। उन्होंने कहा कि टिहरी बांध के

ऊपर से आवगमन चौबीसों घण्टे खुला रखा जाय। टिहरी बांध से प्रभावित ग्रामीणों से रोलाकोट, तल्ला उम्पू, नंदगांव, भटकण्डा, पिपोला (उठड) आदि (कुछ ग्रामों के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं,

किन्तु आदेश का पालन नहीं हुआ है।) कहा कि टिहरी उत्तरकाशी को जोड़ने वाले बलडांगी पुल को स्वीकृत किया जाय। जाखणीधार, चम्बा, भिलंगना ब्लॉकों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाय।

सीएम ने किया डोबरा-चांटी पुल का लोकार्पण

टिहरी झील में बने 725 मी. लम्बे बहुप्रतीक्षित इस झूला पुल की लागत है 295.92 करोड़

भास्कर समाचार सेवा

टिहरी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर टिहरी में बहुप्रतीक्षित डोबरा-चांटी पुल का लोकार्पण कर टिहरी वासियों को बड़ी सौगात दी है। पुल का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 295.92 करोड़ लागत के 725 मी लम्बे इस भारी वाहन झूला पुल की क्षेत्रवासी पिछले 14 वर्षों से इंतजार में थे पुल पर आवाजाही शुरू होने से अब आवगमन सुविधाजनक होने के साथ ही समय की बचत होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कुल 4 अरब 73 करोड़ 8 लाख 56 हजार की विधिन् 60 योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया। जिसमें 3 अरब 7 करोड़ 83 लाख लागत की 30 योजनाओं का लोकार्पण तथा 1 अरब 2 करोड़ 25 लाख



टिहरी झील पर बंधे डोबरा-चांटी पुल का लोकार्पण करते सीएम व अन्य।

की 30 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। लोकार्पण की गई योजनाओं में 9 योजनायें लोनिवि, 7 पीएमजीएसवाई, 10 शिक्षा विभाग, 2 पर्यटन एवं 1-1 आयुर्वेदिक व क्रीडा विभाग से संबंधित हैं जबकि शिलान्यास योजनाओं में 7 लोनिवि, 20 पीएमजीएसवाई, 1 पर्यटन, 1 शिक्षा व 1 उद्यान विभाग से संबंधित है। इस अवसर पर

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने राजकीय इंटर कालेज मजफ के प्रान्तीकरण की भी घोषणा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रताप नगर की जनता ने देश हित में बहुत बड़ा योगदान दिया है जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सिंचाई की उपलब्धता एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति संभव हो

सकी है। उन्होंने प्रताप नगर की जनता से पुल निर्माण में देरी के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार ने इस पुल के निर्माण में तेजी लाये जाने के लिये एकमुश्त 88 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जिसके कारण पुल का निर्माण समय से पूरा हो पाया है। उन्होंने कहा कि आज प्रताप नगर की जनता के लिए विकास का दरवाजा खुल चुका है वहीं यह पुल क्षेत्रीय जनता एवं आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए खुशहाली एवं समृद्धि का स्रोत बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 42 किलोमीटर लंबी टिहरी झील पूरी दुनिया को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। टिहरी झील साहसिक पर्यटन का भी केंद्र बनेगी तथा इसके आस पास अनेक पर्यटन गतिविधियों की शुरुआत होगी इससे पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलने के साथ ही आर्थिक समृद्धि की राह भी प्रशस्त होगी।

डोबरा-चांटी पुल के बनने से यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होगा। जिससे क्षेत्र में जनता की आर्थिकी में भी सुधार होगा वहीं आवगमन में समय और धन की भी बचत होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सुशासन व भ्रष्टाचार मुक्त विकास एवं प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त किया जाना सरकार की प्राथमिकता बताया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शहा, जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजगणए विधायक विजय सिंह पंवार और सिंह नेगी शक्ति लाल शाहए राज्यमंत्री अब्बल सिंह बिष्टए रोशन लाल सेमवालए महावीर रांगडए जिलाधिकारी इवा आशीषए विभिन्न ब्लाकों के ब्लाक प्रमुखों के साथ ही अन्य अधिकारीए जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित थी।

विश्वपटल पर भारत बना चुका है अलग पहचान: कुलदीप

- भाजपा मंडल प्रशिक्षण शिविर का विधिवत शुभारंभ
- सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाने की अपील

भास्कर समाचार सेवा

पुरोला। पुरोला भाजपा मंडल के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का रविवार को पुरोला नगर क्षेत्र के अंतर्गत राणा एनेक्सी के कम्युनिटी हाल में शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन विकासनगर के पूर्व विधायक व प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने किया। प्रमुख विषय वक्ता कुलदीप कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश चौहान, पूर्व भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष व गढ़वाल संयोजक पवन नौटियाल ने केंद्र की भाजपा सरकार व प्रदेश सरकार की रीति नीतियों पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के कार्यकाल में हुए ऐतिहासिक कार्यों पर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व पटल पर अपनी एक



पुरोला में भाजपा के मंडल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया।

अलग पहचान बना चुका है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से लेकर अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को कुचलने, तीन तलाक पर कानून लाने, कश्मीर में 370 हटाने, राम मंदिर के निर्माण सहित कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने में सफलता हासिल कर विजय में अपनी एक पहचान बनायी है। आज देश के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जगी है। जिससे देश के लोगों को गर्व की अनुभूति होती है आदि कई विषयों पर वक्ताओं ने प्रशिक्षण

शिविर में उपस्थित मोर्चों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को जानकारी देते हुए जन-जन तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की अपील की। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, प्रशिक्षण प्रमुख अमीचन्द्र शाह, पूर्व विधायक मालचंद, राजेंद्र प्रसाद गौला, बलदेव रावत, उर्ध्व असवाल, पवन नौटियाल, लोकेश उनियाल, विकास राणा, राहुल नौटियाल, राजपाल पंवार, विनोद असवाल, राजबाला, गीता बिष्ट, चरण शाह आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।

कलाम विचार मंच के जिलाध्यक्ष बने अरविंद

भास्कर समाचार सेवा

टिहरी। डा. एपीजे अब्दुल कलाम विचार मंच उत्तराखण्ड की बौराड़ी में बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें चम्बा के युवा समाज सेवी अरविंद कोटाही होंगे। पहले जिलाध्यक्ष के रूप में संगठन की कमान सौंपी गई। अर्जुन बल्लू की वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, मो. नदीम शेख को उपाध्यक्ष, जयराज पंवार व शाद हसन को जिला महासचिव, राहुल व मो. वसीम को सचिव एवम अफताब खान को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता विपिन जैन को शहर अध्यक्ष की जम्मेदारी सौंपी गई। दिवाकर बेलवाल व ईमरान

को शहर सचिव बनाया गया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष असद आलम ने कहा कि संगठन सामाजिक सरोकारों का मंच है जो कि पूर्व राष्ट्रपति भारत-रत्न डा. एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों व आदर्शों पर चलकर देश व समाज के विकास एवं प्रगति के लिये प्रतिबद्ध है। क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल-कूद, सांस्कृतिक व जन सरोकारों के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष ख्याति शर्मा ने संगठन की टीशर्ट लांच करते हुए पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को भेंट की। बैठक में सूज रांगड, साहिल, तपेन्द्र, प्रकाश, गौरव, रवि, फरहाद व राहुल नौटियाल आदि शामिल थे।

दादी के खाते से लाखों उड़ाने वाला पोता साथी सहित गिरपतार

भास्कर समाचार सेवा

पौड़ी। अपनी दादी के खाते से 2 लाख से अधिक की ऑनलाइन शॉपिंग करने के मामले में पुलिस ने आरोपी नाती को गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी के एक दोस्त को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनो आरोपियों को नई दिल्ली के नफजगढ़ से गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पौड़ी राकेंद्र कटैत ने बताया कि बीती 7 अक्टूबर को पौड़ी निवासी देवेश्वरी रावत ने कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके पंशरन खाते से पिछले दो महीने से दो लाख पचास हजार की धनराशि निकाली गई है। महिला की शिकायत पर

पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। कोतवाल ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि महिला के रिश्ते में पोता लगने वाले आरोपी युवक अनुराव रावत ने महिला के एटीएम व सिम का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन शॉपिंग की। बताया कि आरोपी युवक ने एटीएम कार्ड की फोटो खींचकर व सिम को अपने मोबाइल में लगाकर गूगल पे एकाउंट बनाकर ऑनलाइन शॉपिंग की। कोतवाल ने बताया कि आरोपी युवक ऑनलाइन शॉपिंग का सामान अपने दोस्त पवन बिष्ट निवासी जयवीहार फेस-1 नजगढ़ नई दिल्ली के घर पर मंगाता था।

वाहन दुर्घटनाग्रस्त, दो की मौत, चार घायल

- मोरी से जखोल जा रहा था वाहन पांवतला के पास हुआ हादसा
- घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया

भास्कर समाचार सेवा

मोरी। मोरी से जखोल जा रही बुलेरो पांवतला के समीप लगभग दो सौ मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार घायल हो गये। सब इस्पेक्टर नवीन कुमार ने बताया कि रविवार सुबह 5 बजे सूरत सिंह पूर्व प्रधान जखोल के द्वारा सूचना मिली कि मोरी से जखोल जा रही बुलेरो कैम्पर पांवतला के पास दो सौ मिटर गहरी खाई गिर गई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस दुर्घटना में मनोज पुत्र शर्वीर (28) अर्जुन पुत्र लखीराम (23) जखोल की मौके पर ही मौत हो गयी।



दुर्घटनाग्रस्त वाहन।

गांव वालों की मदद से इन दोनों के शवों को गहरी खाई से निकाल कर सड़क तक पहुंचाया गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोरी लाया गया। जहां पर नोर्गांव से आयी टीम ने पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया। जखोल के ही कर्मक सिंह रावत ने बताया कि गांव में दोनों युवाओं की मौत से मातम छाया हुआ है।

गदरे में गिरा वॉटर टैंक, एक घायल टिहरी। अभिनशन का वाटर टैंक नई टिहरी से वीआईपी ड्यूटी डोबरा चांटी जाते समय जाण्णा गांव के पास सी मीटर गदरे में गिर गया। जिसमें 4 लोग सवार थे। दुर्घटना में तीन लोग सुरक्षित हैं जबकि एक घायल है। टैंक में चालक प्रवीण राणा, एलएफएम नरेंद्र तोमर, एफएम अभिषेक कुमार तथा एफएम विक्रम तोमर सवार थे।

दुर्घटना में चार लोग घायल हो गये हैं। रमेश पुत्र पतुलाल, जयवीरी पत्नी रमेशा, रामलाल पुत्र सबू, रमेशी पत्नी रामलाल डटमीर घायल हुए जिनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी ले जाया गया। जहां से उनको हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया। घटना स्थल पर मौके पर पहुंचने वाली टीम में शामिल सब इस्पेक्टर नवीन कुमार, सिपाही महादेव, अन्तर्राज, श्याम बाबू, संदीप, होमगार्ड अनिल शामिल रहे।

समिति की देखरेख में चल रहा मंदिर के जीर्णोद्धार का काम, गर्भगृह में पूजन के लिए चारधाम से लाया गया है मिट्टी व जल भगवान घण्टाकर्ण के दर्शन मात्र से पूरी होती है मनोकामना

भास्कर समाचार सेवा

टिहरी। नरेन्द्रनगर के क्वीली, पालकोट, धारक्या, योगी, धर्माशु छह पड़ियों के मध्य ऊंचे शैल शिखर के मध्य घन्टियाल डाडा क्वीली पट्टी में घण्टाकर्ण भगवान के दर्शनों 12 महिने हजारों भक्त मन्दिर में पहुंचते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से घण्टाकर्ण भगवान के दर्शन मात्र से भक्तजनों की मन्त्रों पूर्ण हो जाती है। मन्दिर की व्यवस्था के लिये मन्दिर समिति का गठन किया गया था। मन्दिर समिति की देख-रेख में इन दिनों मन्दिर के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है जो कि अन्तिम चरण में है। इसी दौरान मन्दिर में गर्भगृह में पूजन हेतु चारो धाम की माटी व जल लाया गया है। इसी अवसर पर मन्दिर समिति द्वारा



नरेन्द्र नगर स्थित घण्टाकर्ण मंदिर।

एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिसमें 12 नवम्बर को प्रातः 10 बजे पूजन 1

बजे हवन का कार्यक्रम है। मन्दिर समिति के अध्यक्ष विजय प्रकाश

बिजल्वान के अनुसार इस अवसर पर सुबोध उनियाल, मंत्री उद्यान व कृषि उत्तराखंड सरकार, सांसद तीरथ सिंह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष टिहरी सोना सजगण, जिला पंचायत अध्यक्ष टिहरी सोना सजगण, देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी, पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत, नरेन्द्र नगर देवप्रयाग जिलाध्यक्ष हिमांशु बिजल्वान, श्री महंत भरत मन्दिर ऋषिकेश से वत्सल शर्मा समस्त जन प्रतिनिधियों व भक्तों के साथ पण्डित मनोहरी लाल बिजल्वान, वीरेंद्र दत्त बिजल्वान, लोकेंद्र दत्त बिजल्वान, जयदेव बिजल्वान, कुशालानंद बिजल्वान द्वारा गर्भगृह की पूजा संपन्न होगी। 14 नवम्बर को हवन पूर्णाहुति के उपरांत गर्भगृह भक्तों के दर्शनार्थ खुला रहेगा।

टम्टा के निधन पर जताया शोक

पौड़ी। उत्तराखंड प्रदेश शिल्पकार कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह टम्टा के आकस्मिक निधन पर अखिल भारतीय परिसंघ उत्तराखंड युवा प्रकोष्ठ व अन्य संगठनों ने गहरा शोक जताया है। रविवार को भीमराव अंबेडकर मूर्ति स्थल पर आयोजित शोक सभा में स्व.भगवान सिंह टम्टा को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान प्रकोष्ठ व अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि उन्होंने शिल्पकार समाज के लिए हमेशा संघर्ष किया। उनके कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। शोक जताने वालों में युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष गौरव कुमार, प्रदेश महासचिव श्रीकांत, परिसंघ जिलाध्यक्ष, सुनील कुमार, गौरवसागर, आस्कर रावत आदि शामिल थे।

कोरोना के बचाव को लेकर पुलिस जवानों ने निकाली रैली

भास्कर समाचार सेवा

पौड़ी। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पुलिस लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। रविवार को पौड़ी में पुलिस जवानों ने जागरूकता रैली निकालते हुए लोगों को संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूक किया। एसएसपी पौड़ी पी. रेणुका देवी के निर्देश पर पूरे जिले में पुलिस द्वारा लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रम के तहत पुलिस की टीमें लोगों से दो जग की दूरी व घरों से बाहर निकलने पर मास्क पहनने को लेकर जागरूक कर रहे हैं। रविवार को पौड़ी में



निकाली गई जागरूकता रैली में पुलिस जवानों ने हाथों में दो गज की दूरी मास्क के जरूरी, सैनिटाइज का समय-समय पर प्रयोग करने आदि नारों से लोगों को जागरूक किया। एसएसपी पी रेणुका देवी ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पुलिस पूरे जिलेभर में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है। बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा।

आज ही के दिन 1887 में अमेरिका को पर्ल हार्बर हवाई के अधिकार मिले थे।

कुमाऊं-आसपास

विश्वनोई समाज: पर्यावरण संरक्षण संकल्प के रूप में मनाया 537वां स्थापना दिवस

● स्थापना दिवस पर धूमधाम से किया गया कार्यक्रम का आयोजन

भास्कर समाचार सेवा

काशीपुर। विश्वनोई समाज का 536 वां स्थापना दिवस रविवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर हरिद्वार से आये स्वामी राजेंद्रानन्द महाराज और काशीपुर नगर निगम मेयर ने विश्वनोई समाज के संस्थापक जम्भेश्वर महाराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया।



विश्वनोई समाज में मेयर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते समाज के पदाधिकारी।

गुलाबो रोड स्थित विश्वनोई समाज में आयोजित विश्वनोई समाज के 536 वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि 536 वर्ष पूर्व गुरु जम्भेश्वर महाराज ने कार्तिक मास की अष्टमी को

पर्यावरण संरक्षण व जीवों की रक्षा का संकल्प लेकर विश्वनोई समाज की स्थापना की थी। इसी के चलते विश्वनोई समाज प्रति वर्ष कार्तिक मास की अष्टमी के दिन लगातार यह स्थापना दिवस पर्यावरण संरक्षण व जीवों की रक्षा के रूप में मनाता चला आ रहा है। काशीपुर स्थित विश्वनोई समाज में आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम में विश्वनोई समाज के वक्ताओं ने धर्म और समाज और संगठन की एकता और अखंडता के साथ साथ मजबूती पर बल दिया। इस मौके पर हरिद्वार से आये स्वामी राजेंद्रानन्द जी महाराज ने मंच से अपने संबोधन की शुरुआत संस्थापक गुरु जम्भेश्वर महाराज के चरणों में गुरु वंदना और

गुरुमंत्र से की। इस दौरान उन्होंने विश्वनोई समाज के सुसंगठित निर्माण पर काशीपुर का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए इस बार विशाल आयोजन नहीं किया गया। इस बार कन्याओं के विवाह का आयोजन भी किया जाना था जोकि कोविड की वजह से नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि कार्तिक मास की अष्टमी तिथि के दिन विश्वनोई धर्म की स्थापना हुई थी। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि जीवों और पर्यावरण की रक्षा के लिए विश्वनोई समाज के लोगों ने बलिदान दिया है।

डीएम रंजना ने दी राज्य स्थापना दिवस की बधाई

रुद्रपुर। डीएम रंजना राजगुरु ने जनपदवासियों को 21वें राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत को ध्यान में रखते हुये मास्क, सामाजिक दूरी व भारत सरकार, राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन अवश्य करें। उन्होंने कहा कि अत्यंत हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड राज्य अपने 20 वर्ष पूर्ण करने के बाद 21 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस राज्य ने अभी तक विकास के बहुत से आयाम हासिल किए हैं। कहा कि वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है इसलिए प्रदेश का हर नागरिक अपनी सुरक्षा स्वयं करें और स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन व सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका गंभीरता से पालन करें।

कुमाऊं विवि की बीएड, एमएड की प्रवेश परीक्षा संपन्न

भास्कर समाचार सेवा

नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा बीएड एम एड प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। जिसमें बीएड में 9275 छात्र छात्राओं में से 8928 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग कर परीक्षा दी। 347 छात्र-छात्राएं अनुपस्थित रहे। कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीआईसी निर्देशक संजय पंत ने बताया बीएड में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जिसमें छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी। आपगली ईस्टट्यूट हल्द्वानी 998, चंद्रावती तिवारी काशीपुर 385, डीएसबी कैम्पस 277, पीजी कॉलेज पिथौरागढ़ 259, पीजी कॉलेज रानीखेत 194, पीजी कॉलेज द्वाराहाट 126, एचएनबी पीजी कॉलेज खटीमा 700, अद्वारह पिथौरागढ़ 1069, पीजी कॉलेज हल्द्वानी 1012, पीजी कॉलेज बागेश्वर 398, पीजी कॉलेज बागेश्वर 593, पीजी कॉलेज बागेश्वर 839, पीजी कॉलेज लोहाघाट 311, सनातन धर्मा महाविद्यालय रुद्रपुर 404, और सुरजमल अग्रवाल महाविद्यालय किच्छा में 270, सहित सभी केंद्रों में कुल 8928 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी। इसके अतिरिक्त एम एड परीक्षा भी 3 शहरों में 4 परीक्षा केंद्रों में संपन्न कराई गई। जिसमें 248 छात्रों में से पीजी कॉलेज द्वाराहाट 126, 228 छात्रों ने परीक्षा दी।

सार सुर्खियां



वन विभाग ने खैर के 39 गिल्ट बरामद किए

बाजपुर। वन विभाग को मिली सफलता 39 खैर के गिल्टों के साथ 6 मोटरसाइकिल कब्जे में ली गयी है। एक नाम दर्ज एवं 5 अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। स्थानीय पहाड़पुर निवासी अंजेल सिंह पुत्र भजन सिंह एवं 5 अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।

देवर के खिलाफ तहरीर बाजपुर।

परिजनो से परेशान होकर महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर देवर एवं उसके पुत्रों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। रविवार को चकरपुर निवासी शारदा देवी पत्नी रव पान सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसके पति के निधन के बाद से ही उसका देवर लक्ष्मण सिंह एवं पुत्र पुष्पेंद्र, तेजसिंह आये दिन मारपीट करते रहते हैं, तथा उसकी पुत्रियों के साथ गली गलौच करते हैं। बताया कि वह बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजर बसर कर रही है लेकिन पीड़िता का देवर उसे परेशान करता रहता है।

स्वास्थ्य पर चर्चा

नैनीताल। राजकीय इंटर कॉलेज गुनियालेख के प्रधानाचार्य गौरी शंकर काण्डपाल के नेतृत्व में शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों के घर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य एवं अध्ययन के बारे में चर्चा परिचर्चा की। इसके बारे में बताते हुए गौरीशंकर काण्डपाल ने कहा कि, शिक्षकों की 4 टीम विद्यालय के सेवित क्षेत्रों के विभिन्न गांव में अभिभावकों से घर जाकर मुलाकात कर उनके बच्चों की पढ़ाई की प्रगति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। शिक्षकों के द्वारा अभिभावकों के घर जाकर विद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों, बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने संबंधी क्रियाकलापों एवं बोर्ड परीक्षा से जुड़ी तैयारियों ऑनलाइन मोड पर होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

बैंकों की कार्यप्रणाली से डीएम नाराज

जिलाधिकारी ने ली विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक, समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश

भास्कर समाचार सेवा

रुद्रपुर। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति व जिला समन्वय समिति (डीसीसी/डीएलआरसी) की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना, एनआरएलएम, स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना, स्पेशल कम्प्लेनट प्लान, मत्स्य, पशुपालन व डेरी आदि की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने बैंकर्स व सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को नाराजगी व्यक्त करते हुये कड़े निर्देश दिये हैं कि आपस में समन्वय स्थापित करते हुये विकास प्रक योजनाओं को धरातल पर उतारे।



रुद्रपुर विकासभवन में रविवार को डीएम ने ली बैंक व विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक।

संबंधित विभाग के साथ आपस में वार्ता कर आवेदनों को त्वरित गति से निस्तारण करें। उन्होंने एसबीआई, नैनीताल बैंक व बैंक ऑफ बड़ौदा की प्रगति कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये सम्बन्धित बैंकों को कड़े निर्देश दिये कि कार्यों में सुधार लाते हुये प्राप्त आवेदनों को समयबद्धता के साथ व्यक्तिगत रूचि लेते हुये निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि बैंक अधूरे आवेदनों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग व लीड बैंक अधिकारी को आवगत कराये ताकि आवेदनों का समय पर निस्तारण किया जा सके। उन्होंने लीड बैंक अधिकारी को निर्देश दिये कि बैंक से पूर्व सम्बन्धित विभाग व बैंक से सम्पर्क कर डेटा अपडेट रखें।

उन्होंने बैंकर्स व सम्बन्धित विभागों को कड़े निर्देश देते हुये कहा कि ब्लाक वार कैम्पों का आयोजन करे व जिन लाभाधिकारियों के आवेदन लम्बित हैं उनको भी कैम्पों में आमंत्रित करे व मौके पर ही उनका निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना को लम्बित आवेदनों को तात्काल

निस्तारण करते हुये दीपावली से पहले 70 प्रतिशत टारगेट पुरा करने के कड़े निर्देश दिये। लीड बैंक अधिकारी केडी नौटियाल ने बताया कि वर्तमान में जनपद में 188 क्लस्टरों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से 449 बैंकिंग सेवाएं दी जा रही हैं। जिसमें अब इन्डियन पोस्ट पैमेंट बैंक को भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शामिल कर लिया गया है। जनपद में 112 इन्डियन पोस्ट पैमेंट बैंक कार्यरत हैं। वार्षिक ऋण योजना 2020-21 में 30 सितम्बर

सड़क निर्माण के लिए कांग्रेस का धरना

- क्षतिग्रस्त मार्गों से ग्रामीणों में रोष
- सड़क का निर्माण शीघ्र करने की मांग उठाई

भास्कर समाचार सेवा

बाजपुर। लंबे समय से जर्जर हालत में पड़े मड़ैया खाड़खेड़ा महुआखेड़ा मार्ग को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है सड़क से उड़ रही धूल व खड्डों से आजिज आये लोगो ने आज कांग्रेस नेता जगतार सिंह बाजवा के नेतृत्व में खाड़खेड़ा में धरना प्रदर्शन कर शीघ्र सड़क निर्माण करने की मांग की। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि महुआखेड़ा बाजपुर क्षेत्र के लोगों के वोट से 2 बार कैबिनेट मंत्री बनने वाले व खुद को विकासपुरुष कहलाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिये क्षेत्र की टूटी सड़कें व उड़ती



खाड़खेड़ा में सड़क बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता।

धूल एक आईना है। जो उनके खोखले वादों की पोल खोल रहा है पिछले 9 साल से इस महत्वपूर्ण मार्ग का निर्माण न हो पाना सब कुछ बर्बाद कर रहा है। भाजपा की सोच विकास विरोधी है और भ्रष्टाचार चरम पर है आमजनमानस की समस्याओं से सरकार को कोई लेना देना नहीं है आने वाले समय में क्षेत्र की जनता इन मौकापरस्त लोगों को सबक सिखाएगी।

जब तक सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो जाता संघर्ष जारी रहेगा। इस मौके पर परमजीत सिंह, विजय पाल, जसवीर सिंह, हरपाल सिंह, अकरम सैफी, रिजवान, आकाश सिंह, अजमेर सिंह, कुलदीप सिंह, सन्दीप सिंह, जसविन्दर सिंह, विकास सिंह, निशु राणा, प्रदीप सिंह, सहाबुद्दीन, अदील, हामिद, दानिश सैफी, महेन्द्र सिंह, रहीश अहमद आदि शामिल रहे।

भाजपा गद्दी छोड़ो आंदोलन कल से

रुद्रपुर। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी सयुक्त समिति से जुड़े अवतार सिंह बिष्ट ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी आगामी 10 नवंबर को हरिद्वार में गंगा तट पर लोटे में नमक डालकर शपथ लेंगे कि वे अब भाजपा सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे और स्वर्गीय जेपी पांडे की याद में आहत सम्मेलन में रंभाजपा गद्दी छोड़ो अभियान का संकल्प लिया जाएगा। अवतार सिंह बिष्ट ने कहा कि आंदोलनकारियों को 8 सूत्री मांगों पर 30 अक्टूबर को देहरादून से गांधी पार्क में आंदोलनकारियों ने यह कसम खाई थी यदि 10 दिन में उनकी मांगें ना मानी गईं 10 नवंबर से राज्य में आन्दोलनकारी सड़कों पर आ जाएंगे। कहा कि स्व. जेपी पांडे की याद में आहत हरिद्वार सम्मेलन में 10 नवंबर को भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान की आंदोलनकारी शुरुआत करेंगे।

कोरोना नियमों का करें पालन : कुंवर

भास्कर समाचार सेवा

रुद्रपुर। एसएसपी उधम सिंह नगर दिलीप सिंह कुंवर ने रविवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में अपराध समीक्षा बैठक ली इस दौरान उन्होंने कोरोना जैसी महामारी पर जिले के सभी थाना प्रभारियों को स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन करने के साथ ही और मामलों में निर्देशित किया। एसएसपी ने सर्वप्रथम सभी की समस्याएं पूछी और उनके निराकरण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। उन्होंने कोविड-19 दृष्टिगत सभी थाना प्रभारियों को कोरोना सम्बन्धी नियमों/सावधानियों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमित वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिये। पुलिस कमिश्नों को भी कोविड सावधानियों बतलने के निर्देश दिये गये। त्योंहारी सौजन के चलते सभी प्रभारियों को आगामी त्योंहार



विकारी

घनतेरस, दीपावली, भैया दूज, छठ पूजा को संपन्न कराने के लिए विशेष सतर्कता रखने हेतु निर्देशित किया गया। क्राईम मीटिंग के दौरान एसएसपी द्वारा विगत माह में घटित अपराधों की समीक्षा की गयी, जिसमें उनके द्वारा सभी प्रभारियों को विवेचनाओं विशेषकर पोक्सो/बलात्कार के मामलों में गुणवत्ता/तेजी लाने सम्बन्धी विस्तृत दिशानिर्देश दिये

गये साथ ही सभी प्रभारियों को थाने पर लम्बित माल/शिकायती प्रार्थना पत्र/समन/वारण्ट/अहकमातों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिये गये। बैठक में एसपी सिटी, एसपी क्राइम, समस्त सीओ, प्रतिस्तर निरीक्षक पुलिस लाइन, निरीक्षक एलआईयू, एफएसओ, समस्त थाना/कोतवाली प्रभारी व उपनिरीक्षक यातायात मौजूद रहे।

क्षेत्र के लोगों से अभियान से जुड़ने और बैग बनाने के लिए पुराने कपड़े देने की अपील की

ग्रीन आर्मी और हीलदारी ने गददरे में चलाया सफाई अभियान

- विभिन्न स्थानों से 18 कट्टों में कूड़ा एकत्र किया
- टैक्सियों में लगा रहे पुराने कपड़ों से बना बैग

भास्कर समाचार सेवा

नैनीताल। सरोवर नगरी में ग्रीन आर्मी और हीलदारी द्वारा प्रातः शहर के कई स्थानों पर सफाई अभियान चलाया। जिसमें फांसी गधरे के पास सफाई अभियान चलाकर 6 कट्टे कूड़ा कचरा एकत्र किया। वहीं शनि मंदिर के पास सफाई अभियान चलाकर 4 कट्टे कूड़ा व जू के पास गोल्ड्यू मंदिर के पास यहा 3 कट्टा



सरोवर नगरी में ग्रीन आर्मी और हीलदारी संस्था ने चलाया सफाई अभियान।

रांची जाने वाले रास्ते के जंगल में सफाई अभियान चलाकर 5 कट्टे कूड़ा निकाला गया। स्वच्छता अभियान में

अलग अलग टीम बनाकर 40 सदस्यों ने सफाई अभियान चलाया। सफाई अभियान में पर्यावरण प्रेमी यशपाल

रावत और उनकी पूरी टीम ने भी सफाई अभियान कर सहयोग किया गया। ग्रीन आर्मी और गिरधारी संस्था के सदस्यों ने शहर की जनता से निवेदन किया कि नैनीताल को स्वच्छ बनाने में हमारे साथ हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनें। हमारे द्वारा नैनीताल की टैक्सियों में कूड़े निस्तारण हेतु एक बैग लगाया जा रहा है। जो कि पुराने कपड़ों से बनेगे जिस हेतु आप से निवेदन है कि आप अपने पुराने कपड़ें हमें दें सकते हैं जिससे नैनीताल को सब लोग मिलकर कूड़ा मुक्त कर सकें। अभियान में अन्य संस्थाओं के दर्जनों सदस्य सफाई अभियान में मौजूद थे।

हल्द्वानी में लोगों ने ली कांग्रेस की सदस्यता

हल्द्वानी। नेता प्रतिपक्ष व विधायक ईंदिरा हृदयेश के विकास कार्यों से प्रभावित होकर समाजसेवी बलवंत सिंह मेहरा व हरीश सिंह बिष्ट के नेतृत्व में एक दर्जन से अधिक लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। नेता प्रतिपक्ष ने सदस्यता ग्रहण करने वालों सभी लोगों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता सभी को साथ लेकर बुध स्तर तक पार्टी की मजबूती व क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिये प्रयास करें। इस दौरान एआईसीसी समित हृदयेश, प्रदेश सचिव कानू बिष्ट, पार्षद विनोद दानी, मुकुल बन्सुटिया सहित आदि लोग मौजूद थे।

सोनू यादव बने ब्लैक बेल्ट 3 अर्थडेन

भास्कर समाचार सेवा

बाजपुर। ड्रैगन रितोरियू कराटे डो एसोसिएशन इण्डिया के द्वारा एसके ड कराटे स्पোর্ट्स एकेडमी बाजपुर के तत्वाधान में कराटे प्रशिक्षण बेल्ट टेस्ट शिवित का आयोजन किया गया। जिसमें सेंसर से आये सिहान शमशेर अली एवं आशीष कुमार जोहरी जुनेद सैफी के नेतृत्व में कोविड 19 के दिशा निर्देशों का पालन निरीक्षण करते हुए बाजपुर कराटे कोच सोनू यादव को कराटे ब्लैक बेल्ट अर्थ डैन से सम्मानित किया गया। इस मौके पर बाहर से

- ड्रैगन रितोरियू कराटे डो एसोसिएशन ने कराई प्रतिगोिता



आये कोचों अर्जुन सिंह यूके पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य जानकी पांडे शहर के सभी खिलाड़ियों ने बधाई दी।

संपादकीय चक्कर चुनाव का

ये चुनाव का चक्कर ही है कि हिंदुस्तान में बिहार से लेकर अमेरिका तक बदलाव की एक अलग किस्म की बयार बहने लगी है। इसे एक संयोग ही कहा जाएगा कि 3 नवम्बर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालने का काम हुआ था, उसी दिन बिहार विधानसभा के दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ था और जिस दिन 7 नवम्बर को बिहार में तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव संपन्न हुआ था, उस दिन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की गिनती का काम लगभग पूरा हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी चुनाव के हार जीत का फैसला भी हो चुका था, जिसके मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे और उनकी पार्टी की ही भारतीय मूल की कमला हैरिस विश्व के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। कमला हैरिस अमेरिका के राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति होने के साथ ही एशियाई मूल की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी होंगी। अमेरिका में चुनाव के साथ ही मतों की गिनती का काम भी पूरा हो चुका है, लेकिन अगले राष्ट्रपति के चयन की अधिकृत घोषणा करने से पहले कुछ औपचारिकताओं की पूर्ति करनी होगी। जिसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन परिणाम बदलने की संभावना लगभग नहीं है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के स्थान पर डेमोक्रेटिक पार्टी को सत्ता की चाबी सौंपी जा चुकी है। इसी तरह हमारे बिहार में भी एगजिट पोल के नतीजे बदलाव के ही संकेत दे रहे हैं। बिहार विधान सभा के चुनाव का नतीजा तो मंगलवार 10 नवम्बर की शाम तक आ ही जाएगा लेकिन एगजिट पोल के नतीजे जनता दल (यू) नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की बिदाई और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने के संकेत दे रहे हैं। ये संकेत अगर परिणाम में बदलते हैं तो नीतीश कुमार का अगला मुख्य मंत्री बनना किसी भी हालत में साभव नहीं होगा। बिहार में भी अमेरिका जैसे ही हालात हो जाएंगे।

चुनाव के मौजूदा सन्दर्भ में बिहार और अमेरिका के हालात एकजैसे ही नजर आते हैं। दोनों ही जगह बदलाव की बयार बह रही है। अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रम्प ने 4 साल में ही अपनी लोकप्रियता खो दी लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की जमावट को तोड़ने में मददताओं को खासा वक़्त लगा है। नीतीश कुमार पिछले डेढ़ दशक से सरकार में जमे हुए हैं। बहरहाल अमेरिका के मौजूदा चुनाव के सन्दर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को समझना इसलिए भी प्रासंगिक होगा क्योंकि अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया बहुत जटिल होने के साथ ही लम्बे समय तक चलने वाली प्रक्रिया भी है।

अमेरिका में हर चार साल के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है और जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तब पूरी दुनिया की निगाहें उस पर टिकी होती हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की जनता सीधे तौर पर वोट देकर अपने राष्ट्रपति का चुनाव करती है वास्तव में ऐसा ही नहीं। क्या है अमेरिका में चुनाव की प्रक्रिया क्या है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की योग्यता और कैसे होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव, इस बारे में सबसे पहले यह जानना जरूरी की अमेरिका में 35 साल का हर अमेरिकी नागरिक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है चाहे उसका जन्म विदेश में ही क्यों न हुआ हो अलबत्ता, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहे किसी भी उम्मीदवार के लिए चुनाव वर्ष से पहले लगातार 14 साल तक अमेरिका में रहना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा नवंबर के पहले सोम, मंगलवार को होता है। इस बार यह तारीख तीन नवंबर थी। अमेरिकी संविधान में 'इलेक्टोरल कॉलेज' के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था है। यह विधि तब वजूद में आई जब अमेरिका के संविधान निर्माताओं के दो धड़ों के बीच समझौता हुआ। अमेरिकी संविधान निर्माताओं का एक धड़ा इस पक्ष में था कि अमेरिकी संसद को राष्ट्रपति चुनने का अधिकार मिले। दूसरा धड़ा जनता की सीधी वोटिंग के जरिए राष्ट्रपति चुने जाने के हक में था। इलेक्टोरल कॉलेज को इन दोनों धड़ों की अपेक्षाओं की बीच की एक कड़ी माना गया। अमेरिका की दो दलीय राजनीतिक व्यवस्था है यहां चार साल के अंतर पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इस चुनाव की एक विशेषता इस रूप में भी देखी जा सकती है कि एक बार होते हैं। राष्ट्रपति बनने की आकांक्षा रखने वाले उम्मीदवार सबसे पहले एक समिति बनाते हैं, जो चंदा इकट्ठा करने और संबंधित नेता के प्रति जनता का रुख भांपने का काम करती है। कई बार यह प्रक्रिया चुनाव से दो साल पहले ही शुरू हो जाती है औपचारिक तौर पर चुनावी साल में चुनाव प्रक्रिया 'प्राइमरी' के साथ जनवरी में शुरू होती है और जून तक चलती है। इस दौर में पार्टी अपने उन उम्मीदवारों की सूची जारी करती है, जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में उतरना चाहते हैं। इसके बाद दूसरे दौर में अमेरिका के 50 राज्यों के वोटर पार्टी प्रतिनिधि (पार्टी डेलिगेट) चुनते हैं।

अमेरिकी संविधान प्राइमरी स्तर पर पार्टी प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया में कोई लिखित निर्देश नहीं है। यही वजह है कि कुछ राज्यों में जनता 'प्राइमरी' दौर में मतदान का इस्तेमाल न करके 'कॉकस' के जरिए पार्टी प्रतिनिधि का चुनाव करती है। 'कॉकस' के तहत राज्यों में स्थानीय स्तर पर बैठक कर पार्टी प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है प्राइमरी में चुने गए पार्टी प्रतिनिधि दूसरे दौर में पार्टी के सम्मेलन (कन्वेंशन) में हिस्सा लेते हैं। कन्वेंशन में ये प्रतिनिधि पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। इसी दौर में नामांकन की प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अपनी पार्टी की ओर से उप राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनता तीसरे दौर की शुरुआत चुनाव प्रचार से होती है। इसमें अलग-अलग पार्टी के उम्मीदवार मतदाताओं का समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान उम्मीदवारों के बीच टेलीविजन पर इस मामले से जुड़े मुद्दों पर बहस भी होती है। आखिरी हफ्ते में, उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत 'स्विंग स्टेट्स' को लुभाने में झोंकते हैं। 'स्विंग स्टेट्स' वे राज्य होते हैं, जहां के मतदाता किसी भी पक्ष की ओर जा सकते हैं चुनाव की अंतिम प्रक्रिया में 'इलेक्टोरल कॉलेज' राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करता है। लेकिन इससे पहले राज्यों के मतदाता इलेक्टर चुनते हैं, जो राष्ट्रपति पद के किसी न किसी उम्मीदवार का समर्थक होता है। ये इलेक्टर एक 'इलेक्टोरल कॉलेज' बनाते हैं, जिसमें कुल 538 सदस्य होते हैं। इलेक्टर चुनने के साथ ही आम जनता के लिए चुनाव खत्म हो जाता है। अंत में 'इलेक्टोरल कॉलेज' के सदस्य मतदान के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल मत जरूरी होते हैं हर राज्य का इलेक्टर चुनने का कोटा तय होता है। यह संख्या हर राज्य से अमेरिकी संसद के दोनों सदनों-हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के सदस्यों की कुल संख्या के बराबर होती है। इसलिए हर राज्य के इलेक्टरों की संख्या में अंतर होता है। चुनाव के लिए भी दिन निश्चित होता है। 'इलेक्टोरल कॉलेज' राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी साल के नवंबर महीने में पड़ने वाले पहले मंगलवार को मतदान करता है। अमेरिका में इस साल 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति के चुनाव में ही इलेक्टोरल कॉलेज ने उपराष्ट्रपति पद के लिए भी मतदान किया था। कोई भी इलेक्टर दोनो पदों के लिए एक ही स्टेट के उम्मीदवारों को वोट नहीं दे सकता है। चुनाव के इस तरीके से उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनौती देने की संभावना खत्म हो जाती है। 1804 से पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इलेक्टोरल कॉलेज ही करता था।

जल, जीवन, मिशन व शुद्ध जल



महाबीर जायसवाल

क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर ... ये पांच तत्व हमारे धर्मग्रंथों में मालिक कहे गए हैं तथा हमारी शारीरिक रचना में इनकी समान रूप से भूमिका होती है। इनमें वायु और जल... ये दो ऐसे तत्व हैं, जिनके बिना हमारे जीवन की कल्पना एक क्षण भी नहीं की जा सकती। जीवों को जिस वस्तु की जरूरत जिस अनुपात में है, प्रकृति में वे तत्व उसी अनुपात में मौजूद हैं।

पृथ्वी पर उपलब्ध एक बहुमूल्य संसाधन है जल। या यूँ कहें कि सभी सजीवों के जीने का आधार है जल। धरती का लगभग तीन चौथाई भाग जल से घिरा हुआ है, किन्तु इसमें से 97 फीसदी पानी खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3 फीसदी है। इसमें भी 2 फीसदी पानी ग्लेशियर एवं बर्फ के रूप में है। इस प्रकार सही मायने में मात्र 1 फीसदी पानी ही मानव के उपयोग हेतु उपलब्ध है।

विश्व आर्थिक मंच का मानना है कि आगामी वर्षों में जल संकट की समस्या और अधिक विकराल हो जाएगी। इसी संस्था की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दुनियाभर में 75 प्रतिशत से ज्यादा लोग पानी की कमी की संकट से जूझ रहे हैं। देश में कई गांव ऐसे हैं, जहां जल की समस्या आज भी बहुत बढ़ी है। कई इलाकों में तो लोगों को पानी लेने के लिए प्रतिदिन 1 या 2 किलोमीटर दूर तक चल कर जाना पड़ता है, ताकि उनको पीने का शुद्ध जल प्राप्त हो सके। आंकड़े बताते हैं कि भारत में विश्व की कुल आबादी का तकरिबन 16 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है। लगातार गिरता भू-जल और जल स्रोतों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जल संरक्षण में कुछ अन्य चुनौतियाँ हैं, ऐसे में पीने योग्य पानी की मांग और पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है।

जल संकट की इस चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से जल जीवन मिशन की घोषणा की। इस मिशन के तहत हर घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। घरों तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत वर्ष 2024 तक 100 फीसदी घरों में प्रति दिन 55 लीटर तक पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कार्यात्मक रूप से नल कनेक्शन परिकल्पना की बात करता है। यह योजना न केवल घरों को पाइप नेटवर्क से जोड़ने के लिए है, बल्कि घरों में सुरक्षित और गुणवत्ता पानी की आपूर्ति करने के लिए भी है। यह मिशन पर्याप्त और बेहतर स्वच्छता की भी बात करता है।

गांव के लोगों को दिया जाने वाला पानी भूजल,



वर्तमान में करीब 1600 जलीय प्रजातियां जल प्रदूषण के कारण लुप्त होने के कगार पर हैं, जबकि विश्व में करीब 1.10 अरब लोग दूषित पेयजल पीने को मजबूर हैं और साफ पानी के बगैर अपना गुजारा कर रहे हैं।

एक सच

नदी या झीलें से आया, जो विशेष क्षेत्र में पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

घरेलू क्षेत्र में भूजल का उपयोग कुल जल संकट का 85 फीसदी तक है। भूजल एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके लिए भूजल संसाधनों के रिचार्ज की आवश्यकता है। जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए पानी के स्रोतों को स्थिर बनाने की जरूरत है। अपशिष्ट जल प्रबंधन, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और वाटरशेड प्रबंधन स्रोत स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन उपायों से पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होती है, जिसका उपयोग ग्रामीण घरों में पाइप के माध्यम से आपूर्ति के लिए किया जाएगा।

जल-जीवन मिशन के तहत हर दिन करीब-करीब 1 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। सिर्फ 1 साल में 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाया जा चुका है। जल जीवन मिशन गांव और गरीब के घर तक पानी

पहुंचाने का तो अभियान है ही, ये एक प्रकार से ग्राम स्वराज को, गांव के सशक्तिकरण को, उसके लिए भी एक नई ऊर्जा, नई ताकत, नई बुलंदी देने वाला अभियान है। सरकार के काम करने में किस तरह से बहुत बड़ा बदलाव आया है, ये उसका भी उदाहरण है।

आप यकीन नहीं कर सकते थे कि लेह और हिमाचल के टर्शीगंग जैसे दुर्गम जगहों पर पाइप के जरिए शुद्ध पानी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इसे जल जीवन मिशन के तहत साकार किया जा रहा है। भारत के अंतिम छोर लेह के स्टीक गांव में जल जीवन मिशन के जरिए पाइप से पानी पहुंचाने की तैयारी चल रही है। गौरतलब है कि स्टीक गांव समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस गांव के लोगों के अनुसार सर्दी के महीनों में पानी की ऊपरी सतह के जम जाने के कारण उन्हें अपनी जरूरतों के लिए पानी जुटाने में चुनौती का सामना करना पड़ता है। गांववाले पानी की ऊपरी सतह से 5 फीट नीचे से पानी प्राप्त करने के लिए खुद विकसित किए गए स्थानीय तरीकों को अपनाते आ रहे हैं। इससे पहले बीते सितंबर माह में दुनिया के सबसे ऊंचे (15,256 फीट) मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश के टर्शीगंग गांव तक नल से जल पहुंचा है। टर्शीगंग में भी छह महीने स्थानीय लोगों को पानी के लिए जुझना पड़ता था, लेकिन अब उनकी पानी की समस्या खत्म हो गई है।

जल जीवन मिशन-हर घर जल का लक्ष्य... महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान देने के साथ घरों में पानी की आपूर्ति करना है। बच्चों के लिए स्वच्छ जल सुनिश्चित करना इस मिशन की प्राथमिकता है, क्योंकि वे जल-जनित बीमारियों जैसे टाइफाइड, पेंसिंग, दस्त, हैजा आदि के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार, दुनिया भर में 86 फीसदी से अधिक बीमारियों का कारण असुरक्षित व दूषित पेयजल है।

वर्तमान में करीब 1600 जलीय प्रजातियां जल प्रदूषण के कारण लुप्त होने के कगार पर हैं, जबकि विश्व में करीब 1.10 अरब लोग दूषित पेयजल पीने को मजबूर हैं और साफ पानी के बगैर अपना गुजारा कर रहे हैं।

इन गंभीर मुद्दों से निपटने के लिए स्कूलों, आंगणवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों आदि में नल के पानी के कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ जल सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत प्रावधान किए गए हैं। पिछले महीने गांधी जयंती पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 100 दिन का एक अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य यह है कि अगले 100 दिनों में देश के प्रत्येक स्कूल और आंगणवाड़ी केंद्र को पाइप से पानी की आपूर्ति प्रदान की जाए।

(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

ज्ञान संस्कार



इस साल का आखिरी ग्रहण?



दिलीप शुक्ला

इस महीने के आखिरी दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह चंद्र ग्रहण भारत सहित अन्य देशों में भी दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण इस साल का आखिरी ग्रहण है, जो उपच्छाया होगा। चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को लग रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार, चंद्र ग्रहण वृषभ राशि और रोहिणी राशि में लगाने जा रहा है, जिसके कारण वृष राशि के जातकों पर ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण के बारे में...

ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रह को मन-मस्तिष्क, माता एवं द्रव्य पदार्थों का कारक माना गया है। जब चंद्र ग्रहण लगता है, तो इसका मानव जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मान्यता है कि ग्रहण के समय चंद्रमा को सबसे अधिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है, जिस कारण वह अशुभ फल देते हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, ग्रहण के दौरान वृष राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपको धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर, सेहत पर भी इसका विपरीत असर पड़ सकता है, इसलिए ग्रहण की अशुभता से बचने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण की अशुभता को कम किया जा सकता है। उपच्छाया चंद्र ग्रहण उस स्थिति में लगता है, जब पृथ्वी की वास्तविक छाया में न आकर उसकी उपच्छाया से ही वापस लौट जाता है। इस स्थिति में चांद पर एक धुंधली सी परत नजर आती है। इस घटना में चांद के आकार पर भी कोई असर नहीं पड़ता है, जबकि वास्तविक चंद्र ग्रहण में चंद्रमा के आकार में फर्क पड़ता है। इस घटना को नान आखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है।

चंद्र ग्रहण की तारीख और समय
-उपच्छाया से पहला स्पर्श 30 नवंबर 2020 की दोपहर 1 बजकर 04 मिनट पर।
-परमग्रास चन्द्र ग्रहण 30 नवंबर 2020 की दोपहर 3 बजकर 13 मिनट पर।
-उपच्छाया से अन्तिम स्पर्श 30 नवंबर 2020 की शाम 5 बजकर 22 मिनट पर।
-हाद भारत, अमेरिका, प्रशांत महासागर, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा।

नीति ज्ञान




फूल के खिलने से मधुमक्खियां बिन बुलाए आ जाती हैं ... रामकृष्ण परमहंस

धार्मिक उन्माद पर नियंत्रण जरूरी

दीपक कुमार त्यागी

भारत अपने नीति निर्माताओं की बेहद कुशल कारगर रणनीति के चलते बहुत तेजी के साथ विकास के पथ पर चलने वाला देश है, जो अपने मेहनतकश निवासियों की मेहनत के बलवत् जल्द ही विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो सकता है। बशर्ते कि हमारे देश के हकूमरान साम्प्रदायिक सौहार्द व आपसी भाईचारे की सुरक्षा करके रखें, क्योंकि आजादी के बाद से लेकर आज तक ना जाने कितनी बार छोटी-छोटी बातों का अनेक बार बर्तगड़ बनाकर, हमारे देश के दुश्मनों के द्वारा साम्प्रदायिक दंगों को अंजाम देकर ईंसान व इंसानियत की हत्या कराने का काम लगातार किया गया है, लोगों के बीच दूरी बनाकर समाज के भाईचारे को छिन्न-भिन्न कर दिया है, लेकिन अंततः उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। देश में बढ़ता धार्मिक उन्माद कट्टरवाद आपसी प्यार-भाईचारे को खत्म करके लोगों के बीच गहरी खाई खोदने का कार्य कर रहा है, कुछ माह पूर्व देश की राजधानी दिल्ली में घटित दंगे इसका सबसे ताजा शर्मनाक उदाहरण हैं।

सभी धर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता मिलने वाले देश भारत में धर्म की आड़ में देश के कुछ अतिवादी संगठन व कुछ लोग अपने-अपने धर्म की श्रेष्ठता का दावा सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करके एक-दूसरे के धर्म के लोगों को चिढ़ाने का कार्य करते हैं, जिसके चलते यह धर्म के तथाकथित ठेकेदार लोगों के बीच आपसी जहरीली विद्वेषपूर्ण मानसिकता का विकास करके मनमुटाव की बेहद गंभीर स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद से तो हमारे देश में एक अलग तरह के नए राजनीतिक वातावरण का उद्गम हुआ है, जिसमें हम सभी लोगों के धार्मिक आस्था के व प्रश्न, जो कि बहुत नितान्त व निजी होते थे, उन प्रश्नों पर अब सार्वजनिक मंच से चर्चा होने लगी है और वे प्रश्न अब राजनेताओं की कृपा से बहुत तेजी से राजनीतिक रंग भी लेने लगे हैं। इस तरह की स्थिति देश के विकास की रफ्तार में अवरोध उत्पन्न करती है और देश व समाज हित में बिल्कुल उचित नहीं है।



हर धर्म हमेशा अपने प्रत्येक अनुयायी को अनुशासन में रहना सिखाता है, ना कि अनुशासनहीनता करके समाज में हिंसा व हंगामा बरपाना सिखाता है।

देशहित / धर्म / श्रेष्ठता

हाल ही में फ्रांस में घटित एक घटना के बाद से आजकल एक बार फिर विश्व में धार्मिक उन्माद व कट्टरवाद अपने पूर्ण चरम पर है, हालांकि दुनिया में बनी इस स्थिति पर नियंत्रण के लिए बुद्धिजीवी लोगों के बीच चर्चा जारी है। जिस ढंग से धर्म की ओट लेकर के आये दिन धर्म के तथाकथित स्वयंप्रति ठेकेदार ईंसान व इंसानियत के रक्षक की जगह उसके दुश्मन बने हुए हैं, वह अब किसी भी देश के लोगों से छिपा हुआ नहीं है और यह स्थिति विश्व के सभी बुद्धिजीवी लोगों के लिए बेहद विचारणीय है। वैसे, दुनिया का प्रत्येक धर्म अपने हर एक अनुयायी को नियम-कायदे से रहकर अनुशासित जीवन जीना सिखाता है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों, विश्व में धर्म के नाम पर कोई धर्मांध उन्मादी व्यक्ति बदले की उलगा कर मानवता की हत्याएं हो रही हैं। फ्रांस की घटना के बाद से जिस तरह से पूरी दुनिया के बहुत सारे अलग-अलग देशों में हंगामा बरपा है, उस हालात से अब हमारा देश भारत

भी अछूता नहीं रहा है, भोपाल व हैदराबाद में इकट्ठा लाखों की भीड़ें साबित कर दिया है कि भारत में भी लोगों को अपनी गंभीर समस्याओं व रोजी रोटी रोजगार बच्चों के उज्वल भविष्य की योजनाओं की जगह विश्व के अन्य देशों में घटित घटनाओं की बेहद चिंता है। हालात ने एक बार फिर सभी बुद्धिजीवियों को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर हम 21वीं सदी में धर्म को आड़ लेकर किस तरह का नफरत भरा माहौल देश व दुनिया में बना रहे हैं। वैसे भी धर्म का पालन जीवन को अनुशासित करता है और धर्म के नाम पर कट्टरवाद जीवन व समाज का नाश करता है। हर धर्म हमेशा अपने प्रत्येक अनुयायी को अनुशासन में रहना सिखाता है, ना कि अनुशासनहीनता करके समाज में हिंसा व हंगामा बरपाना सिखाता है।

आज हम लोगों को शांत मन से विचार करना चाहिए कि दुनिया के किसी भी छोर पर जब धर्म के नाम पर कोई धर्मांध उन्मादी व्यक्ति बदले की आग में झुलस कर किसी दोषी या निर्दोष व्यक्ति की हत्या करता है, तो क्या यह नियम-कानून के साथ-साथ मानवता व सच्चे धर्म के विरुद्ध जघन्य

अपराध नहीं है? क्या इस तरह के जघन्य अपराध करने के लिए उसको ईश्वर सख्त सजा नहीं देगा? क्या दुनिया का कोई भी सच्चा धर्म किसी इंसान की हत्या करने की अनुमति देता है? क्या इस तरह की जघन्य घटना को अंजाम देकर किसी सच्चे धार्मिक व्यक्ति को संतुष्टि मिल सकती है? वैसे दुनिया के किसी भी महान सच्चे धर्म में हिंसा या धर्म के जबरन विस्तार को मान्यता नहीं है लेकिन फिर भी ना जाने क्यों दुनिया में बार-बार ऐसा होता है, जबकि वास्तव में धर्म मानवतावादी होता है और अनुशासन, प्रेम व सद्भाव इसका मूल आधार होता है। लेकिन आज सोचने वाली बात यह है कि इन बातों पर आखिर अमल कितने लोग व धर्म के ठेकेदार करते हैं।

आज भारत ही नहीं, बल्कि विश्व समुदाय के सामने चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि वह किस तरह से तेजी से बढ़ते हुए धार्मिक उन्माद व कट्टरवाद की स्थिति से निपटने का कार्य करें और मानवता की दुश्मन बन चुकी इस बेहद गंभीर चुनौती का आखिर किस तरह से सामना करें। हमारी आस्था के अनुसार सभी धर्मों का पूजा अर्चना करने का तरीका अलग है, स्थल अलग-अलग हैं, नियम-कायदे कानून व धार्मिक तरीके अलग हैं, लेकिन फिर भी सभी धर्म मानवता व इंसानियत की रक्षा का संदेश देते हैं, तो फिर धर्म की आड़ लेकर देश में आये दिन यह हंगामा मारकाट क्यों!

लेकिन अब हमारे देश के नीति निर्माताओं को यह समझना होगा कि वह बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक स्वार्थ छोड़कर, देश व समाज के हित में उन्मादियों व कट्टरपंथियों की भीड़ से सख्ती के साथ निपटने का काम करें और उन सभी अज्ञानी बने लोगों को धर्म की सच्ची परिभाषा व सिद्धांत समझाने का काम करें। तब ही हमारे देश में अमनचैन, प्यार मोहब्बत व भाईचारे के साथ शांति कायम रहेगी और देश विकास के नये आयाम स्थापित करके विश्व गुरु बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।

॥ जय हिन्द जय भारत ॥
॥ मेरा भारत मेरी शान मेरी पहचान (स्वभकार व रचनाकार)

प्रेरक प्रसंग

जरूरी है चुनौतियों का सामना करना

एक किसान धूम्रपान से नाराज हो गया। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी धूप बहुत तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। एक दिन तंग आकर उसने परमात्मा से कहा... देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन खेती बाड़ी की जानकारी आपको नहीं है। प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भण्डार को भर दूँगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा... तथस्त्वु। मैं देख लूँ नहीं करूँगा। अब, किसान ने गेहूँ की फसल बोई, धूप चाही, धूप मिली, पानी चाही, तो पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी, समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने सोचा अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं, बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया, किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छापी पर हाथ रख कर बैठ गया। गेहूँ की एक भी बाली के अन्दर गेहूँ नहीं था, सारी बालियाँ अन्दर से खाली थीं। दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा... प्रभु ये क्या हुआ? परमात्मा बोले... ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का अहसास जरा भी नहीं होने दिया, इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है ओले गिरते हैं तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है, वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, उर्जा देता है, उसकी जीवन्ता को उभारता है। सोने को भी कुंठन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। इसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अन्दर कोई गुण नहीं आ पाता। अगर जिंदगी में संघर्ष और प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा।

आज ही के दिन 1937 में जापानी सेना ने चीन के शंघाई शहर पर कब्जा किया था।

कुमाऊं-आसपास

सारसुर्खियां

नियमों के उल्लंघन में 130 का चालान

नैनीताल। कोतवाल अशोक कुमार सिंह के निर्देशन पर कोतवाली मल्लीताल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस नैनीताल एवं चौकी मंगोली पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर 130 व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कार्यवाही करते हुये 36,100 रुपया राजस्व किया गया है। साथी यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर 32 व्यक्तियों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही करते हुए 19,000 रुपया राजस्व वसूल किया गया है। सार्वजनिक स्थान पर लॉक डाउन के नियमों का उल्लंघन कर मास्क न पहनने पर 83 व्यक्तियों से संयोजन शुल्क 16,600 रुपए व सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने वाले व 15 व्यक्तियों से संयोजन शुल्क 1,500 रुपया राजस्व और महामारी अधिनियम में कार्यवाही करते हुए कुल 98 व्यक्तियों पर कार्यवाही करते हुए 17,100 रुपया राजस्व वसूल किया गया।

कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक मोहम्मद युनुस ने बताया लोगों नैनीताल में पधार पर्यटकों को का मास्क पहनने का पालन कराया जा रहा है। साथी यातायात नियमों का भी पालन कराया जा रहा है और उल्लंघन करने वालों पर चलायी कार्यवाही जारी है। और आगे भी जारी रहेगी

अवैध कच्ची शराब सहित चार गिरफ्तार

काशीपुर। आईटीआई थाना पुलिस एवं कुंडेश्वरी चौकी पुलिस ने छापेमारी कर अवैध कच्ची शराब के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। कुंडेश्वरी पुलिस चौकी में तैनात कांस्टेबल केदार सिंह मेहरा ने ग्राम जगतपुर निवासी लखविंदर सिंह पुत्र प्रेम सिंह को 10 पाउच, मंजीत सिंह पुत्र ऋषिपाल को 12 पाउच और शमशेर सिंह उर्फ रिंकू पुत्र ऋषिपाल को 14 पाउच कच्ची शराब के साथ जगतपुर मजार के पास से गिरफ्तार किया। उधर, थाना आईटीआई क्षेत्र के पैगा चौकी पुलिस ने गांवां खाईखेड़ा निवासी मुख्तार सिंह पुत्र गुरदीप सिंह को 60 पाउच कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।

शहरी विकास मंत्री करेंगे 61.98 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण

• पेयजल की दो योजनाओं का शिलान्यास होगा

भास्कर समाचार सेवा

काशीपुर। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर शहरी विकास एवं आवास मंत्री मदन कौशिक नगर में अमृत योजना के अंतर्गत 61.98 करोड़ की लागत से बनने वाली पेयजल की दो योजनाओं का लोकार्पण व चार योजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अमृत योजना के तहत निगम क्षेत्र में प्रत्येक मोहल्लों में पेयजल लाइन बिछाई जा रही है। उत्तराखंड

वैंडर्स को लोन मुहैया कराने के लिए नगर निगम ने लगाया कैप

काशीपुर। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई बेंडर्स आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना के तहत इच्छुक बेंडर्स को आर्थिक सहायता देने के लिए नगर निगम परिसर में कैप लगाया गया। शिविर में दर्जनों लोगों ने स्वरोजगार के लिए आवेदन किया है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की सिटी मैनेजर शांता गुरुानी ने बताया कि बेंडर्स आत्मनिर्भर सुनिधि योजना। जुलाई से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रारंभ की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य जो बेंडर्स कार्य करते हैं। चाहे वह ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों से सभी को बैंक द्वारा 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। विगत 5 सालों से नगर निगम काशीपुर द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार 1048 वेंडर चिन्हित किए गए। इसके अलावा कोविड-19 से प्रभावित हुए रोजगार बंद कर फिर से रोजगार शुरू किया है। उन सभी के लिए आर्थिक सहायता के रूप में लोन उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम में आने वाले सभी वेंडर्स को 10,000 रुपये के लोन उपलब्ध कराने के लिए शिविर के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन किया गया।

4412 लोग लाभांशित होंगे।

वहीं मोहल्ला कानूनगोयान, कटोराताल क्षेत्र में पेयजल योजना जोन-1 (बी) में 6.67 करोड़ की लागत से पेयजल लाइन बिछाई गई है। इससे 9882 लोग लाभांशित

होंगे। अधिशासी अभियंता बंसल ने बताया कि इसके अलावा जोन-2 में गिरिताल, द्रोणासागर, कटोराताल में 12.8 करोड़ की लागत से, जोन-3 में गिरिताल व द्रोणासागर में 10.70 करोड़ की

लागत से, जोन-5 शक्तिनगर, टांडा उज्जैन व महेशपुर में 16.18 करोड़ की लागत पेयजल लाइन व ओवर हेड टैंक बनाए जा रहे हैं।

वहीं जोन-8 टांडा उज्जैन व लक्ष्मीपुर पट्टी में 12.66 करोड़ की लागत से पेयजल लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया इससे 57297 की जनसंख्या लाभांशित होगी। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आज नगर निगम प्रिंगण में शहरी विकास एवं आवास मंत्री मदन कौशिक पेयजल योजना जोन-1 ए व बी का लोकार्पण और पेयजल योजना के जोन-2, 3, 5 व 8 का शिलान्यास दोपहर 12 बजे करेंगे।

विधायक को फोन पर धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार

बैलजुड़ी के साजिद ने विधायक आदेश चौहान को फोन पर दी धमकी

भास्कर समाचार सेवा

काशीपुर। जसपुर के विधायक आदेश चौहान को जान से मारने की धमकी उनके मोबाइल फोन पर देने वाला आरोपी बैलजुड़ी गांव का साजिद बताया जा रहा है। पुलिस ने उसकी कॉल ट्रेस कर उसकी पहचान कर ली है। वहीं, विधायक की महरी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली रवाना कर दिया है।

बता दें कि गुरुवार शाम को विधायक आदेश चौहान के मोबाइल पर दो नंबरों से कॉल कर उनसे गाली गलौज की गई। साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। सिरफिरे ने विधायक को अपने दो नंबरों से सात बार कॉल कर अभद्रता की। विधायक ने तत्काल पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही करने को कहा था। पुलिस ने विधायक के दिए गए नंबरों को एसओजी से ट्रेस कराकर आरोपी की पहचान कर ली है। आरोपी बैलजुड़ी गांव का साजिद बताया गया है। उसकी लोकेशन दिल्ली में मिली है। पुलिस ने विधायक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी को पुलिस टीम रवाना कर दी है। कोतवाल एनबी भट्ट ने

ज्वेलरी बेचने में आशा कार्यकर्ता को जेल

काशीपुर। बीते सितंबर माह फेसबुक में दोस्ती के बाद अश्लील फोटो दिखाकर ब्लैकमेल कर जेवरत मंगाने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक की मां आशा कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं ब्लैकमेल कर नाबालिग से मंगाए जेवरत बेचने में संलिप्तता पाये जाने पर व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष रहे एक ज्वैलर्स समेत दो लोगों को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है।

आपको बता दें कि 24 सितंबर को सैनिक कालोनी निवासी एक व्यक्ति ने आवास विकास निवासी चेतनराज पर उसकी नाबालिग पुत्री से फेसबुक में दोस्ती कर अश्लील फोटो खींच ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज कर चेतन को गिरफ्तार कर लिया।

बताया कि एसओजी ने जिस कॉलर का नाम बताया है वह ग्राम बैजलजुड़ी निवासी साजिद है। बताया कि पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है।

तीन तलाकःपति सहित पांच के खिलाफ केस

काशीपुर। दहेज लोभियों ने दहेज में प्लाट नहीं मिलने पर ससुरालियों ने विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया। असफल होने के बाद उसके पति ने तीन तलाक दे दिया। पीड़िता को अश्लील फोटो दिखाकर ब्लैकमेल कर जेवरत मंगाने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक की मां आशा कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं ब्लैकमेल कर नाबालिग से मंगाए जेवरत बेचने में संलिप्तता पाये जाने पर व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष रहे एक ज्वैलर्स समेत दो लोगों को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है।

बैंक खाते से एक लाख निकाले

नैनीताल। भीमताल के ब्लॉक रोड निवासी हरिलाल के स्टेट बैंक खाते से नगर के विभिन्न एटीएम से करीब एक लाख निकाल लेने का मामला सामने आया है। पीड़ित हीरालाल ने भीमताल थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तहरीर देकर पुलिस से पैसे निकालने वाले का पता लगाने की गुहार लगाई है। मामले की जांच एसआई शंकर नयाल कर रहे हैं। ब्लॉक रोड निवासी हीरालाल ने थाने में तहरीर देकर कहा कि उनके स्टेट बैंक भीमताल के खाते से नगर स्थित विभिन्न बैंकों के एटीएम से अलग-अलग तिथियों में अज्ञात व्यक्ति द्वारा करीब एक लाख की धनराशि निकाल दी गई है। उसने पुलिस को बताया कि उनका हलहलानी में पिछले एक-दो महीने से इलाज चल रहा था, शनिवार को जब वह बैंक में पासबुक में एंटी करने पहुंचे और पासबुक में एंटी कराकर देखा तो नगर के विभिन्न बैंकों के एटीएम से अलग अलग तिथियों में करीब 100000 रुपये के पैसे निकाले जा चुके थे। इतनी बड़ी रकम खाते से निकाल लिए जाने से उनके होश उड़ गए। उन्होंने इसकी सूचना बैंक को भी दी।

भाजपा का प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ

भास्कर समाचार सेवा

अल्मोड़ा। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अल्मोड़ा का प्रशिक्षण एवं अल्मोड़ा नगर में प्रारंभ हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ नैनीताल के पूर्व सांसद व बीज प्रमाणीकरण बोर्ड के अध्यक्ष बलराज पासी ने किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रवि शैतेला ने की वर्ग के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए बलराज पासी ने भारतीय जनता पार्टी के इतिहास व विकास विषय पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया तथा वर्ष 1951 जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी बनने तक के संघर्षों का वृत्तांत कार्यकर्ताओं को



अल्मोड़ा में प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करते अतिथि।

बताया। वर्ष 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा व अटल की सरकार व मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पर आधारित पार्टी है।

जिसका मूल मंत्र ही समाज की सेवा है और उसी मंत्र को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। वर्ग के दूसरे सत्र को जिला सहकारी बैंक के निदेशक नरेन्द्र भंडारी ने संबोधित किया तथा

व्यक्तिगत विकास विषय पर अपने विचार रखे।

तृतीय सत्र को पूर्व जिला अध्यक्ष विपिन भट्ट ने संबोधित किया संबोधित किया। अंत्योदय प्रयत्न विषय पर पार्टी की अवधारणा को कार्यकर्ताओं को विस्तार से बताया चतुर्थ सत्र में मुख्य वक्ता पंकज कांडपाल ने परिवार विषय पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष कैलाश गुरु रानी ने सभी प्रशिक्षण में आए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह वर्ग दो दिवसीय होगा। वर्ग में आए विषयों का संज्ञान लेते हुए सभी कार्यकर्ता समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे।

पूर्व विधायक का स्वागत किया

सितारगंज। सितारगंज के नव नियुक्त अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश सचिव गुरनाम सिंह करनावल के प्रतिष्ठान में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व विधायक नारायण पाल ने पहुंचकर कांग्रेस के नवनि्युक्त पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया।

उनका कहना था कि आज भाजपा सरकार के राज्य में किसानों का बुरा हाल है। धान की फसल सरकारी क्रय केंद्रों में तुल नहीं पा रही है। और किसानों को अपनी धान की फसल व्यापारियों को ओने पौने दामों में बेचनी पड़ रही है। वहीं किसानों पर सरकार ने काले कानून को लाद कर उनकी जीते जी हत्या करने का काम किया है।

स्थापना दिवस पर सीएम करेंगे सीएससी का शुभारंभ

भास्कर समाचार सेवा

नैनीताल। उत्तराखंड के पंचायती राज विभाग की ओर से त्रिस्तरीय पंचायतों (ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत) के लिए राज्य स्थापना के मौके पर 9 नवम्बर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

पंचायतीराज विभाग उत्तराखण्ड के सचिव/निदेशक हरीश चंद्र सेमवाल ने बताया कि उत्तराखण्ड में न्याय पंचायत स्तर पर आईटीडीए के माध्यम से सीएससी-एसपीवी के द्वारा सभी 662 न्याय पंचायतों में कामिन सचिव सेंटर का मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी

पूर्व सीएम ने साधा सरकार पर निशाना

भास्कर समाचार सेवा

हल्द्वानी। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा कि चार साल पहले केंद्र सरकार ने नोटबंदी का फैसला लेकर कहा था कि अब काला धन जमा करने वालों पर मार पड़ेगी। मगर हुआ इसका उलट।

पूर्व सीएम ने कहा कि पीएम की इकोनॉमी पूरी तरह फेल हो गई। जिसका सबसे ज्यादा असर रोजगार पर पड़ा। और अगर बेरोजगारी बढ़ाने की तुलना की जाए रोजगार देने में सीएम सबसे ज्यादा फिसट्टी साबित हुए। नैनीताल रोड स्थित निजी होटल में पत्रकारों से बातचीत

करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि उनके कार्यकाल में श्रमिक कर्मकार बोर्ड का गठन कर दो लाख लोगों को पंजीकृत किया गया था। 250 करोड़ उनकी सरकार इस बोर्ड के फण्ड में छोड़कर भी गई। मगर अब इसमें 400 करोड़ का घोटाला हो गया।

अब मैं जांच का मामला सरकार पर छोड़ता हूँ कि वो भले सीबीआई, एसआईटी या न्यायिक जांच करवा दोषियों को पकड़े। हरदा ने बिना नाम लेते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि नई-नवेली पार्टी भी भ्रष्टाचार के मामले में साथ हो गई। वो खुद योजना की साइकिलें बांट रही।



भट्टीगांव में तैनात शिकारी और वन विभाग के कर्मचारी।

भट्टीगांव में 4 दिन के बाद भी शिकारियों के हाथ खाली

भास्कर समाचार सेवा

• गुलदार की पहलचान नहीं होने से परेशानी

• शिकारी और वन विभाग की टीम गांव में तैनात

जागरूक रहने की अपील की और कहा कि शाम के समय बच्चों को घरों से बाहर अकेला नहीं छोड़े। आप को बता दें पिछले माह भट्टीगांव गांव में गुलदार ने एक पांच वर्षीय बच्ची को निवाला बना दिया था। वन विभाग ने गुलदार को आदमखोर धोषित करने के साथ एक गुलदार को पिंजरे में भी पकड़ा था। एक माह के भीतर ही गुलदार को पकड़ने और नष्ट करने की अनुमति मिली थी।

• आज से आयोजित होंगे कई कार्यक्रम

पंचायत प्रतिनिधियों एवं हितधारकों के क्षमता विकास हेतु पंचायतीराज विभाग में हैल्प डैस्क प्रणाली की स्थापना की जा रही है। कहां कि हैल्प डैस्क प्रणाली के सुचारु संचालन हेतु पंचायतीराज निदेशालय भवन का आधुनिकीकरण कर स्मार्ट एंड्र इको फ्रेंडली के रूप में परिवर्तन किया जा रहा है। इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता विकास हेतु विशेष रूप से तैयार आन लाइन प्रशिक्षण माडल द्वारा विभागों में वेबसाइट/यू-ट्यूब के माध्यम से

जल संस्थान की लापरवाही के चलते उपभोक्ताओं के पानी के बिल अधिक आने से हो रही परेशानी

जनहित में कार्य नहीं कर रही डबल इंजन सरकार: आप

भास्कर समाचार सेवा

नैनीताल। लॉक डाउन और कोरोना संक्रमण महामारी के बाद से जल संस्थान की लापरवाही के चलते उपभोक्ताओं के पानी के बिल अधिक आने से आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी प्रदीप दुग्गा ने कहा केंद्र व राज्य में भाजपा की डबल इंजन की सरकार जनहित में फेल है। अच्छे दिन का नारा देकर सत्ता में आने के बाद उत्तराखंड राज्य में जनता महंगाई और पानी के भारी बिल लेकर लूटने का आरोप लगाया



है। उन्होंने कहा यदि दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को पानी फ्री दे रही है। और यहां की सरकार उससे विपरीत है। लेकिन यहाँ तो उल्टी ही गंगा बहे

रही है, राज्य सरकार पानी फ्री तो क्या देगी, ऊपर से बिलों में बेतहाशा बढ़ोतरी करके आम जन की कमर ही तोड़ दी है। वहीं नगर अध्यक्ष शाकिर अली ने

कहा कि हमने क्षेत्रीय विधायक के जनता दरबार में पानी की अक्षोभित कटौती व बढ़े हुये बिलों के संबंध में ज्ञान सौंपा था। लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, उसके पश्चात आम आदमी पार्टी ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता का घेराव कर बढ़े हुये बिल वापस लेने की मांग की थी, लेकिन सरकारी विभाग व सरकार का उदासीन रवैया जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ बढ़ा रहा है। जिसे आप पार्टी और कार्यकर्ता नैनीताल बिल्कुल बर्दशत नहीं करेगी, आगे बोलते हुये अध्यक्ष शाकिर ने कहा कि

विगत दिनों भाजपा शिष्टमंडल जल संस्थान अधिकारी से मिलता है।

समस्या निदान न होने पर आंदोलन की चेतावनी देता है, लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि केंद्र और सरकार बचने के लिए सरकार फिर ये क्यों बन रहे हैं इतने मजबूर, इतने लाचार, इन्होंने तो सीधे मुख्यमंत्री से बात कर जनता की समस्या का तुरंत निदान कराना चाहिए।

वरना दीपावली के त्यौहार के पश्चात आम आदमी पार्टी नैनीताल धरना व प्रदर्शन करेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

एक ही परिवार के लोगों को जमकर पीटा

बाजपुर। किंगदर को उधार दिए गए रुपयों को मांगने पर उसके साथ एक ही परिवार के कई लोगों जमकर मारपीट की जिसमें वह घायल हो गया, घायल ने कोतवाली में तहरीर देकर रुपये दिलाकर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। रविवार को मोन्टी यादव पुत्र ओमप्रकाश निवासी मझरप्रभु वार्ड 1 ने कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि उसने एक दुकान किराये पर ली थी।

दुकान के समय मालिक दीवान सिंह पुत्र छोटेला निवास आलापुर ने 3 लाख 50 हजार रुपये उधार लिए थे। पीड़ित द्वारा अपने रुपयों को मांगने पर आना कानी करने लगे, इसके पश्चात पंचायत रखी गयी जिसमें आरोपी ने बीते 6 नवंबर को रुपये देने का वायदा किया था लेकिन नहीं दिए गए।

बेरीनाग चौकोड़ी वासियों को भूमि का मालिकाना हक दें

भास्कर समाचार सेवा

• विकास प्राधिकरण को खतल करें

गंगोलीहाट और बेरीनाग क्षेत्र पेयजल योजना को शुरू करने का आग्रह किया।

आर्य ने बताया कि साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में भाजपा ने विधानसभा क्षेत्र में किये गये विकास कार्यों को जनता के सामने रखे पूर्व में कांग्रेस सरकार के स्वीकृत कार्यों का दुबारा से शिलान्यास और लोकार्पण कर भाजपा सरकार अपनी वाह वाही लूट रही है। प्रदेश गठन के दिवस पर फिजूल खर्चों करने के बजाय सरकार को क्षेत्र के विकास में धन खर्च करना चाहिए।

सारसुर्खियां

कैटिच ने किया विराट कोहली का बचाव



अबु धाबी। आरसीबी के मुख्य कोच साइमन कैटिच ने लगातार आठ वर्षों तक अपनी कप्तानी में आईपीएल को कोई खिताब नहीं जिताने पर आलोचनाओं को सामना कर रहे कप्तान विराट कोहली का बचाव करते हुए कहा है कि आरसीबी को अभी उनकी जरूरत है। विराट खिलाड़ियों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं और उनकी दूसरी खूबी यह है कि वह युवा खिलाड़ियों को अंत तक संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते हैं। आरसीबी शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद से आईपीएल के एलिमिनेटर में छह विकेट से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। इस हार के साथ विराट का लगातार आठवें साल अपनी कप्तानी में आईपीएल जीतने का सपना टूट गया और उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

रामकुमार ने की वापसी



नई दिल्ली। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामकुमार ने एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जर्मनी के मार्विन मेलर को 4-6, 6-1, 6-1 से हराकर केंटल चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया। पच्चीस वर्षीय रामकुमार ने 12 एसेज लगाए और सात में से पांच ब्रेक प्वाइंट हासिल किए। रामकुमार का फाइनल में अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डो से मुकाबला होगा। चैलेंजर सर्किट में उनका यह पांचवां एकल फाइनल है। हालांकि उन्होंने कभी खिताब नहीं जीता है। इससे पहले रामकुमार ने रूस के इवोनी डोस्की को 6-2, 6-1 से हराया था। इस प्रतियोगिता से पहले वह जनवरी में बैंगलोर चैलेंजर के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। कोरोना वायरस महामारी के ब्रेक के बाद उन्होंने पिछले महीने ही प्रतिस्पर्धी टेनिस में वापसी की है।



प्रयागराज में रविवार को संगम नदी पर नजर आए साइबेरियन प्रवासी पक्षी।

एजेंसी

हरमनप्रीत और मंधाना में होगा खिताबी मुकाबला

शनिवार को रोमांचक मुकाबले में जीती सुपरनोवा, मिताली राज की टीम बाहर

शारजाह, एजेंसी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली गत चैंपियन सुपरनोवा और स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली ट्रेलब्लेजर्स के बीच आज महिला टी-20 चैलेंजर टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। सुपरनोवास के लिए शनिवार को ट्रेलब्लेजर्स के साथ करो या मरो का मुकाबला था, जिसमें सुपरनोवास ने अंतिम गेंद तक खिंचे रोमांचक मुकाबले में दो रन से जीत हासिल कर फाइनल में जगह बना ली। सुपरनोवास को इस जीत से मिताली राज की कप्तानी वाली वेलोसिटी की टीम बाहर हो गई।

तीन टीमों के इस टूर्नामेंट में लीग मैचों के बाद ट्रेलब्लेजर्स, सुपरनोवास और वेलोसिटी के एक बराबर दो-दो अंक रहे, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के आधार पर ट्रेलब्लेजर्स और सुपरनोवास को फाइनल में भेजा गया। सुपरनोवास ने टूर्नामेंट में 144 रन पर रोककर फाइनल का

जीत के साथ बढ़ा हमारा आत्मविश्वास: हरमनप्रीत

शारजाह। ट्रेलब्लेजर्स को महिला टी-20 चैलेंजर क्रिकेट टूर्नामेंट के आखिरी लीग मैच में दो रन से हराकर फाइनल में पहुंचने के बाद सुपरनोवास की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि इस जीत के साथ टीम का आत्मविश्वास बढ़ गया है और यह अगले मैच में भी जीतने की पूरी कोशिश करेगी। यह बहुत करीबी मुकाबला रहा। हमारे गेंदबाजों को सलाम, जिन्होंने दबाव में भी शानदार प्रदर्शन किया। आप जो भी मैच खेलते हैं, उसे जीतने चाहते हैं। हमारी शुरुआत अच्छी रही, हम कम से कम 160 रन का स्कोर बनाना चाहते थे।

सुपरनोवास ने फाइनल में जगह बनाई, जबकि वेलोसिटी को बाहर हो जाना पड़ा। वेलोसिटी को अपने दूसरे मैच में मात्र 47 रन पर लुढ़कने का खामियाजा उठाना पड़ा। पहले मैच में मिताली की वेलोसिटी टीम ने गत चैंपियन सुपरनोवास को हराया। दूसरे मैच में मंधाना की टीम ट्रेलब्लेजर्स ने वेलोसिटी को मात्र 47

ओलंपिक स्तर की प्रतिभा निखारने को होंगे प्रयास

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने छह केंद्रों को खेले इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (केआईएससीई) के रूप में मंजूरी दे दी है। इन केंद्रों को 67.32 करोड़ रुपये के समेकित बजट अनुमान के साथ वित्त वर्ष 2020-21 के लिए और बाद में ओलंपिक स्तर की प्रतिभाओं की पहचान करने के प्रयास में अगले चार वर्षों के लिए उन्नत किया जाएगा।

खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पहल पर कहा कि देश भर में खेल उत्कृष्टता केंद्र बनाना भारत को ओलंपिक 2028 में शीर्ष 10 देशों में शामिल करने के हमारे दृष्टिकोण की दिशा में एक कदम है। जब तक हम विश्व स्तरीय विशेष प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर



● छह खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी

सकते, हम एथलीटों से ओलंपिक खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की उम्मीद नहीं कर सकते। इन केंद्रों में प्रत्येक में एक विशिष्ट खेल में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और वह केंद्र देश में उस विशिष्ट खेल का प्रमुख केंद्र बन जाएगा, जहां उस खेल के विशिष्ट

साझेदारी से मजबूत होगा तंत्र

नई दिल्ली। खेल मंत्रालय प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में मौजूदा खेल अवसरचना का उन्नयन कर रहा है। इसके लिए राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के साथ साझेदारी करके और पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण कर रहा है। प्रत्येक केआईएससीई को 14 ओलंपिक खेलों में विशिष्ट खेल सहयोग के साथ विस्तृत किया जाएगा, जिसमें से एक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को अधिकतम तीन खेलों के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा।

एथलीट प्रशिक्षण देगे। उत्कृष्टता केंद्रों का समर्थन, बुनियादी ढांचे का उन्नयन, खेल विज्ञान केंद्रों की स्थापना और फिजियोथेरेपिस्ट, शक्ति और कंडीशनिंग विशेषज्ञों जैसे गुणवत्ता प्राप्त प्रशिक्षकों और खेल विज्ञान मानव संसाधनों के रूप में

उपलब्ध होगा। खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे। अकादमी में खेल विज्ञान सहयोग और प्रदर्शन प्रबंधन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उच्च प्रदर्शन वाले प्रबंधक की नियुक्ति का भी प्रावधान होगा।



कोलंबो-कैंडी के बीच होगा एलपीएल का उद्घाटन मैच

कोलंबो। लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) के उद्घाटन मैच में कोलंबो और कैंडी के बीच मुकाबला होगा। एलपीएल का उद्घाटन मैच श्रीलंका के हंबनतोता के महिंदा राजपक्षे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 26 नवंबर को होगा। मैच उद्घाटन समारोह के बाद शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा उद्घाटन समारोह दोपहर बाद साढ़े तीन बजे से शुरू होगा। इसके बाद 27 नवंबर और चार दिसंबर को होने वाले मैच रात आठ बजे से शुरू होंगे। एलपीएल के सेमीफाइनल मैच 13 और 14 दिसंबर को होंगे। फाइनल मैच 16 दिसंबर को होगा।

सुपरनोवास को देंगे कड़ी टक्कर: स्मृति मंधाना

शारजाह। सुपरनोवास से महिला टी-20 चैलेंजर क्रिकेट टूर्नामेंट के आखिरी लीग मैच में दो रन से हारने के बाद ट्रेलब्लेजर्स की कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि टीम मजबूती से वापसी करेगी और फाइनल में सुपरनोवास के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेगी। सुपरनोवास ने शनिवार को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सुपरनोवास ने महत्वपूर्ण मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते

हुये 20 ओवर में छह विकेट पर 146 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। इसके बाद ट्रेलब्लेजर्स इस लक्ष्य का पीछा करते हुये 20 ओवर में पांच विकेट पर 144 रन ही बना पाया और दो रन से हार गया। सुपरनोवास इस जीत के साथ फाइनल में पहुंच गया है और सोमवार को उसका मुकाबला ट्रेलब्लेजर्स से ही होगा। स्मृति ने मैच हारने के बाद कहा कि मुकाबला बहुत करीबी हो गया था। जीतने पर बहुत खुशी होती, लेकिन दीपन शर्मा और हरलीन देवेल ने शानदार पारी खेली। मैच के दौरान बहुत ओस भी गिरी। हमारा ध्यान केवल मैच जीतने पर था।

नडाल का पेरिस मास्टर्स जीतने का सपना टूटा

पेरिस, एजेंसी। विश्व के नंबर दो खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल का पहली बार पेरिस मास्टर्स खिताब जीतने का सपना जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव के हाथों शनिवार को सेमीफाइनल में पराजय के साथ टूट गया।

20 ग्रैंड स्लेम खिताबों के विजेता और शीर्ष वरीयता प्राप्त नडाल को चौथी सीड ज्वेरेव ने लगातार सेटों में 6-4 7-5 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। नडाल 2007 में इस टूर्नामेंट के

● एलेक्जेंडर ज्वेरेव से सेमीफाइनल में हारकर हुए बाहर

● 2007 में पहुंचे थे टूर्नामेंट के फाइनल में

ब्रेक हासिल किया, लेकिन 23 वर्षीय ज्वेरेव ने 11वें गेम में फिर नडाल की सर्विस तोड़ दी। उन्होंने 12वें गेम में अपनी सर्विस पर दूसरे मैच अंक पर जीत हासिल कर ली। ज्वेरेव अपने चौथे मास्टर्स खिताब के लिए तीसरी सीड रूस के डेनिल मेदवेदेव से मुकाबला करेंगे, जिन्होंने कनाडा के मिलोस स्कोर बनाया और फिर ट्रेलब्लेजर्स को पांच विकेट पर 144 रन पर रोककर फाइनल का

गंभीर की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव

नई दिल्ली। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज एवं लोकसभा सांसद गीतम गंभीर की कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गंभीर ने रविवार को यह जानकारी दी। वह अपने आवास में कोरोना वायरस का एक मामला सामने आने के कारण आइसोलेशन में थे। गंभीर ने रविवार को ट्वीट किया कि मेरी कोविड जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शुभकामनाएं देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।

कोरोना संक्रमित महमूदुल्लाह नहीं खेलेंगे पीएसएल

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश के ऑलराउंडर महमूदुल्लाह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद वह पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) प्लेऑफ में नहीं खेल पाएंगे। पीएसएल के प्लेऑफ 14 नवंबर से शुरू होंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि महमूदुल्लाह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, जिसके कारण वह आगामी पीएसएल प्लेऑफ में नहीं खेल पाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स ने इंग्लैंड के मोईन अली की

● 14 नवंबर से होना है आगाज

● मोईन अली के स्थान पर किए गए थे शामिल

कलंदर टीम में जगह मिली थी। महमूदुल्लाह के कोरोना संक्रमित होने के बाद तमीम इकबाल एकमात्र बल्लेबाज के रूप में पीएसएल के लिए पाकिस्तान रवाना होंगे। पीएसएल प्लेऑफ 14 नवंबर से शुरू हो रहा है और पहले क्वालीफायर में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के बीच मुकाबला होगा। इसी दिन पहले एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर और पेशावर जाल्मी भिड़ेंगे। दूसरा एलिमिनेटर 15 नवंबर को और फाइनल 17 नवंबर को होगा।

दिवाली पर अपनों को दें बादाम की सौगात

नई दिल्ली। त्योहारों का मौसम परवान चढ़ने के साथ-साथ दिवाली भी करीब आ पहुंची है। ऐसे में आपके कामों की लिस्ट उतनी ही लंबी होगी, जितनी आपकी सामाजिक प्रतिबद्धताएं। घर की सजावट और त्योहारों के व्यंजन बनाने से लेकर सबसे खास पूजा की थाली ढूंढने या अपने परिवार और दोस्तों के लिए सर्वोत्तम उपहार तय करने तक ऐसी कई चीजें हैं, जिन पर आपका ध्यान दिया जाना जरूरी है। हालांकि अब तक जारी महामारी के कारण इस साल का जश्न उतना भव्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी परिवार के साथ खुशियां और प्यार साझा करने के लिए दिवाली एक महत्वपूर्ण क्षण है। इस साल तंदुरुस्ती और सुरक्षा



● मिठाई का है बेहतर विकल्प, बीमारियों को न दें निमंत्रण

पर ध्यान केंद्रित रहने के कारण अपने प्रियजनों से सेहत बढ़ाने वाले उपहारों को साझा कर सकते हैं। बादाम को अच्छी सेहत का उपहार भी कहा जाता है क्योंकि इससे हृदय की सेहत, डायबिटीज और वजन प्रबंधन में विभिन्न प्रकार के लाभ

मिलते हैं। इसके अलावा बादाम से कॉपर, जिंक, फॉलेट, आयरन और विटामिन ई प्राप्त होते हैं, जो प्रतिरोधक प्रणाली को मदद करते हैं। ये सारे गुण बादाम को घर पर रखने के लिए सबसे अच्छा आहार बनाते हैं। मैक्स हेल्थकेयर दिल्ली की रीजनल हेड डायटेटिक्स रितिका समहर का कहना है कि सभी भारतीय घरों में दीपावली के दौरान उपहार के तौर पर मिठाइयां साझा करना एक सामान्य परंपरा है। मेरी सलाह है कि मिठाइयों की बजाय बादाम का विकल्प चुनें। इसके पोषण मूल्य और विभिन्न प्रकार के लाभ के कारण बादाम दीपावली के दौरान दिया जाने वाला उत्कृष्ट उपहार बन जाता है।

560 अरब डॉलर के पार पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार

मुंबई, एजेंसी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में 18.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 560.71 अरब डॉलर पर पहुंच गया। यह लगातार पांचवां सप्ताह है जब विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 5.41 अरब डॉलर बढ़कर 560.53 अरब डॉलर हो गया था। इससे पहले 16 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा का भंडार 3.61 अरब डॉलर बढ़कर 555.12 अरब डॉलर, नौ अक्टूबर को समाप्त

● लगातार पांचवें सप्ताह दर्ज की गई वृद्धि

सप्ताह में 5.87 अरब डॉलर बढ़कर 551.51 अरब डॉलर पर तथा 2 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में 3.62 अरब डॉलर बढ़कर 545.64 अरब डॉलर पर रहा था। केंद्रीय बैंक ने बताया कि 30 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 81.5 करोड़ डॉलर की वृद्धि के साथ 518.33 अरब डॉलर पर पहुंच गया। हालांकि इसके बाद इसके सभी घटकों में गिरावट रही है।



रविवार को नई दिल्ली में दीवाली त्योहार के लिए फैसी लाइटिंग की बिक्री करता दुकानदार।

एजेंसी

घरेलू स्तर पर जमकर हुई दिवाली के बल पर उफान पर शेयर बाजार, बीएसई संवेदी सूचकांक संसेक्स 5.75 प्रतिशत बढ़ा

दिवाली से पहले छोटे निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह

● कोरोना मामलों में बढ़ोतरी से पड़ेगा असर

मुंबई, एजेंसी। वैश्विक कारकों और घरेलू स्तर पर अधिकांश समूहों में हुई दिवाली के बल पर बीते सप्ताह शेयर बाजार में तुफानी तेजी रही और इस दौरान बीएसई का संसेक्स 41983.06 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 11263.55 अंक पर पहुंच गया। दिवाली को देखते हुए अगले सप्ताह निवेशकों विशेषकर छोटे निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है क्योंकि बाजार में

सोमवार को बना ली थी बढ़त

वैश्विक स्तर पर रही तेजी के साथ ही बैंकिंग, वित्त और टेलीकॉम कंपनियों में कारोबार के अंतिम चरण में हुई दिवाली के बल पर घरेलू शेयर बाजार सोमवार को बढ़त बनाने में सफल रहा। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदक 11669.15 अंक पर रहा। सप्ताहांत पर भी शेयर बाजार में लगातार पांचवें दिन तेजी बनी रही जिससे संसेक्स 552.90 अंक उछलकर 41893.06 अंक पर और एनएसई का निफ्टी 143.25 अंक चमककर 12263.53 अंक पर रहा।

करेक्शन देखने को मिल सकता है। समीक्षाधीन अवधि में बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक संसेक्स 5.75 प्रतिशत अर्थात् 2278.99 अंकों की बढ़त के साथ 41893.06 अंक पर

रहा। इस दौरान एनएसई का निफ्टी 5.34 प्रतिशत अर्थात् 621.15 अंक चढ़कर 12263.55 अंक पर रहा। इस दौरान मझौली और छोटी कंपनियों में भी दिवाली का जोर बना रहा जिससे



बीएसई का मिडकैप 3.36 प्रतिशत अर्थात् 500.14 अंक बढ़कर 15404.76 अंक पर रहा। स्मॉलकैप 2.22 प्रतिशत अर्थात् 329.93 अंक बढ़कर 15218.01 अंक पर पहुंच गया।

विश्लेषकों का कहना है कि कंपनियों के तिमाही नतीजों विशेषकर बैंकों के परिणाम उम्मीद से बेहतर रहने से निवेश धारणा मजबूत बनी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जो बिडेन के जीत हासिल करने से अगले सप्ताह बाजार में तेजी दिख सकती है, लेकिन कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी होने से बाजार पर नकारात्मक असर हो सकता है। इसके साथ ही शेयर बाजार में हाल के दिनों में आई तेजी के कारण भी मुनाफा वसूली देखी जा सकती है। इसके मद्देनजर छोटे निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है।

सरसों तेल में उबाल दालों में घट-बढ़

नई दिल्ली। विदेशों में खाद्य तेलों की कीमतों में मिश्रित रुख के बीच घरेलू बाजार में बीते सप्ताह सरसों में जहां उबाल आ गया, वहीं अन्य खाद्य तेलों में टिकाव रहा। इस दौरान दाल दलहन में मिश्रित रुख देखा गया। गेहूं और चावल नरम पड़ गया, जबकि आठों में तेजी रही। चीनी और गुड़ महंगा हो गया। विदेशों में मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का दिसंबर वायदा नौ रिंगिट चढ़कर 2,920 रिंगिट प्रति टन पर पहुंच गया, जबकि दिसंबर का अमेरिकी सोया तेल वायदा 1.01 सेंट लुढ़ककर 33 सेंट प्रति पाउंड बोला गया। स्थानीय बाजार में सरसों तेल 219 रुपये उबल गया जबकि सूरजमुखी तेल, सोया रिफाईंड, पाम ऑयल और वनस्पति के दाम स्थिर रहे।

सुपर 252 और 272 गेहूं बीज ने मचाई धूम

गाजियाबाद। गेहूं की फसल की उत्पादकता बढ़ने के लिए विकसित किए गए सुपर-252 व 272 बीज ने गेहूं की फसल में क्रांति ला दी है। नतीजा है कि इस बीज को जो भी बोता है, उसकी फसल लहलहा लगी है और खतरा भी नहीं है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश के किसानों की भी यह बीज पहली पसंद बने हुए हैं। दरअसल किसानों की फसल उत्पादकता बढ़ाने में मदद करने के लिए वर्ष 2016 में सुपर 252 और सुपर 272 गेहूं बीज लॉन्च किये थे। उत्तरप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के किसान गेहूं की इन किस्मों को खूब पसंद कर रहे हैं। अपनी अनुकूलन क्षमता और

● फसल की बंपर पैदावार से किसानों में खुश

● पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसानों की पसंद

उत्पादकता तथा पीली रतुआ बीमारी के प्रति अधिक सहनशीलता के चलते ये गेहूं किसानों की पहली पसंद बन गए हैं। इन बीजों को लॉन्च करने वाली कंपनी श्रीराम फार्म सोल्यूशंस के उपाध्यक्ष संजय छाबड़ा बताते हैं कि अयोध्या के किसान सुनील कुमार और आगरा के संसाबाद निवासी किसान हरीओम सिंह की तरह अनेक किसानों ने इसका बीज बोने के बाद लहलहाती फसल पाई है।

आज ही के दिन 1949 में कोस्टारिका में संविधान को अंगीकार किया गया था।

देश-विदेश

सारसुर्खियां

शरणार्थी शिविर में हमले का प्रयास

तेल अवीव। विवादित पश्चिम बैंक के हेब्रन के दक्षिण पश्चिमी इलाके में एक शरणार्थी शिविर के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से हमले का प्रयास किया, जिसे बाद में इजरायली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इजरायली सुरक्षा बलों की ओर से रविवार को यह जानकारी दी गई। आर्सेडीएफ ने कहा कि हेब्रन के दक्षिण पश्चिमी इलाके में अल-फव्वा शरणार्थी शिविर के पास चाकू से हमले की वारदात के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई। हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हादसे में अब तक इजरायली पक्ष की ओर से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यानी हमलावर अपने प्रयास में पूरी तरह नाकाम रहा। गौरतलब है कि फ्रांस में हाल में हुई घटना के बाद चाकू से हमले के आतंक से कई देश जूझ रहे हैं।

कमला ने कहा रैक्स वाशिंगटन

वाशिंगटन। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने जा रही कमला हैरिस ने अपने भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बंद-कटकर मतदान करने वाले अमेरिकी लोगों का धन्यवाद किया और उन्होंने सदियों से चले आ रहे महिलाओं के संघर्षों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि आपने रिकार्ड संख्या में वोट डालकर अमेरिका के लोकतंत्र में एक नया अध्याय लिखा है। आपने उम्मीद, मर्यादा, विज्ञान और सच को चुना है। आपने जो बिडेन को अगला राष्ट्रपति चुना है। हैरिस ने महिलाओं को याद करते हुए कहा कि महिलाएं हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं। वे औरतें, जिन्होंने 100 वर्ष पहले 19वें संशोधन के लिए लड़ाई लड़ने के अलावा 55 वर्ष पहले नाबिकार के लिए संघर्ष किया है।

खाड़ी देशों का दौरा

मास्को। वेनेजुएला और ईरान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि डेविलेट अब्राहम ईरान पर सहमति बनाने के लिए इस सप्ताह इजरायल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के दौरा करेंगे। अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक प्रेस विज्ञापन में कहा कि वेनेजुएला और ईरान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि डेविलेट अब्राहम ईरान पर सहमति बनाने के लिए 12 नवंबर तक इजरायल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के दौरा करेंगे।



रविवार को लखनऊ में सूचना विभाग के नए भवन में अपने कार्यालय के उद्घाटन के दौरान मशहूर कॉमेडियन एवं यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव व उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। एजेंसी

ताकत नहीं, कार्यों से दुनिया का करेंगे नेतृत्व

चुनाव परिणाम में बिडेन की जीत, पूरी दुनिया के लिए प्रकाश स्तंभ के समान है अमेरिका

• लोगों का आत्मविश्वास दोबारा वापस लाने का करेंगे कार्य

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने कहा कि एक वैश्विक नेता के तौर पर अमेरिका की पहचान उसकी ताकत के रूप में नहीं, बल्कि उसके कार्यों से होनी चाहिए। बिडेन ने चुनाव परिणाम आने के बाद शनिवार को डेलावेयर के विलमिंटन में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए यह बात कही। बिडेन ने कहा कि आज रात पूरी दुनिया अमेरिका की ओर देख रही है। मैं मानता हूँ कि अमेरिका पूरी दुनिया के लिए प्रकाश का एक स्तंभ है। हम सभी लोगों का नेतृत्व करेंगे,

ट्रंप समर्थकों को भी किया आश्वासन

मास्को। अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने वाले जो बिडेन ने अपने प्रतिद्वंद्वी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों से उन्हें मौका देने के लिए कहा है। उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि आप सबमें से जिन्होंने राष्ट्रपति पद को वोट दिया, मैं आपकी निराशा को समझ सकता हूँ, लेकिन हमें एक दूसरे को मौका देना चाहिए। अब समय आ गया है कि माहौल को हल्का करें। एक-दूसरे की बात को फिर से सुना जाए। हमें विकास करने के लिए अपने विरोधियों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करना बंद करना होगा।

लेकिन ताकत के बल पर नहीं, बल्कि अपने कार्यों से प्रस्तुत किए गए उदाहरणों के बल पर। यह राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका के लोगों का आत्मविश्वास दोबारा लौटाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रपति कार्यालय अमेरिका की आत्मा को पुनःस्थापित करने

का काम करे। इस देश की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले मध्यम वर्ग को मजबूत करना और दुनियाभर में अमेरिका के सम्मान को लौटाना हमारा लक्ष्य होगा। मैं जीत के बाद अमेरिका के प्रांतों को लाल रंग अथवा नीले रंग के रूप में नहीं देखूंगा। उन्होंने कहा कि मैं सभी प्रांतों

विश्व में 12.5 लाख लोगों की कोरोना से मौत

- अमेरिका में कोरोना से 2,36,064 लोगों की गई मौत
- 4.98 करोड़ से ज्यादा अब भी हैं संक्रमित

वाशिंगटन/रियो डि जेनेरो, एजेंसी। विश्व में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 12.5 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि 4.98 करोड़ से अधिक लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र (सोएसएसई) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व में कोरोना वायरस से अब तक 4,98,22,322 लोग संक्रमित हुए हैं और 12,50,446 लोगों की

फिलीपींस में 3 लाख से ऊपर पहुंचा आंकड़ा

मनीला। फिलीपींस में इस महामारी से अब तक 3.94 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा 7,539 लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में कोरोना से अब तक 3.91 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा 10,803 लोगों की मौत हुई है। सऊदी अरब में भी अब तक कोरोना से 3.50 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं जबकि 5,525 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 3.43 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा 6,968 लोगों की मौत हो चुकी है।

मौत हुई है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका में इस महामारी से अब तक 9,33,359 लोग संक्रमित हुए हैं और 2,36,064 लोगों की जान चली गई है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 1.27 लाख से अधिक नए संक्रमित पाए गए हैं।

भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 49,082 मरीज स्वस्थ हुए और 559 लोगों की मृत्यु हुई। देश में इस महामारी से अब तक 1,26,121 लोगों की मौत हो चुकी है। सक्रिय मामलों की संख्या

3967 घटकर 5,12,665 रह गई है। ब्राजील कोरोना संक्रमितों के मामले में तीसरे स्थान पर है। देश में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 56.53 लाख से अधिक हो गई है और अब तक 1.62 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 51.18 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। रूस में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 17.40 लाख से अधिक हो गई है और अब तक 30010 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस में इसकी चपेट में अब तक करीब 17.10 लाख लोग आए हैं तथा 40,220 लोग काल के गाल में समा गए हैं। स्पेन में इस महामारी से अब तक करीब 13.29 लाख लोग संक्रमित हुए हैं।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा केंद्र की योजनाओं का लाभ

- असंगठित श्रमिक सम्मेलन का आयोजन
- पूर्व सरकार पर जमकर साधा निशाना

अकाउंट खोलकर सरकार ने अपनी मंशा साफ भी कर दी है। विधायक अजय माहावर ने कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना से चालीस करोड़ लोगों को लाभ होगा। सम्मेलन में सभी वक्ताओं न श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, मंत्री बृजेश सिंह, नेहा प्रडेल, दीपक चौहान, निर्मल मिश्र, मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह, सुरेंद्र साहू, सत कुमार शर्मा के साथ साथ समर्थक कार्यकर्ता व असंगठित श्रमिक उपस्थित रहे।

पूर्वी दिल्ली। केंद्र सरकार की श्रमिक नीतियों को आम आदमी तक पहुंचाने के क्रम में रविवार को करावल नगर विधानसभा स्थित सोनिया विहार में असंगठित श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट व घोड़ा से भाजपा विधायक अजय माहावर के अलावा कई एक बीजेपी कार्यकर्ता सहित सैकड़ों की संख्या में श्रमिक मौजूद रहे। बीजेपी विधायक बिष्ट ने केंद्र सरकार की श्रमिक नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रही है। सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक वो सभी सरकारी लाभ पहुंचाना चाहती है, जिनकी पूर्व सरकार अवहेलना करती रही है। उन्होंने कहा कि दूर दराज में रहने वाले लोगों के जीरो बैलेंस बैंक



को केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के नजरिए से ही देखेंगा। मैं हमेशा दिल से यही प्रयास करूंगा कि आप सबका विश्वास जीत सकूँ। दरअसल, अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन प्रभाव वाले प्रांतों को लाल रंग और डेमोक्रेट समर्थक प्रांतों को नीले रंग में दिखाया गया था।

डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ने अपनी जीत के लिए अफ्रीकी अमेरिकी मूल के मतदाताओं का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन लोगों के कारण ही शुरुआती मुकामलों में पिछड़ने के बावजूद उन्हें बढ़त मिली। अमेरिका पिछले तीन महीनों से रंगभेद की आग में जल रहा था। उन्होंने ट्रंप समर्थकों से कड़वाहट भुलाने की अपील करते हुए कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि जिन लोगों ने ट्रंप को वोट दिया है, वे आज निराश होंगे। मैं भी कई बार पराजित हुआ हूँ और यही लोकतंत्र का सुंदर पहलू है कि इसमें सबको मौका मिलता है। चलिए, नफरत समाप्त कीजिए। एक-दूसरे की बात सुनिए और आगे बढ़िए। विरोधियों को शत्रु मानना बंद कीजिए, क्योंकि हम सब अमेरिकी हैं।

निर्माण श्रमिकों का होगा निःशुल्क पंजीकरण

सहारनपुर। उप श्रम आयुक्त शक्तिसेन मौर्य ने श्रमिकों को निःशुल्क पंजीकरण, नवीनीकरण एवं बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के हितार्थ चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने जाने के लिए कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सभी निर्माण श्रमिकों से अपील की कि वे कैम्प में जाकर अपना निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने सभी श्रम प्रवर्तन

- 30 नवंबर तक लगाए जाएंगे कैम्प
- कल्याणकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ

अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में श्रमिक कैम्पों का आयोजन कराए। शनिवार को विकासखंड देवबंद में एनके चौधरी की देखरेख में कैम्प का आयोजन किया गया। इसी प्रकार 9 नवंबर को

विकासखंड कार्यालय मुजफ्फराबाद में कृष्ण अवतार की देख-रेख में, 10 नवंबर को सहारनपुर शहर के विभिन्न लेबर अड्डों पर सुश्री प्रीति सोम की देख-रेख में, 11 नवंबर को विकासखंड कार्यालय गंगोह में उषर् अवस्थी, 18 नवंबर को कार्यालय उप श्रमायुक्त, सहारनपुर में सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी की देखरेख में कैम्प लगाए जाएंगे। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी कैम्प लगाए जाएंगे।

प्रशिक्षण शिविर शुरू

देवबंद। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग देवबंद मंडल के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. महेन्द्र सैनी द्वारा किया गया। शिविर में शुभलेश शर्मा प्रभारी महिला मोर्चा देवबंद एवं निवर्तमान नगर उपाध्यक्ष भाजपा देवबंद, रजनी शर्मा जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा सहारनपुर, अरूण गुप्ता, आलोक खटीक आदि द्वारा देवबंद विधायक कुंवर त्रिनेश सिंह को प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया।

अमेरिका के साथ बातचीत को तैयार वेनेजुएला

पारक्स, एजेंसी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन को बधाई देते हुए कहा है कि उनका देश अमेरिका के साथ बातचीत को पूरी तरह से तैयार है। मैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अमेरिका के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। मैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई कमला हैरिस को भी उनकी

- राष्ट्रपति बनने पर जो बिडेन को दी बधाई
- बेहतर संबंधों की जताई उम्मीद

जीत के लिए बधाई देना चाहता हूँ। वेनेजुएला हमेशा से ही अमेरिका के लोगों और उनकी सरकार के साथ बातचीत शुरू करना चाहता है। गौरतलब है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच रिश्ते काफी

उतार-चढ़ाव वाले रहे हैं। अमेरिका के तमाम बड़े मीडिया संस्थानों ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत की जानकारी दी है। बाइडेन ने अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है। उधर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चुनाव में अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि इसका फैसला अब कौट करेगा।

फिर से शूटिंग पर लौटे रणवीर

मुंबई। कोरोना के चलते पूरे बॉलीवुड की तरह ही रणवीर और दीपिका भी कोई काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब रणवीर बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की ऊर्जा और काम के प्रति उनके समर्पण से सभी वाकिफ हैं। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के बाद से ही ज्यादातर काम बंद था। बॉलीवुड का भी यही हाल था, लेकिन अब काम वापस पटरी पर आने लगा है। अभिनेता रणवीर सिंह भी सेट्स पर



मालदीव में हनीमून एंजॉय कर रही काजल अग्रवाल

मुंबई। काजल अग्रवाल और गौतम किचलू हनीमून के लिए रवाना हो गए हैं। काजल ने फोटोज शेयर कर फैंस को यह जानकारी दी थी। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया था कि वह असल में हनीमून के लिए जा कहाँ रहे हैं। अब गौतम किचलू ने हनीमून डेस्टिनेशन से एक फोटो शेयर की है। फोटो देखकर पता लग रहा है कि दोनों मालदीव में हनीमून एंजॉय करने गए हैं। फोटो शेयर करते हुए गौतम ने लिखा कि सावधानियां बरतते हुए दोबारा ट्रैवल किया, खुद को खुशानसीब मानता हूँ। धीरे-धीरे

वापस आकर काफी खुश हैं। मार्च में लॉकडाउन के पहले रणवीर कबीर खान निर्देशित अपनी अगली फिल्म 83 की रिलीज की तैयारियां कर रहे थे। यह फिल्म 1983 में हुए क्रिकेट विश्व कप में भारत के चौथे स्थान पर जीतने की कहानी पर आधारित है।

हनीमून के लिए रवाना हुए नेहा और रोहनप्रीत



मुंबई। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह हनीमून के लिए रवाना हो चुके हैं। रोहनप्रीत सिंह ने इंस्टाग्राम पर नेहा अपनी फोटोज शेयर की हैं, जिसमें उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर बैठे देखा जा सकता है। खबरों के मुताबिक, हनीमून एंजॉय करने के लिए दोनों दुबई गए हैं। हालांकि रोहनप्रीत और नेहा दोनों की ओर से यह कफम नहीं हुआ है कि हनीमून डेस्टिनेशन उनकी दुबई है या कोई और जगह। दोनों की शादी 26 अक्टूबर को हुई है। दोनों की शादी, रिसेप्शन, हल्दी, मेहंदी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे।

प्रदूषण फैलाने पर 20 दिन में काटे 2535 चालान

पूर्वी दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए शाहदरा उत्तरी जोन प्रशासनिक अधिकारियों ने कर्मर कस ली है। इसके लिए उत्तरी जोन में 11 टीमों का गठन किया है, जो दिन रात पूरे क्षेत्र में नजर बनाए हुए हैं।

खासकर जहां प्रदूषण के हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, उन इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। कहीं भी कूड़ा जलता मिला, सड़क पर बरफपुर रोड़ी बरफपुर या बिल्डिंग का कोई भी सामान फैला मिला या फिर कहीं भी किसी भी तरह का निर्माण होता दिखाई दिया तो वहां पर तुरंत चालान काट दिए जाते हैं।

- हॉटस्पॉट क्षेत्रों की हो रही कड़ी निगरानी
- कूड़ा जलाए जाने पर हो रही कार्रवाई

इस बारे में शाहदरा उत्तरी जोन उपायुक्त रमन कुमार ने बताया कि पिछले 20 दिनों में उन्होंने अलग-अलग तरीके के डस्ट कंट्रोल, अवैध डंपिंग, ओपन वार्निंग समेत 2535 चालान काटे हैं। साथ ही 236 चालान तंदूरों के काटे गए जिनमें 176 तंदूरों को तोड़ा गया है। लगातार इस तरह का अभियान जारी रहेगा।



रविवार को नई दिल्ली में नोटबंदी के खिलाफ विरोध मार्च निकालते एनएसयूआई के सदस्य। एजेंसी

संस्थागत प्रसवों को बढ़ाने के लिए अमल में लाई जाए प्रभावी कार्ययोजना, बीते माह बनाए गए थे 700 गोल्डन कार्ड

अभियान चलाकर बनाए जाएं गोल्डन कार्ड: अखिलेश

सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि अभियान चलाकर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड जारी किये जाएं। जिन गांवों में एक भी लाभार्थी का अभी तक आयुष्मान भारत योजना के तहत एक भी गोल्डन कार्ड नहीं बना है, उन्हें चिन्हित कर तत्काल कार्ड बनवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूल-कॉलेज, जिला चिकित्सालय, सीपचसी, पीएचसी आदि पर साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था कराए जाने के भी निर्देश दिए। डीएम अखिलेश



आयुष्मान कार्ड को लेकर बैठक में निर्देश देते जिलाधिकारी। सिंह रविवार को तहसील सदर सभागार में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान कितने बच्चों का जन्म घर पर हुआ इसकी रिपोर्ट भी

बरती जाए। प्राइमरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ओपीडी सेवाओं को जारी रखा जाए। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. बीएस सोढ़ी ने बताया कि जनपद में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत जनपद के कुल 1287 गांवों के 137110 परिवारों के कुल 685550 लाभार्थी योजना का लाभ ले रहे हैं। गत माह 700 गोल्डन कार्ड बनाए गए। जनपद में 102 नेशनल एंजुलेंस सेवा 29 है, जो 15 मिनट में स्थल पर पहुंच जाती है। 108 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंजुलेंस सेवा 33 है।

जिलाधिकारी सिंह ने निर्देश दिये कि कैम्प लगाकर गोल्डन कार्ड बनवाए जाएं, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कॉमन सर्विस सेंटर पर जो गोल्डन कार्ड बनाये जा रहे हैं, वहां पर लाभार्थी से निर्धारित शुल्क से ज्यादा पैसे न लिये जाएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रणय सिंह, जिला विकास अधिकारी मंशाराम यादव, जिला अर्थ एवं स्वास्थ्य अधिकारी अमित कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीएस सोढ़ी, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. सुनील वर्मा तथा एमओआईसी तथा संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।



ADVERTORIAL

मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम्॥ - (श्री राम स्तुति)
(काम, क्रोध, लोभादि शत्रुओं का नाश करने वाले श्रीरघुनाथजी मेरे हृदय कमल में सदा निवास करें।)

श्रीराम के तत्व की अंतः जाग्रति राम राज्य के लिए एकमात्र मार्ग



“आपको अंदर से राम बनना है”

- श्री माताजी निर्मला देवी

इस आधुनिक युग में जब परमात्मा की खोज एक मुगुत्थ्या लगती है और अहंकार बुद्धि पर राज करता है, केवल श्री राम के तत्व को जानकर और इसे जागृत कर ही माया के जंजाल-भ्रमसागर से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस तत्व की प्राप्ति किसी मानसिक क्रिया जैसे पढ़ने, विमर्श, वाद-विवाद करने आदि से नहीं, परन्तु एक अन्तःस्थित सूक्ष्म शक्ति की जागृति से ही मुमकिन है। यह सूक्ष्म शक्ति, जिसका वर्णन वेदों, ग्रंथों और उपनिषदों में कुण्डलिनी नाम से किया गया है, वही शक्ति है जिसकी जागृति की महिमा महाकवि विशिष्ट ने श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को अपने आश्रम में बतलाई थी। यह कुण्डलिनी एक अति सूक्ष्म शक्ति है जो रीढ़ की हड्डी के नीचे त्रिकोणकार अस्थि में साढ़े तीन कुण्डल बनाकर स्थित है। यही कुण्डलिनी हमारी अन्तर्जात माँ है जो हमें उन्मत्त प्रदान करती है। पट्टक भेदन कर जब कुण्डलिनी मनुष्य के सूक्ष्म तंत्र में सहस्रार, जोकि सिर का तालु भाग है, का भेदन करती है तब 'योग', अर्थात् आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ाव, घटित होता है। इससे हमारे अंदर एक नयी चेतना का विस्तार होता है जिसे हम आत्म-साक्षात्कार कहते हैं। कहा गया है, कि बिना स्वयं को जाने परमात्मा नहीं मिल सकता। केवल आत्म-साक्षात्कार के उपरांत ही हम सभी धर्मों, संतों और अवतारों, जैसे कि श्री राम की वाणी को समझ व उसे आत्मसात कर सकते हैं। चिकित्सा में इस शक्ति की जागृति अत्यंत कठिन एवं दुर्लभ थी और एक गुरु केवल एक शिष्य को ही आत्म-साक्षात्कार दे पाता था। इसकी प्रक्रिया अत्यंत दुर्लभ थी।

जिसमें साधक को कड़ी तपस्या और ध्यान के माध्यम से मन एवं शरीर की शुद्धि करनी पड़ती थी। हिमालय की बर्फ की गोद में कठिन तपस्वियों से लेकर किष्किंधा की घनी कंदराओं में ध्यान-साधना कर रहे साधकों में से भी सबसे पवित्र और समर्पित को ही आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त हो पाता था। इसी कारण, परमात्मा की खोज कर रहे जनमानस में से केवल एक या दो साधकों के ही चित्त में आत्मा का प्रकाश प्रकाशित हो पाता था।

हे सर्पों के शत्रु गरुड जी! सुनिए, कलिकाल प्राण और अवगुणों का घर है। किन्तु कलियुग में एक गुण भी बढ़ा है की उसमे बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मित्र जाता है।

(श्री रामचरितमानस)

आज कलियुग में मानव जाति को सबसे बड़े वरदान के रूप में सहज योग का ज्ञान मिला है जोकि सन १९७० में परम पूज्य श्रीमाताजी निर्मला देवी द्वारा शुरू किया गया था, जिनको सभी प्रेम से श्री माताजी बुलाते हैं। उन्होंने एक सुगम तरीके से इच्छुक साधकों को, चाहे वे फिर कितने भी लौंग हों, आत्म साक्षात्कार देने की प्रक्रिया को कार्यान्वित किया। 'सहज' अर्थात् सरल, स्वतः घटित होने वाला अतः परमात्मा के साथ जुड़ाव, जिसे 'योग' कहते हैं, वह सहज योग में कुण्डलिनी की जागृति द्वारा सुगमता के साथ घटित हो जाता है। जब साधक शुद्ध इच्छा व्यक्त करता है तो कुण्डलिनी माँ जागृत होती है और सभी चक्र पर कर सहस्रार का भेदन करती है जिससे अंततः हमारा चित्त आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। जब ये प्रकाश हमारे व्यक्तित्व में आता है तो हमारे अंतःस्थित सभी अज्ञान के अन्धकार को निकाल देता है और परमात्मा की शक्ति का अनुभव हाथों की हथेलियों और सिर के तालु भाग पर शीतल चैतन्य लहरियों के रूप में प्रारम्भ हो जाता है।

सो मन जदपि प्रगट जग अहडं। राम कृपा विनु नहिं कोउ लहडं।।

सुगम उपाय पाइबे केरे। न हतभाय्ये देहिं भटभरे।।

चित्त के प्रकाशित होने पर, ये शरीर स्वयं एक मंदिर के समान हो जाता है जिसमें सभी चक्रों पर विराजमान देवी-देवताओं के तत्व जागृत हो जाते हैं, उन्हीं में से एक श्री राम का तत्व भी है। जब श्री हनुमान ने सीना फाड़कर दिखाया तो उनके हृदय में श्री सीता राम की छवि दिखाई दी। उसी तरह हमारे सूक्ष्म तंत्र, जो तीन नाड़ियों और सात चक्रों से निर्मित है, में श्रीराम अपनी अध्यात्मिनी श्री सीता के साथ हृदय, या अनाहत, चक्र के दाहिनी ओर विराजमान हैं। जब कुण्डलिनी इस चक्र का भेदन करती है तो श्री राम का तत्व जागृत हो जाता है और मनुष्य स्वतः ही अपने व्यक्तित्व में श्री राम के गुण-धर्म अपनाते शुरू कर देता है। यह गुणों का अपनाता किसी मानसिक क्रिया या बाहरी अनुशासन से नहीं अपितु हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर सहज ही घटित होता है, जैसे दिल का धड़कना एवं पाचन क्रिया जैसी स्वचालित क्रियाएं स्वतः होती हैं। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वह पवित्रता के रक्षक और सम्पूर्ण मानव जाति में सर्वो परि हैं। अपने अवलक्षण से उन्होंने एक आदर्शपुरुष का चरित्र, धर्म का महत्व और एक जिम्मेदार और भले राजा की भूमिका दिखाई। श्री राम हमेशा लोगों की भलाई के लिए, उनके मत का सम्मान करते हुए जनमत और जनहित के लिए कार्य करते थे। इतना ही नहीं अपितु उनके जीवन का सबसे बड़ा गुण एक ईमानदार राजकर्ता और एक सत्यवादी राजा का दिखता है जो उन्होंने अपने संतुलन, शांत स्वभाव, कोमलता और माधुर्य से प्रक्षेपित किया।

“श्री राम की मधुरता, जिस प्रकार वे लोगों को आराम देते थे, एक उदाहरण है एक सीप का जिसके मुख में एक छोटा सा पत्थर का कण आ जाता है और वह एक चमकीला तरल

पदार्थ निकाल उसे ढक देता है और उसे आरामदायक बनाने के लिए मोती में बनाता है। अब वह अपना आराम नहीं चाहते थे। राम थोड़े अलग हैं, कि वह हर किसी को एक ही या मोती में बनाना चाहते थे ताकि दूसरा व्यक्ति चमक जाए और अच्छा लगे और इस तरह वह आराम महसूस करते थे। जब उन्होंने लोगों पर शासन करना शुरू किया, तो श्री राम ने परोपकार को दिखाया। वह वे थे जिन्होंने लोगों की जरूरतों की परवाह की थी।”

(श्री माताजी का श्री रामचंद्र जी के एक परोपकारी राजा होने के गुण का वर्णन)

संतों के कल्याण और निर्दोषों की रक्षा के लिए श्री राम ने अनेकानेक राक्षसों का संहार किया। वे परम शील थे लेकिन धर्म और संतुलन को प्रस्थापित करने हेतु उन्होंने कुकर्मियों का नाश करने में एक क्षण का भी विलम्ब नहीं किया। त्रेता युग में यह राक्षस शारीरिक रूप में प्रक्षेपित थे परन्तु इस कलियुग में जब रावण स्वयं हर मस्तिष्क में अहंकार रूपी बैठा है और दानवी प्रवृत्तियां मानव व्यक्तित्व में प्रवेश कर देश को भ्रष्टाचार और धूमिल राजनीति से खोखला कर रही हैं, तो जरूरत है तो केवल हमारे अंतस में बैठे श्री राम की शक्ति को उजागर करने की। यह जागृति एक घटना है जो हमारे स्वचालित नाड़ी तंत्र पर महसूस की जा सकती है। यह केवल बात नहीं है, यह एक होनी, एक वास्तविकता है। हम श्री राम राज्य की बात करते हैं परन्तु राजकरण की बाहरी सफाई से राम राज्य नहीं आ सकता, जब तक यह सफाई हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती। जब तक हमारे नेताओं और जनमानस के अंदर यह अन्तर्जात ईमानदारी प्रस्थापित नहीं होती तब तक राम राज्य केवल एक आदर्श राज्य का सपना बनकर रह जाएगा, जो तत्व में तो बहुत अच्छा है पर करने में नहीं।

अगर राम राज्य आना है, तो श्री राम को उन लोगों के दिलों में जन्म लेना होगा जोकि राजकरण के शीर्ष पर हैं।

यद्यपि यह मणि (कुण्डलिनी) जगत में प्रकट (प्रत्यक्ष) है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम (सहज) ही हैं पर अभाग्य मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं।


(श्री रामचरितमानस)

श्री राम हमारे हृदय में सत्य, धर्म और मर्यादा के गुणों के साथ स्थित हैं। श्री राम का जीवन, एक प्रेममय पिता, पति, पुत्र और एक भले राजा के रूप में, एक आदर्श नेता और व्यक्ति के दृश्य की नींव रखता है। नीच जाति की माने जाने वाली शबरी के बूटे बेर खाने में उनकी विनम्रता और करुणा उनके हृदय के प्रेम को प्रतिबिम्बित करती हैं। श्री राम ऊंच-नीच के विचारों से परे थे। एक राजा के बेटे होने के बाद भी उनका प्रेम सबके लिए एक समान था। जिस करुणा और विनम्रता से उन्होंने शबरी के बेर स्वीकार्य किये, वे उनके अद्भुत चरित्र की सुंदरता दर्शाता है। उनके लिए जाति और सामाजिक प्रतिष्ठा मायने नहीं रखती। उनका प्रेम और आदरभाव सभी लोगों को एक समान प्लावित करता था। यह प्रेम तब प्रगटित होता है जब आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाता है। तब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तत्व को छू सकता है। आज के समय में हम राजनीति और राजकरण के ऊपर इतने वाद-विवाद देखते हैं, पर यदि हम श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेकर देखें तो जाहेंगे कि एक अच्छी सरकार केवल तभी कार्य कर सकती है जब वह लोकमत और जनहित के लिए पूर्ण प्रेम, निस्वार्थ भाव और विनम्रता से कार्य करे।

इस कलियुग में ये सबसे बड़ा निर्णय है कि आप राम बना चाहते हैं या रावण। दोनों ही अंदर बैठे हैं पर एक को चुनने की पूरी स्वतंत्रता आपके हाथों में है। जबतक कुण्डलिनी शक्ति जागृत नहीं होती तब तक श्री राम को सत्य स्वरूप में नहीं समझा जा सकता। हम विचार-विमर्श, शास्त्रार्थ, किताबें लिखना, मंदिर बनाना, रैली निकालना आदि सब श्री राम के नाम पर करते हैं, पर जब तक हृदय में श्री राम नहीं बैठेंगे, यह सब भी व्यर्थ चला जाएगा। जैसे एक दीप जिसको जलाया नहीं गया प्रकाश नहीं फैला सकता उसी प्रकार जब तक हमारे अंदर के प्रकाश पर अज्ञान के काले बादल घिरे रहेंगे तब तक श्री राम का चरित्र जोकि सम्पूर्ण भारतवर्ष में विख्यात और पूजनीय है, हमारे व्यक्तित्व में नहीं उतर सकता। श्री राम की बात करने से हम श्री राम जैसे नहीं बन सकते, पर केवल कुण्डलिनी की जागृति द्वारा, जोकि एक जीवंत क्रिया है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होने वाली एक घटना है, जिसके परिणाम स्वरूप हम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम के तत्व से प्लावित होते हैं और उनके गुणों को स्वतः अपनाते हैं। कोई कह सकता है कि, “मैं बहुत बड़ा राम भक्त हूँ” पर यह भक्ति भी बाहरी ही रह जाती है जब तक अंदर से जुड़ाव स्थापित नहीं होता। असली दशहरा हमारे अंदर घटित होता है जब अहंकार रूपी रावण को कुण्डलिनी की शीतल अग्नि विध्वंस कर देती है। यही अच्छाई की बुराई और सत्य की असत्य पर असली जीत है। पर यह आपके हाथों में है। केवल अपनी पूर्ण स्वतंत्रता में ही आपको इस जागृति की इच्छा करनी है। यह किसी भी रूप से लादी नहीं जा सकती। यह एक खोज है जिसके लिए केवल शुद्ध इच्छा चाहिए और कुछ नहीं। अंततः यह केवल सहज योग में कुण्डलिनी की सूक्ष्म और सुगम जागृति से ही मुमकिन है जिससे हम श्री राम तत्व को पूर्ण रूप से अपने व्यक्तित्व में उतारकर अपने हृदय के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं।

उनके आदर्शों को प्राप्त करने के बाद, हम दूसरे तक पहुँचते हैं क्योंकि वह मानवीय आदर्श थे। यह महान बात है कि भगवान हमारे आदर्श बनने के लिए मानव रूप में इस धरती पर आए। हमें धर्म को निभाने की ताकत दिखाने के लिए वह तमाम कष्टों से गुजरे। यही विश्व धर्म और योग की अवस्था है।

(श्री माताजी निर्मला देवी जी)



मानव का सूक्ष्म तंत्र



दोहा/सोरठ

सुनु ब्यालारि काल कलि मल अवगुन आगार।

गुनउ बहुत कल्युग कर बिनु प्रयास निस्तार।।१०२(क)।।

श्री राम के बारह प्रमुख गुण :

- मर्यादा पुरुषोत्तम: श्री राम मर्यादा अर्थात् दिव्य सीमा के रक्षक हैं और पूरी मानव जाति में सबसे महान हैं। वह एक आदर्श व्यक्ति हैं, जिनके वचन ही उनके कर्म हैं।
- माधुर्य: राजा के बेटे होने के बावजूद श्री राम का चरित्र मिठास से भरा है। उनकी सामाजिक उच्चता उन्हें प्रभावित नहीं करती है। वह जिस किसी के साथ भी मिलते हैं वह उनके व्यक्तित्व की मिठास में लिपटा रहता है वैसे ही जैसे गंदरी का कण एक सीप द्वारा मोती में बदल जाता है।
- निःस्वार्थ भाव: श्री राम ने अपनी प्रजा को अपने परिवार, अपनी पत्नी और बच्चों की तुलना में अधिक ऊंचा रखा। यदि राजनेता आज इस बात को समझते तो वे स्वार्थी नहीं होते और धर्म के अनुयायी होते।
- परोपकार: लोगों के कल्याण और जनता की राय के लिए सम्मान श्रीराम के जीवन का महत्वपूर्ण आदर्श है। श्री राम एक परोपकारी राजा थे और जब तक यह परोपकार हमारे भीतर नहीं आया तब तक हम एक ईमानदार सरकार नहीं बना सकते। जब हम दूसरों की भलाई के लिए परवाह करते हैं केवल तभी हम सच्चे अर्थों में नेता बन सकते हैं।
- विनम्रता: विश्व बन्दिन रघुकुंज से होते हुए भी श्री राम ने खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझ स्वयं का कोई झूठा मानसिक अनुमान नहीं लगाया, वह बहुत विनम्र थे। उनकी विनम्रता शबरी के बेर की स्वीकृति में दिखाई देती है।
- करुणा: दूसरों को प्यार और समझ के साथ बदलने का उदाहरण दिखाना है कि श्री राम सबसे दयालु हैं, और करुणा के सागर हैं। उन्होंने राक्षसों का वध भी संतों को बचाने की करुणा के साथ किया। अहिल्योद्धार अर्थात् गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार कर श्रीराम की असीम करुणा और उन्नीड़ितों के प्रति प्रेम का दर्शन होता है। करुणा एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है जिसका वास्तविक अर्थ हम आत्म बोध के बाद ही समझ सकते हैं।
- सत्य: श्री राम का जीवन पूरी तरह सत्य मार्गी था। उन्होंने जो कहा, सो किया और वास्तविकता से कोई पर्दा नहीं रखा। परम सत्य, जोकि आत्मा है वह हमारे चित्त में तब आती है जब ध्यान कुण्डलिनी द्वारा प्रबुद्ध होता है और हम वचन और कार्य दोनों से पूरी तरह ईमानदार और सच्चे हो जाते हैं।
- धर्म: श्री राम का सबसे बड़ा गुण धर्म के मार्ग पर चलना था। वह धर्म जोकि अन्तर्जात नैतिकता है, उसका पालन करने वाले थे। सबसे शांत और दयालु होने के बावजूद भी उन्होंने धनुष उठाकर राक्षसों और गुनहारों को सजा दी। राम का धर्म आत्मा का था। जब हम आत्मबोध प्राप्त होता है तो आत्म धर्म भी हमारे भीतर स्थापित हो जाता है।
- धैर्य: अपने दृष्टिकोण में धैर्य और कोमलता के माध्यम से श्रीराम ने लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने अपने वनावस की अवधि के दौरान चौदह वर्षों तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके चरित्र की सरस्र ताकत उनके चित्त की स्थिरता से आयी।

यही आत्मा की शांति हमारे चित्त में प्रकाशित होकर हमें पोषण देती है और इन गुणों को विकसित करती है।

१०. संतुलन: श्री राम संतुलन और प्रेम के तत्व पर खड़े थे।उनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल, प्रेममय और संतुलित था। यह सुषुम्ना नाड़ी का गुण है, हमारे उन्मत्त का मार्ग जो हमें संतुलन प्रदान करता है और हमारे जन्मजात विकास का मार्ग भी है।

११. आज्ञाकारिता: अपने जीवन के विभिन्न उदाहरणों में आदर्श मानव के रूप को चित्रित करते हुए श्री राम ने अपने बड़ों की और सही चीजों कि और आज्ञाकारिता दिखाई। उसी प्रकार जब श्री राम का तत्व हमारे हृदय में स्थापित हो जाता है तो हम आत्मा की आज्ञाकारिता का विकास करते हैं और जो सही होता है वही करते हैं। जो कुछ भी गलत है और हमारे व्यक्तित्व के लिए अनुचित है वह स्वतः दूर हो जाता है और सत्य हमारा सारथी बन जाता है।

१२. आत्मबल और दृढ़ संकल्प: श्री मर्यादा पुरुषोत्तम का पूरा जीवन उनके चरित्र की सरस्र ताकत, उनके प्रेम की शक्ति और जीवन में उनके कार्यों के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। जिन्होंने पूर्वनिष्ठा को एक अखंड उठाकर भी नहीं देखा, वह श्री राम सभी प्रलोभनों से ऊपर और इन सभी गलत विचारों से अलग थे। उन्होंने अपने आत्मबल, सतत: प्रयास और दृढ़निश्चय के माध्यम से जो कुछ कहा वह हासिल किया। हम भी इस गुण को विकसित कर सकते हैं, जरूरत है तो केवल हमारे आत्मा के प्रकाश में प्रवेश करने की जो अंतःस्थित, अनंत और सत्य है।

श्री राम का तत्व सनातन है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। जब हम भी अपने अंदर के सनातन तत्व जोकि आत्मा है उससे एकाकार हो जाते हैं, केवल तभी हम श्री राम को समझ सकते हैं। सहज योग से ये जुड़ाव आसानी से घटित हो जाता है जैसे दिल के धड़कने जैसी बाकी स्वचालित क्रियाएँ। हम अपने दिल को धड़काने में कोई बाहरी क्रिया नहीं करते, हम पाचन क्रिया में भी कोई कार्य नहीं करते उसी प्रकार कुण्डलिनी जागृति के लिए भी हम कोई बाहरी प्रयास नहीं कर सकते। यह सहज ही घटित होता है। सहज योग में इसी कुण्डलिनी के उजागर होने पर श्री राम के सभी गुण-धर्म हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार में प्रगटित हो जाते हैं। जब कुण्डलिनी सहस्रार छू, उसका भेदन करती है तो हमारे चित्त को आत्मा के प्रकाश से पोषित कर उसमें स्थित कर देती है। तब हम 'स्व' के अर्थ को जान, आत्म स्वरूप हो जाते हैं। हमारी उन्मत्तता का आखिरी चरण शुद्ध आत्मा बनना है और सहज योग से यह वास्तविकता अनुभव की जा सकती है और जीवन में उतारी जा सकती है।

यही परम सत्य है और अब समय आ गया है कि इस युग में हम सभी इसे समझें और अपना आत्म-साक्षात्कार प्राप्त कर अनंत आनंद और चिरस्थायी शांति से जीवन निर्वाह करें। जब हम खुद शांति में स्थित हो जाएंगे तो पूरे विश्व में शांति फैल जायेगी। पूरी मानवता की खोज का उत्तर अब आ गया है।